

Vol. 220
No. 21

Saturday
21 August, 2010
30 Sravana, 1932 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES
RAJYA SABHA
OFFICIAL REPORT
CONTENTS

Papers laid on the Table (page 1)

Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on
Energy - *Laid on the Table* (page 1)

Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on
Information Technology - *Laid on the Table* (page 1-2)

Statement by Minister-

Government Business in the Rajya Sabha for the remaining part of the
current Session
(page 2)

Government Bills-

The Representation of the People (Amendment) Bill, 2006 - *Withdrawn*
(pages 2-3)

The Representation of the People (Amendment) Bill, 2010 - *Introduced*
(page 4)

The Nalanda University Bill, 2010 - *Passed* (pages 4-46)

Re. Need to bring bill for reservation of SC/ST in Government
Employment (page 3)

Private Members' Resolutions-

Constitution of environment adaption and mitigation fund - *Withdrawn*
(pages 46-60)

Special financial and other assistance for developing Sikkim as an
international tourist destination - *Discussion not concluded*
(pages 60-74)

©

RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

PRICE : Rs. 50.00

RAJYA SABHA

Saturday, 21st August, 2010/30 Sravana, 1932 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report (2008-09) of Prasar Bharati, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. S. JAGATHRAKSHAKAN): Sir, I lay on the Table:-

- (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 31 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990:-
 - (a) Annual Report of Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi, for the year 2008-09.
 - (b) Review by Government on the working of the above Board.
- (2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

**REPORTS OF DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY
STANDING COMMITTEE ON ENERGY**

SHRI MOTILAL VORA (Chhattisgarh) : Sir, I lay on the Table, a copy each of the following Reports (in English and Hindi) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Energy:-

- (i) Tenth Report on "Availability of Gas and Coal for Power Sector"; and
- (ii) Eleventh Report on "Renewable Energy for Rural Applications".

**REPORTS OF DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY
STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY**

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, I lay on the Table, a copy each of the following Reports (in English and Hindi) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Information Technology (2009-10):-

- (i) Thirteenth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in Sixty-second Report

(Fourteenth Lok Sabha) on 'Management of

Funds by the Department of Posts through Banking and Insurance activities' relating to the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Posts); and

- (ii) Fourteenth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in Sixty-seventh Report (Fourteenth Lok Sabha) on 'Television Audience Measurement in India' relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

STATEMENT BY MINISTER

Government Business in the Rajya Sabha for the remaining part of the current Session

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, with your permission, I beg to announce that Government Business in this House for the remaining part of the current Session will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.
2. Consideration and passing of the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2010, as passed by Lok Sabha.
3. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Lok Sabha:-
 - a. The Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2010.
 - b. The Civil Liability for Nuclear Damage Bill, 2010.
 - c. The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2010.
 - d. The Orissa (Alteration of Name) Bill, 2010; and
 - e. The Constitution (One Hundred Thirteenth Amendment) Bill, 2010.
4. Consideration and passing of the Representation of People (Amendment) Bill, 2010.

GOVERNMENT BILLS

The Representation of the People (Amendment) Bill, 2006

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY):

Sir, I beg to

move for leave to withdraw the Representation of the People
(Amendment) Bill,
2006.

The question was put and the motion was adopted

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, I withdraw the Bill.

...(Interruptions)...

SHRI M. VEERAPPA MOILY: We have withdrawn it because we are
bringing a comprehensive Bill. ...(Interruptions)...

RE: NEED TO BRING BILL FOR RESERVATION OF SC/ST
IN GOVERNMENT EMPLOYMENT

श्री रामविलास पासवान (बहिर) : सर, हमारा एक छोटा सा
प्लान्ट है कि यहां पर पृथ्वीराज चव्हाण जी हैं और लॉ
मिनिस्टर भी हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का
रजिर्वेशन एक्ट है, वह अभी तक नहीं बन पाया है। SC, ST फोरम
में कांग्रेस, बीजेपी तथा अन्य पार्टीज के
एमपी ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति : देखिए, पासवान जी, ... (व्यवधान) ... आज कोई
... (व्यवधान) ...

श्री रामविलास पासवान : सर, एक मन्डिट। सर, एक मन्डिट खात्री सुन
लिया जाए। ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति : आपक्यों ... (व्यवधान) ...

श्री रामविलास पासवान : परसों SC, ST फोरम की बैठक हुई थी।
उसमें यह मांश्र की गई थी कि जो शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड
ट्राइब्स का रजिर्वेशन चल रहा है, वह गवर्नमेंट आर्डर से चल
रहा है। इसके लिये एक गवर्नमेंट एक्ट बनाना चाहिए। यहां पर
पृथ्वीराज चव्हाण जी बैठ हुए हैं, लास्ट टाइम UPA फर्स्ट की
सरकार थी, उस समय यह पार्लियामेंट में पेश किया गया था। उसमें
सब की तरफ से अमेंडमेंट दिया गया था और यह घोषणा भी हो गई थी
कि अमेंडमेंट के साथ वह बिल लाया जाएगा, लेकिन अभी तक वह बिल
नहीं लाया गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उसकी
इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? ... (व्यवधान) ... सर, बतला
रहे हैं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY;
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; THE MINISTER
OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND THE
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI
PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, the Government intended to bring a law to
codify everything properly because all the reservations are now
working in the executive orders. But, Sir, last time, we could not get
a consensus. The Government is still trying to build a consensus. Last
time, the Commission on SC/ST wanted some changes. We want to bring
that Bill, Sir, but we must build a consensus; and I will appeal to
the hon. Member, Shri Paswanji, to help us to build a consensus.

GOVERNMENT BILLS - Contd.

The Representation of the People (Amendment) Bill, 2010

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950.

The question was put and the Motion was adopted.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up The Nalanda University Bill. Shrimati Preneet Kaur.

The Nalanda University Bill, 2010

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI PRENEET KAUR): Sir, I beg to move:

“That the Bill to implement the decisions arrived at the Second East Asia Summit held on the 15th January, 2007, at Philippines and subsequently, at the Fourth East Asia Summit held on the 25th October, 2009, at Thailand for the establishment of the Nalanda University in the State of Bihar as an international institution for pursuit of intellectual, philosophical, historical and spiritual studies and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

In order to carry forward the decision taken at the Cebu Summit of the East Asia Summit, Government of India constituted the Nalanda Mentor Group in 2007 under the Chairmanship of Prof. Amartya Sen, which was mandated to examine all aspects including the academic and administrative structure that would facilitate the revival of Nalanda as a centre of excellence in East Asia and South Asia, reflecting in some measure the role played by the Nalanda University in ancient times. The Nalanda Mentor Group has held six meetings between 2007 and 2010, including an on-site meeting in Gaya, in February, 2009. The recommendations and comments of the Nalanda Mentor Group have been duly incorporated in the Bill.

The University shall have the following schools of education on its establishment: (1) Buddhist studies, philosophy and comparative religions; (2) historical studies; (3) international relations and peace studies; (4) business management in relation to public policy and development studies; (5) languages and literature and (6) ecology and environmental studies. The University shall have any other school as may be prescribed by the statutes. The Nalanda Mentor Group has

proposed that an additional school on information sciences and technology should also be set up.

The Nalanda University shall be established as a non-State, non-profit, secular and self-governing international institute with a continental focus. Government of India, as the host country, shall make the land available. The Government of the State of Bihar, which has acquired 446 acres of land for the University, has agreed to transfer this land to the Nalanda University. Private donations, international contributions from other foreign Governments and

member countries of the EAS are expected on a voluntary basis. Positive indications have been received from some member countries of East Asia Summit in the project. The Singapore Foreign Minister, during his recent trip to India early this month, announced that the Buddhist organizations in Singapore have offered funds amounting to around four to five million US dollars for building a library at the proposed Nalanda site.

The question was proposed.

SHRI BALAVANT alias BAL APTE (Maharashtra): Sir, while participating in the discussion on this Bill for establishment of the Nalanda University, initially I would like to make two general observations. One is about our approach to education and the establishment of universities. Sir, education is one and it encompasses all possible disciplines. But, unfortunately, our administrative structure is such that if a university is established for a particular purpose, then it doesn't come from the Education Ministry but it is established by some other Ministry which has nothing to do with education. Here this University is being initiated by the External Affairs Ministry. If some university is to be established in a tribal area, then again it is not through the Education Ministry but it is the Tribal Ministry which introduces it. If it is a college or university for social work, then sanction does not come from the Education Department but it comes from the Social Services Department. If a college or an institution is to be established in a rural area, it comes from the Rural Development. All these Departments have nothing to do with education and yet they establish universities. In such a situation, it is necessary that for the purposes of development of education in this country and when they are talking about that knowledge society, then education has to be under one command with the entire structure being seen as a part of the whole. That is missing. This is my first observation.

Secondly, all these years, after Independence our perspective has always been

Euro-centric. Our history is looked at from a Euro-centric point of view; our geography and economy are looked at from Euro-central point of view and even our map is drawn from a Euro-centric point of view. Now, the United Nations has corrected that map and the correct size has come. Otherwise, everything is Euro-centric. Fortunately, all this pattern is, in a way, evolving into something better and that is the aspect which is at the basis of the establishment of this University, and now we are looking eastward. Initially, it was South-Asia, then South-East Asia and now East Asia. This change of attitude is very relevant and, I would say, very welcome. Sir, from the economic point of view this is better. The other day I had asked a question about our Free Trade Agreements, particularly to know whether we are concentrating on this area or not. Fortunately, we are having Free Trade Agreements – AFTA, SAFTA, ASEAN – and, therefore, our attitude is changing economically.

So far as other aspects of international life are concerned, this entire area has a deep civilizational underpinning which naturally brings us together and our coming together may be able to shape the destiny of the world tomorrow. This area which is coming together economically, culturally and politically is very very relevant because this solid combination will shape the destiny of the world. Sir, before the establishment of this University and the establishment of South Asia University, these civilisational underpinnings were noted not only by us but by this entire region and this is reflected in three statements of this region which are the foundation of this legislation. I would like to refer to these three statements. One is given in the SAARC meeting held in Dhaka. The Dhaka Declaration of 13th November, 2005, expressly mentions, in so far as this region is concerned, our shared values, beliefs, aspirations and shared cultural heritage. This entire region has shared values and shared cultural heritage. Therefore, it becomes very relevant. In that circumstances, in 2005, we offered for South Asia that yes, we would establish a university here for this entire region. That offer was reiterated by our Prime Minister in 2008 in Sri Lanka that said that we would do it in Delhi. Consequently, the South Asia University Act was passed by this Legislature last year. Unfortunately, it was passed without discussion, and, therefore, we did not have the opportunity to share our views here. But, the legislation is passed and a University for South Asia is established in Delhi. I don't know about its progress, and in so far as established universities and their progress is concerned, I have always been pessimistic. But, I hope that something might have been done.

Sir, the second relevant international statement was made in the Second Summit of East Asia. That was in 2007. There, the Chairman's Statement, that is, the Statement of that Summit mentions renewal of our historical ties, and as a part of that renewal of historical ties, it is mentioned that let us revive the Nalanda University. The reason that was given then was "for improving regional understanding, appreciation of one another's heritage and history." This is the commitment which we made and the Bill has now come. Sir, the third document, which really throws much light on what this country can do

for this entire region, is the ASEAN-India Summit. These summits are going on for quite some time now. This Fifth ASEAN-India Summit was held in January, 2007, and I do not know the coincidence, but it was 14th January, that is the day of Makar Sankranti, the day of change – change towards brightness. On that day, the Chairman’s Statement, that is, the Statement of that ASEAN-India Summit mentions three things. One, they say, and they are addressing India, that your ‘Look East’ Policy is welcome. Secondly, they say, “We acknowledge India’s cultural and religious influence in Asia and other parts of the world.” They have referred to this cultural and religious influence along with the influence of Bollywood, our weightless goods. Then, thirdly, they say, “We welcome India’s offer to institutionalise the training course for diplomats from ASEAN countries.” We have initiated that and we have said that we will establish a permanent institution here for training diplomats for the

entire region. So, India, a natural, historical hub of knowledge and training, is again seeking to assume that role. Thereafter, the Fourth East Asia Summit was held in Thailand and we again offered that this University shall be an international university and it was decided there that Nalanda University will be established in this country. In this background, the present Bill is introduced and naturally, what the preamble says is from these Summits' statements. The preamble says that we are establishing an international institute for pursuit of intellectual, philosophical, historical and spiritual studies and for matters connected therewith. Secondly, it mentions that we are doing this to improve regional understanding and appreciation of one another's heritage and history – the second East Asia Summit – and, thirdly, networking and collaboration between the proposed Nalanda University and existing Centers of Excellence – the fourth East Asia Summit – so that the participating countries can work together symbolizing the spirituality that unites all mankind. This is what the Summits said, and, this is what we have adopted as the Preamble, naturally, and, now, this Bill has been introduced.

Sir, earlier, the Bihar Government had taken a welcome initiative and had already established the University of Nalanda in 2007. As several other good initiatives by the Bihar Government for development, this initiative was naturally very good, and, now, that University under this Bill is being incorporated under an Act of Parliament. Sir, at this stage, I will not go into the sections of the Bill. The objectives are those which have been mentioned earlier.

As I said, this shows that we are, again, going towards the idea of this country being the hub of knowledge and learning, and, it is very relevant in this 21st century where we are talking about the establishment and existence of knowledge societies in which India has a primacy in terms of its youth, its talent, its knowledge and in terms of information, knowledge and wisdom. Information is relevant if it is knowledge, and, knowledge is relevant if it is blessed with wisdom, and, all these put together is one word in this country, which is called, 'Vidya'. Vidya is knowledge with wisdom, and, we say, साः वदिया याः वमिक्तये। Earlier, it was wealth; yes, people came here mainly for wealth; but people came here for knowledge. So, we have that rare combination of wealth and wisdom, and, therefore, the Universities in this country were sought after by the entire world.

The history goes back to 3000 years. 800 years B.C., Takshila University flourished. This university had 18 disciplines, from Combat to Construction, from *Ved* to *Vadan* and, students from as far as Mesopotamia, Parthia, Media came to this university to study.

Sir, we had university at Gunashila. Sir, Bihar had been the cradle of the Indian civilization, of the Hindu civilization. All this is in Bihar. Gunashila, a Jain university in Bihar, was established 500 years B.C. It was a Jain university promoting mainly women's education, and, then, there was Kundinpur, again, of 500 B.C., and, it was mainly for physical training. Then, Kanchi was there from 100 B.C. to 1200 A.D., and, then, of course, Nalanda. Nalanda flourished between 400 A.D. to 1200 A.D. This university had students and teachers from all over the world. Hiuen

Tsang was a student here who toured the entire world. Several other Chinese were students here. There were 78 disciplines, as they say, 14 x%Ö=Ö, 64 Ūú»ÖÖ, from Ayurveda to Dhanurveda, and, from Ved to Viman. Unfortunately, anti-civilisation invaders came and all this was destroyed. Now, we have this University.

Sir, I have two-three specific suggestions in so far as this University is concerned. One is, the motto of this University should be शील वृत्त फला वदिया। शील is character and वृत्त is conduct. So, the knowledge should be such which will guide both character and conduct, and that should be the motto of this University which is going to be an international University. Sir, an amendment is coming from one of the respected Members of this House who says that this concept of University should be abandoned. If it is to be really an international University, it should be a University of learning. So, it should be *Vidyapeeth*. He says adopt that word, bring it into English and enrich that language. Secondly, Sir, what this University should do – in fact, every educational institution should do – is this. Why are we here? Why are we learning? The example of the Yale University is, I think, worthy to be emulated. Sir, the Yale University established a course. They call it direct studies. This course was established after the Second World War and the reason was to tell the present students the ingredients of the civilisation for whose sake the War was fought. Why was the War fought? Not merely to defeat Hitler, but to save a civilisation and the ingredients of that civilization should be known. That is why the War was fought. That is why we are here. Therefore, that course of direct studies was established in the Yale University. I believe, this University should also establish a course as to why should we read. To protect the ingredients of a rich civilization which this entire region inherits and which this entire region has a responsibility to transmit to the rest of the world. Sir, if we do this and if we retain the high standards of education in this University, maybe this can be a hub like the South Asia University. Students not only from the Asian region but from the entire world will come for knowledge and wisdom which this country is destined to give to the world. Thank you, Sir.

DR. KARAN SINGH (NCT of Delhi): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to support the Bill. India, through the ages, has been the repository of knowledge and wisdom, not only in philosophy and religious studies but in many other fields, in medicine, in metallurgy, in architecture, in

numerous fields which are enumerated in our sacred texts. This knowledge has spread throughout the length and breadth of India, starting perhaps in the Himalayas. *Kalidasa* in his first sloka of the *Kumarasambhavam* described the Himalayas as:

अस्त्युत्त् रस्यां दशि देवतात्मा
हस्त्रिलयो नाम नगाधिराज :।
पूर्वापरौ तोयनिधौ वगाहय
स्थित : पृथिव्या इव मामदंड :॥”

A great divine presence that has given us the stream of education of various religions, of pluralistic tradition that is in India all the way from the Himalayas down to Kerala and Kanyakumari. Sir, three great religions had been born in India, in fact, four, Hinduism, Jainism, Buddhism and later Sikhism. But the two religions that really spread throughout south and south-east Asia were Hinduism and Buddhism. I am sure many hon. Members have been to Angkor Wat. It was built a thousand years ago at the same time as Rajaraja Chola was building the great Brihadeeswara temple in Thanjavur. Simultaneously, this great temple was being built in Cambodia. It is the largest place of worship in the world which is one square kilometer. It is a marvel. It started off as a Hindu temple, Vaishnav temple and Shaiva temple, and then became a Buddhist temple, but without any destruction.

One of the unique features of our cultural efflorescence is that it has never been through the force of arms. All our cultural spread was entirely peaceful. That is why you will find that in the whole of South- and South-East Asia, whether it is Burma or Thailand, Vietnam or Cambodia, or all the way to Korea or China, through Tibet to mainland China to Japan, all the developments that had taken place, the deep impact of Indian culture there has been through the ages entirely peaceful. This is perhaps unique in world history. This is the culture that has never tried to use force to impose itself. It has sent merchants; it has sent artisans; and it has sent architects. That is why those cultures are still greatly treasured by those countries, even though they may have become Buddhist countries, and there are many Muslim countries.

In Indonesia, for example, there is Prambanan temple of Shiva, Vishnu and Brahma. The Borobudur is the Bhadra Vihara, the great vihara. Indonesia is a 95 per cent Muslim country. But it treasures, respects and maintains all these great treasures. The architecture, the philosophy and the literature of India have had a tremendous impact upon South- and South-East Asia.

Sir, the Ramayana story, for example, is told throughout Asia in different versions. I have seen a Ramayana story being danced in Indonesia. That is much better than our Ramaleelas here. The Ramaleelas here have become gross, crude and noisy, whereas the way they portrayed it in Indonesia was very graceful and all the actors

were Muslims. In Thailand, it is so graceful. We have had this great creative impact.

Today, we are discussing Nalanda. There were other great universities like Vikramshila and Takshila. Nalanda was par excellence the international symbol of India's eminence in the field of knowledge. Even, I believe, the Prophet of Islam, somebody can tell me, said that from India he got the fragrance of wisdom. That is in the West. But, in the East, there is this great residential university. It was a marvel. It was an architectural marvel. Ten thousand students would be living there in the university. There were two thousand teachers from all over the world. And for eight hundred years, this university became, we would say, the Harvard and the Oxford put together of ancient times.

It was such a great university. Many people used to come there. Nagarjuna came there. Hiuen Tsang came there. Many great people came here and received knowledge and went back. They also brought some knowledge. Our concept has always been “+Ö नोः भद्रा : कस्तवो यन्तु x%ÖÄ%ÖYÖ:” It means let good knowledge, good thoughts come to us from every side. That is what Nalanda stood for.

Nalanda is a great symbol. People from China, Japan, Mongolia, Central Asia, Afghanistan, Bukhara, and Tibet used to come to study here. Unfortunately, it was destroyed in one of the greatest holocausts in human history. Bakhtiyar Khilji's troops burnt Nalanda. Ten thousand monks were either burnt alive or beheaded. And the library of Nalanda, which was a greatest repository of wisdom ever, burnt for six months. That's one of very frightful episodes in our history. But, none the less, it does not distract from the great achievements of Nalanda. Therefore, Sir, it is a matter of great satisfaction and I would like to congratulate the Government of India for having taken this initiative now 800 years later. Nalanda existed, first of all, for 800 years; then, it was destroyed after 800 years; now, 800 years later, we are re-establishing another Nalanda. My friend wondered why it wasn't under the Education Ministry. The answer is simple. It is a trans-national university and it is the External Affairs Ministry that has to deal with the representatives of the friendly Governments that are helping us – whether it is China or Japan or Thailand or whatever. That is why, the university is there. I do not accept that all universities must necessarily be under one super czar. After all, we are living in a pluralistic world. Many technical universities are now developing. Therefore, there is no necessity that they must all be under the same Ministry. In any case, there is a great deal that can be said, but, my plea is, let this not be just another university. Let it be a genuinely trans-national university. Let the faculty come from these countries also. Let us re-establish the links between India and South and South-East Asia that were shattered by centuries of colonial rule. We can re-establish the links, to some extent, through Pali, through Prakrit and through English. English is a world language now. We must really see that the architecture also reflects the ancient greatness. I went to Nalanda a couple of years ago and I visited the Hiuen Tsang Memorial that has been made. I must say, it is very beautiful. If we are able to build up a university, not through the PWD architecture, with folded hands, I may say, let us have some innovative architecture. If Indonesia can

have innovative architecture, Hindu-based architecture or Buddhist-based architecture, why can we not have? We must have something that looks different, something that feels different and something that is different. And, the structure, with the public private partnership plus the trans-national dimension, is a very special structure. Therefore, I submit that whoever is in charge of this university, the whole team, has got to be very sensitive and very imaginative to try and build something that is entirely new.

Sir, Asia is rising again after many centuries of servitude and I sincerely hope that this new Nalanda will become a symbol of a resurgent Asia and, of course, a resurgent India.

SHRI BALAVANT ALIAS BAL APTE: Sir, Cholas from Tamil Nadu went beyond Indonesia and took the entire civilisation with them and that too, peacefully and not militarily.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Pramod Kureel. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAMOD KUREEL (Uttar Pradesh): Honourable Mr. Deputy Chairman, Sir, I feel very privileged and honoured to be here making this my maiden speech in this House and that too, on such a subject like Nalanda University. I think, I cannot think of a better speech than speaking on this subject.

Sir, Dr. Karan Singh, my senior colleague in this House, has spoken very beautifully about history, art, culture and architecture of Nalanda University as it existed hundreds of years back. He was referring to Nalanda University and he was comparing it with Oxford, Cambridge and Harvard of today. He said that Nalanda was Oxford or Harvard of that time. I think, we should call it the other way round. Oxford, Harvard and Cambridge are Nalanda of today. There is a lot which has already been said by the earlier speakers, especially, Dr. Karan Singhji, who is a very learned man, a man of high intellect. To my mind, Nalanda is not just a University in the normal sense of the word. To me, Nalanda encapsulates, epitomizes the universal values of global peace, brotherhood, fraternity and equality. Nalanda is not just another University, and I won't like to even compare it with Harvard or Oxford. Maybe, they have their own value in the given time, in the present time. Nalanda was not just for imparting education to students from the world over. Its role was more in terms of creating a value system, and Dr. Karan Singhji just pointed out a few minutes back that some miscreants, some people, they burnt it. The library of that University kept burning for almost six months or more. I do not want to go into the details as to who burnt it and why they burnt it. There can be many interpretations, many view-points on the subject. Whatever that may be, to my mind, the way again after hundreds of years, thousands of years, this Nalanda University is again going to become a reality, or, should I say, it is again going to rise like a phoenix from the ashes. Literally and figuratively speaking, again, it is going to rise like a phoenix. In that sense, I congratulate the hon. Minister for introducing this Bill here in the Rajya Sabha. I thank her for the same.

Besides that, I would like to make a few points, a few suggestions. There are two aspects of the Nalanda University why it is famous the world over even today. One was, of course, the subjects which were taught there. It is very difficult to imagine that hundreds of years back, thousands of years back, subjects like Astronomy, Literature, Arts, Architecture, Management, perhaps, and what not, these were taught in that University when the Universities like Oxford, Cambridge and Harward were not even born. Almost the whole of the world was living in dark ages, semi-civilized conditions. But here in India, in Nalanda, in the present day Bihar, we saw this University which came up, which attracted students from all over the world, specially, Asian countries. I think, it is something that we should all be very proud of, and in that sense, after

hundreds of years, this University is again coming up. It should be a matter of great pride for all of us.

As it was pointed out by Dr. Karan Singhji that this library was burnt, yes, it was burnt. We all know it. All the knowledge of hundreds of years perished in that fire. But my feeling is that one can burn a book or a library, but one cannot burn, one cannot perish the value system which has become a way of life for common masses. That is why even though Nalanda University does not exist as it existed 100 years back, the values it propounded, the value systems it propounded, they still lay in our country, in our hearts, in our minds, and these values and these value systems have, again, ensured that the Nalanda University is coming up again after a gap of 100 years. It is a matter of great satisfaction for all of us.

Sir, I would like to make, here, a few suggestions. My first suggestion is that this Nalanda University, which is coming up again, should be modeled in terms of both its academic curricula and its architecture and should be based on the historic Nalanda City so that the image of Nalanda University could still be seen by us. The new building or the new campus should take into consideration the architecture of old Nalanda City or old Nalanda University. We do not say that the Nalanda University is being created. Instead, we should say that it is being recreated. So, it should be a continuation of the same values, same architecture, same planning and same thought which existed in yester years and which is again coming up today.

Secondly, today, we are seeing that the students, especially from India, existed in yester years; they take great pride in going to Oxford or Cambridge. We proudly call them, when they come back, 'Oxford Returned', 'Howard Returned' or 'Cambridge Returned'. I think there was a time, hundreds of years back, when students from all over the world used to claim that they are 'Nalanda Returned' and they used to take pride in that. Today, a lot of our talent is going to other countries. First, they go there for studies. Then, they stay there. They do not come back. It is causing 'brain drain' as it is called. I think, with the coming up of this Nalanda University, in a few years' time, we can convert this 'brain drain' into 'brain gain'. The students from other countries will take pride in coming to India to study in the Nalanda University, and this will not only stop 'brain drain' but will also enrich our society, our country further where you

can stop the 'brain drain' and we can call students from other countries to come and study here, and continue their work.

Thirdly, in the proposed Nalanda University, - this is my humble submission and suggestion - the Buddhist religion, Buddhist philosophy, Buddhist art, Buddhist architecture and Buddhist value system should be the focus of academic curricula. Since we are saying that it is coming up again after a gap of hundreds of years, there should be a continuity of those values. It should not seem as if only for namesake you are repeating the name 'Nalanda' and the course content, and that the academic curricula should be entirely different from the earlier one. Instead, there should be continuity in terms of courses to be offered and the central theme of

that University in terms of academic curricula should be Buddhist religion, Buddhist philosophy etcetera, etcetera.

As you know, Sir, in every university, there is a tradition, there is a system of establishing Chairs in the name of eminent personalities. My suggestion is that in this University also Chairs should be established in the name of Dr. Ambedkar, Ashoka the Great, King Kanishka, Sariputta Moggalayan, Rahul Sankratyayan, Bhadant Anand Kosalyayan, etc., who were great exponents of Buddhism and who devoted their lives for the spread of Buddhism as a religion, not only just in India but also all over the world, and preservation and promotion of Buddhist arts, culture and literature.

At the same time, when this University Campus comes up, various buildings like libraries, academic sections, hostels and gardens should be named after eminent personalities as it is a general tradition everywhere. Dr. Karan Singh has just referred to the Huen Tsang memorial at Nalanda. My suggestion is that important buildings in this Nalanda University should be named after important Buddhist personalities, both national and international, who were connected with this University in old times. Personalities like Fa Hien, Huen Tsang, Bodhi Dharma and many others were associated with this Nalanda University one way or the other. In their lives, they came to Nalanda, lived there, studied there, went back and spread Buddhist religion all over Asia. So, their contribution, especially, Fa Hien and Huen Tsang, is very important and, I think, we can only pay back a little bit for the enormous work that they have done for the cause of Buddhism and the spread of Buddhism by naming a few buildings and structures in this University after them.

Another thing which comes to my mind is this. I have read in the newspaper reports that His Holiness Dalai Lama's name is not there in the panel. But somehow his name is missing from this University's panel. I can understand that the Government might have some problem because of certain reasons, because of certain neighbouring countries. But my humble suggestion is that His Holiness Dalai Lama should not be seen just as a head of Tibetan Government in exile or just as a religious leader. More importantly, he is a moral authority. He is not just a religious leader. He is a moral authority which is accepted and revered all over the world. My feeling is that he should be there as an important Member in the Governing Body. I hope that the Minister will try to see to it that His Holiness name is included in the list of Members of Governing Body of this University.

There is already a provision in this Bill - it is a very good provision - that learned persons, who are exponents of Buddhism, religion, art, culture and architecture, from all over the world will be invited as guest teachers and professors. I think, it is a very good idea. The Nalanda University should truly be a global university and I welcome this step. Sir, again, I am taking a cue from Dr. Karan Singh's speech. He was referring to the architecture of the Nalanda University. Somehow, I am also an architect by profession. I was practising earlier as an architect, but now I am in Rajya Sabha. So architecture for me is a special thing.

12.00 NOON

Dr. Karan Singhji rightly said that such a prestigious, global, important University should not be handed over to an agency like the PWD or anything like that. My suggestion is that there should be an international design competition for designing the campus of this University. Architects, from all over the world, should be invited and they should be given a chance to contribute their intellectual and design input for the designing of this University. This is also a very important aspect because when we talk of education, I think and I know from my experience, architecture of a university greatly affects the learning environment. So, the proposed building, my humble suggestion is, should not be just a steel and glass box that we see everywhere today. The architecture of this University should be based on old Buddhist architecture. This is my humble suggestion. Sir, as you know, Buddhism in this country, is followed by everybody, all sections of the society. But, especially the SCs, STs and OBCs of this country, have a special place for Buddhism in their hearts. They may not be practising Buddhism; they may not be having the label of Buddhists, but Buddhism, as a religion, as a value system, has a special place in their hearts. My humble suggestion is, the reservation quota for SCs, STs and OBCs, both in faculty and for students should be ensured as per the policy of the Government of India. Why I am saying this thing is, of late, there have been some instances when the Government or the Ministry arbitrarily put a tag of 'Centre of Excellence' on a particular university, and from that university the reservation quota for SCs, STs and OBCs is totally scrapped. I hope the reservation quota for SCs, STs and OBCs, both in the faculty as well as for students, will be ensured and it will not be scrapped in the name of 'Centre of Excellence' from this great University.

Sir, the Nalanda University is going to be funded by the Central Government with a budget of around Rs. 1,000 crores. I think many other countries are also contributing in this budget. But I would like to make one suggestion. As this University is going to be funded by the Government of India and some other countries, there should be a provision – I am just giving an idea for the Minister to work out or the people connected with it to work out – that contribution from everybody, right from the common man to the richest man on the earth, should be welcomed for the construction, management and maintenance of

this University. Why I am saying this is, this University is not an ordinary University. It is not just a historic University. It has a very important place. It is coming up for people all over the world. Everybody, all the citizens, the global citizens, should be made to involve through their monetary contribution, whatever little it may be. Maybe, the Government can put a cap, the minimum and the maximum limit. But there should be a provision that everybody, all the citizens of the world, from every country in the world, should be in a position to contribute a little bit from their pockets for the construction and management of this University. I think that will make them a real participant and shareholder in the value system, which the Nalanda University is going to re-create. Then, this University, we

can say, can be a project of the global citizen, by the global citizen and for the global citizen. In my view, that would epitomize the spirit of the historic Nalanda University, which is going to come up.

Finally, Sir, I congratulate the Minister for bringing this Bill in this august House. I hope that very soon, the Nalanda University will become a reality, will attract students from all over the world, and will regain its glory that existed hundreds of years back. And I hope that the spirit of historic Nalanda will continue to flow in through this present day Nalanda. I can assure the hon. Minister that when this Bill comes for voting, you will get the loudest 'Ayes' from our side. And, I thank you, hon. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, now that we are having the Private Members' Business today, and we have to take it up at 2 o' clock, we will have to skip the lunch hour. There are still 14 Members to speak on this. So, I would request the hon. Members, while speaking, to look towards the two boards, that have been put up, for the time left for Members and their respective parties. Kindly cooperate with the Chair. Now, Shri Sitaram Yechury.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, I am rising in support of this Bill, and fortunately, I am in such a position where I cannot see either of the boards, unless I develop a pain in my neck turning towards this side and that side. And, you do not have one put up on your side. So, I kindly seek your indulgence.

Sir, I am rising in support of this Bill. I am also very excited at the prospects of the establishment of such a University which is an international project, a project of 16 countries jointly to establish this University with a very eminent team of international thinkers, philosophers, Nobel Laureates, etc. I am excited at the prospects of this University being established, not in terms of settling scores of the past in history, but in terms of trying to revive the glory that once was of Nalanda, which is very important - I would want it to be revived - and not in terms of saying that so and so did such and such wrongs, and therefore, I am doing this to correct the wrongs of history. I think I am excited at the prospects for the future; I am

excited at the prospects of what we have contributed in the past, which needs to be carried forward for the future. Dr. Saheb has very correctly said about Bakhtiyar Khilji's troops and the vandalism they did at Nalanda. This is the history, Sir. The barbaric nomads and tribes called Huns destroyed the mighty Roman Empire. But these wrongs of history are not the ones to be corrected by establishing a University, or, for that matter, a question that plagues all of us is that after the 7th century A.D., is Buddhism thriving outside the borders of India. Why is it that inside the borders of India you find Buddhist culture only in caves, where people were ostracized from the society? Why is all their art and literature underground in caves? These are issues of history. That is not the project of this University. The project of this University, Sir, from what I can conceive of it,

and I want this to be considered seriously, is what Nehru says in 'Discovery of India' on the eve of Independence. How does he describe India? Jawaharlal Nehru invokes the very evocative example of the palimpsest. Now, what is the palimpsest? In ancient times, before the discovery or invention of paper, the palimpsest was either a tablet of stone or a tablet of wood on which every victor would erase the past history and write his own version of history. But then, as Nehru says in the *Discovery of India*, "India is an ancient palimpsest on which layer upon layer of thought and reverie had been inscribed, and yet, no succeeding layer had completely hidden or erased what had been written previously".

Sir, we are the churning crucible of human civilization, and that is what these lands represented. Various tendencies have come; we have assimilated various tendencies and on that basis, we have advanced. And today, the BBC describes, in its Epic History series, India as the only continuing civilization in the history of human civilization anywhere in the world. Dr. Karan Singh referred to Raja Raja Cholan's Thanjavur temple built in 1002 B.C.; in 2010, every morning, at the stroke of dawn, it opens with the same *shlokas* that have been read out for over 1008 years. You have that continuity and you have the change. Nalanda represented that; it represented for a millennium, for 800 years or more, from the 6th century B.C. to the 6th century A.D., the repository of world's knowledge where the advent of ideas was continuously taking place. If you go by the accounts of Huen Tsang, it was not only a temple of knowledge, but a temple of the highest pinnacle of tolerance, and religious tolerance at that, which is something that we have to imbibe today. So, today, in restarting the Nalanda University, we should look into the future. And, Sir, this is where the issue of tolerance is absolutely important. It is not to reclaim that glory - of course, it is the glory; *Angkor Vat* is a glorious example. But the question is, those glories came on the basis of a knowledge. We had the discovery of the zero during this period. This millennium was the period of maximum scientific advance. It is a different story, why it stopped after the 7th century A.D.; why did we not advance and why did the centre of knowledge move to the West? These are issues of intolerance; we will have to make sure that they do not interfere in the work of the university. There is a fascinating book written by a French intellectual Charles Seife, called, *The*

Biography of a Dangerous Idea. And that dangerous idea was the zero, which the Arabs took from us, and the world came to know of them as the Arab numericals but, to be fair, the Arabs always gave us the credit for having discovered it. Now, why was it dangerous? Can you conceive, Sir, today, of nothingness? It was impossible in human civilization at that point of time to say, there can also be a possibility that nothing exists. And what was the counterpart? A zero cannot be conceived even today in mathematics, without having the conception of the infinite. Infinity and zero go together, as dialectics will tell you, the unity of the opposites. And that is the reality! And such discoveries that were made from a base like Nalanda is the basis on which we have to advance to the future civilization. So, my request would be, let us not reduce this university to settle scores of history. Let us not reduce this

university to restore the so-called glory of the past; let us build the glory of the future. It is the building of the glory of the future that Nalanda must actually represent. I think, this is where it becomes very important for us here to talk of that future. It is ironic – I don't want to mention it – but Bakhtiar Khilji was the one who destroyed it. The current Chief Minister of Bihar was born in Bakhtiarpur. He is the one who is moving the legislation for the resurrection of this university. So, history has its own ways. So, let us not try to settle historical scores; but, when it comes down to research, I think, that is where some fine-tuning needs to be done with this Bill because we are talking in terms of establishing by law of the Indian Parliament what is stated as a university that is 'a non-State, non-profit, secular and self-governing international institution'.

With the sovereign law of India establishing such a university, it also goes on to say, 'we have to have further agreements with all these countries on how this university is run'. These are all the fine print which we can go into. But, the conception and the perception of the university is what actually concerns us today. I think, we have come to a stage in India where this churning crucible which is called the Indian civilization has a variety and divergence that is unknown and unconceivable anywhere in the world from the Kashmiriyat to the Dravidian civilization, from the *pari mahal*, which was once in Dr. Karan Singh's kingdom where Dara Shikoh wrote that famous treaty called *majma-ul-Bahrain*, where he was talking of the synthesis of Sufism and Upanishads, mingling of the two oceans. The brink at which we are today—we were, Sir, and we still are—at advancing human thought, human civilization to higher levels. Such is the levels to which, I think, this university will have to aim. As Marx said once, Sir, before the evolution of capitalism, all ideological differences were settled in this sphere of religion. Religion was the theatre. And that is why when zero was invented, the complementarity of the infinite came up. What is the symbolism that emerged from this civilization? If you have the cosmic dance of Shiva in the Tandav, which the Tao of Physics inscribes it at the CERN Laboratory in Switzerland today where the Hadron collider is actually trying to find out what has happened at the first collision in the cosmic space, when

the zero was created. At that laboratory, you have the Tao of Physics quoting the cosmic dance of Shiva's Tandav. How do you portray Shiva's Tandav today? You always portray Shiva's Tandav only in a circle which represents the zero—the infinite of the Tandav and the zero of the material world cannot be separated. It is this unity of opposites that dialectical materialism tells us, Sir, which generates the adventure of ideas. It is towards this adventure of ideas that we will have to move.

Therefore, I think, in the final analysis, we must remember, Sir, that we are moving into a higher plane of human intellect and civilization. Remember the final paragraph of Swami Vivekananda's declaration at Chicago. ...(*Interruptions*)... He says, 'I take pity from the bottom of my heart on those who believe in the destruction of someone else's religion for the purpose of

his own religion. In the final analysis it shall be inscribed on the banner of every religion assimilation not destruction.' I am quoting from my memory; there may be small mistakes of comma or full stop. That is the philosophy with which we have advanced and come to this stage. Therefore, what is required in the final analysis is that you have to get back to the creation of this university—I again go back to Nehru; in the first few days after Independence when he was delivering the convocation address of the Allahabad University. This is what he says about a university, Sir: "A university stands for humanism, for tolerance, for reason, for the adventure of ideas and for the search of truth. It stands for the onward march of human race towards even higher objectives. If the university discharges its duties adequately, then it is well with the people and the nation." This Nalanda University will have to fulfil these objectives. I would want this august House, through the adoption of this Bill, to set up the mechanism internationally where these objectives can be achieved, and, I think, under the leadership of Dr. Amartya Sen, there is a very eminent group that has been working out on the dynamics of this. While I fully agree with Dr. Saheb, this is the final point, Sir, about the architecture of the building, I would like the entire House to join us in trying to build the intellectual architecture for this University. The intellectual architecture, in the final analysis, is the most important thing. With that objective, I rise to support this endeavour, and, I think, this is a very exciting endeavour that will take India into higher planes of civilization. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The debate was of such a high standard that I forgot to see my watch. Now, Shri N.K. Singh.

SHRI N.K. SINGH (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am privileged to speak on this important Bill which not only celebrates, perhaps, one of the most glorious periods of Indian history but also represents in some ways what previous speakers have said a beacon of hope, and what India can really offer to the world.

I am particularly privileged, Sir, also for two reasons. First, belonging to Bihar and having studied in Patna, remember the numerous occasions when Rajgir, one of the favourite picnic spots, was roaming around the hills of Rajgir, built from the quartz rock, much older than the formation of the Himalayas, and being overawed by the names

of Jarasandh, Bimbisar and Ajat Shatru, the son of Bimbisar, who established Pataliputra in the 5th century B.C., one could not but see the sad ruins of glorious Nalanda quite proximate to the sites of the hills of Rajgir. I had wondered at that time whether ever a day would come when we would be able to recreate, in some form or the other, and innovatively so, another university in its proximate surroundings to represent the ruins of Nalanda. That day, Sir, fortunately has arrived. That day is today. That day, Sir, is embodied in this legislation, which is before us.

Second, Sir, having been privileged to be a member of the Mentor Group and a member of the Transitional Governing Body of the proposed Nalanda University, I have been privileged to be

associated with the design, with the conception, the architecture and the sort of the vision which has been expressed by many of the previous speakers so eloquently, Sir.

One does not have to be a linguist or a historian to know that Nalanda which really means Lotus, representing knowledge and to Give Knowledge in Perpetuity, a seat of ancient learning, established in the time of Kumara Gupta in 427 AD and continued to be there till its destruction after the fall of the Palas in West Bengal, around the twelfth century. For those 700-800 years, with 10,000 residential students, 2,000 teachers and practicing Buddhism, not in the narrow confines of Buddhism, not in its religious context, but in the broader context in the pursuit of astronomy, of physics, of medicines and of mathematics. That is the broader context in which a Buddhist University established at the time of the Gupta empire really managed to be the seat of intellectual power. Sir, I, therefore, view today that this initiative has four important attributes. First of all, it is a high point of catalytic effort, and can become an 'Icon of Asian renaissance'. Many have increasingly described the 21st Century to be an Asian century. I cannot forget what Prof. Amartya Sen continued to remind the Mentor Group that almost during the period, if not the very week, when Oxford was being inaugurated, Nalanda was being destroyed. And, while Oxford does not represent, perhaps, Europe's oldest university, the older versions being Padua, Bologna and Paris, which for 150 years co-existed with Nalanda, the fact remains that the inauguration of Oxford and the destruction of Nalanda more or less during a synchronized period did represent in some sense the transition of intellectual power and knowledge from Asia to Europe. And whether the revival and the Asian renaissance represents not merely the economic powers with which we want to reposition Asia, improve our life quality but in some way regain the intellectual and knowledge leadership which Asia had forgone 800 years ago. Therefore, this effort of Nalanda as is being described by many scholars, Sir, an icon of Asian renaissance. Second, Sir, we all know that the old Nalanda University was the confluence of East Asia and South Asia. It represented, therefore, the cross civilization influences between these two important strands. In some way, therefore, we would want to see whether Nalanda would try to seek these commonalities which

existed at the time of the old Nalanda as confluence between East Asia and South Asia. Third, Sir, whether it could be trend setter for the power of soft diplomacy and whether, in some way, the old Nalanda University could look towards not only a pan Asia but looking to the Asia and the Pacific. There are two important attributes to this. First of all, Sir, we know that in the Chinese literature, *tianxia*, which represents (All Under Heaven), a formal tribute system, as indeed under the Indian who describe the world to *mandala* and viewing it in different forms, transcending territory. And, whether, therefore, the differences in territory, factors of sovereignty could, in some way, be transcended by the power which is some way this kind of effort which existed in Nalanda long time ago could hope to recreate and could make advances in overcoming geo-political differences, differences in territories by the power or what culture and education can live together. Finally, in terms of its broader purposes with the

institutional mechanisms like the East Asia Summit and other kinds of efforts which are being made can in some way bring together and strike at the broader commonalities of Asia, Asian values and what can strike between beyond Asia, into the Asia Pacific region as a whole. I would not like to go into the main features of this Bill. They have been described exceedingly well by some of the previous speakers but to emphasize two important actions. First, its secular character and it is part of the important objective of the Bill, one of the important objectives is to understand Buddha's teachings in the contemporary context without excluding any other thought and practices from any other part of the world. This was an important objective of the old Nalanda University. This remains an important objective of the new Nalanda University. And, indeed, in one of the schools of the Nalanda University the Buddhist studies, philosophy and the comparative religions seek to bring about and strike this kind of a commonality. I will not go into the funding of it. I am conscious of the constraints of time but I cannot end my short intervention today except to quote, somewhat, with your permission, Sir, one little passage from the book Amartya Sen, the mentor of this group, who talks about India and China in the context of Nalanda. I seek your permission to quote that when Xuanzang, who has been referred to by the previous speaker, was just leaving Nalanda at that time where he lived for sixteen years and he was being implored by the monks of Nalanda to stay. This is what Xuanzang had to reply. When he was asked why he was leaving, he replied in a rhetorical way that Buddha established his doctrine so that it might be diffused to all lands. Then he asked the monks, "Who would wish to enjoy it alone and to forget those who are not yet enlightened." I think, with these words, Xuanzang took leave of the monks of Nalanda and he left. Let me end on an optimistic note, Sir, to say that let us hope and pray that new Nalanda University would be this Voice of an Enlightened Asia. Thank you.

DR. JANARDHAN WAGHMARE (Maharashtra): Sir, I rise to support the Bill. The revival of the ancient Nalanda University is a great event in the history of Indian education and culture. Like a phoenix it is rising from its ruins and ashes. The ancient Indian universities like Nalanda, Taxshila, Vikramshila were great centres of learning. The

ancient Nalanda University was a *sui generis* university in many respects. It had grandeur and glory of its own. Its sprawling campus with parks, lakes, gardens, lawns, temples and buildings was most attractive. Light of knowledge spread from here across many Asian countries. Its magnificent nine-storied library building was a huge nest for scholars. Ten thousand students were taking education there, and 2000 teachers were engaged in teaching and research. On the Campus of this ancient Indian university students, scholars and teachers were engaged in 'learning how to live together' as brothers and friends. Nalanda University's character was secular, students of lower castes were in majority. Here science and spirituality were kith and kin. Nalanda even today evokes peace, pride and passion for knowledge in our minds. Apart from India, students from China, Japan,

Korea, Tibet, Greece, Russia, Turkey came to Nalanda in pursuit of knowledge. Nalanda was in existence for six centuries. It was destroyed in 1193 in a war. The Nalanda of yore is being revived after eight hundred years. It will spring up from the same ancient sites in Bihar. The new Nalanda will be a confluence of cultures and civilizations, tradition and modernity, science and spirituality, knowledge and wisdom, East and West. Today the world is caught in violence, hatred, terrorism, communalism etc. There is a clash of civilizations across the world today. The Nalanda University will promote culture of peace. The Nalanda University is going to be a university of national importance. It will however be developed as a world class university vying with Oxford, Cambridge and Harvard. It will be associated with these and other world class universities in the world. Sir, here at Nalanda students will acquire and attain Pragnya (intellect), Karuna (compassion) and Shila (character), the three attributes which were given utmost importance by Lord Budha. Here students will not lose learning in information, knowledge in learning and wisdom in knowledge. The Nalanda University will stand – to use Pandit Jawaharlal Nehru’s words – for humanism, for tolerance, for reason, for adventure of ideas and for the search of truth. It will illuminate the mind of human race and lead India to enlightenment and towards a humane society. It will lead us to the world where the minds are free and without fear and where the heads are held high. It will cherish Rabindranath Tagore’s dream of freedom. It will be another Vishwabharati. Knowledge alone can liberate humanity from all shackles. ‘Sa Vidya Vimuktaye’. True learning is that which liberates. True education is that which emancipates. Sir, the jurisdiction of the Nalanda University shall be the whole of India with its centres within and outside the country, especially in South Asian countries. Nehru had a dream of Asian Renaissance. The Gangotri of the Asian Renaissance will start from the Nalanda University and flow across the world singing the hymns from the Dhampada and the Upanishads. There will be centres of the Nalanda University in different parts of India. Let us establish one such centre in the vicinity of Ellora Caves in Maharashtra where Buddhism was revived by Dr. Babasaheb Ambedkar and his followers. Universities are local, provincial, national and international. But, the Nalanda University will be a universal

university. Its catchment area will be the whole of the universe and the whole of the cosmos. The University is going to be a great centre of learning. I would like to suggest one thing. Let us add one more objective to the objectives *i.e.*, to teach and promote Pali, Prakrit, Sanskrit language and literature.

I congratulate the hon. Minister for introducing this Bill. The Bill is nicely drafted with all the provisions. But, there are certain things which are lacking. I would suggest that there should be Students' Service Centre under the guidance and supervision of Student's Director. The University should also have the Board of Games and Sports under the guidance and supervision of Director of Games and Sports. There should be a regular Tribunal in the University campus for redressal of grievances of teachers, students and employees of the University.

The University shall function under a PPP mode. This is the second International University that India would be having after the South Asian University.

The Nalanda University should promote inter-disciplinary studies and research. The School of Languages and Literature should promote Pali, Sanskrit and literature. Courses of comparative literature will be very useful, indeed. This is my suggestion. This University is going to have a secular character. One of the objectives of education defined by the International Commission on Education is, 'Learning how to live together.' The Nalanda University is expected to fulfil that objective. It will build bridges over religions, cultures, civilization, nationalities and ethnicities. Let it be a future-oriented university. Thank you.

SHRI BAISHNAB PARIDA (Orissa): Sir, it is my privilege to speak on behalf of my party and congratulate the hon. Minister for piloting this Bill which is going to revive the glorious traditions, wisdom, knowledge which India has contributed to the world. Sir, Nalanda was a centre of knowledge, research, philosophy, literature, architecture and many other things. Buddhism has given to this world, during those ancient days, its world outlook, a social outlook. It has shown how to see this world, how this world was formed, who created it, even about creation of the God and about the society – whether this society should be divided into castes, should there be discrimination and should there be division among the human beings. It was a great challenge that Buddhism had posed to the then thinking of our Indian society. It is a challenge and it has established a new order, a casteless society which the great Buddha has given not only to the Indian people but the entire world. He was the light of Asia and Nalanda represented and adorned that great tradition and wisdom of our history. Some of our friends are talking about how it was destroyed. There should not be an attempt to score points on the issue of destruction of Nalanda, destruction of a great religion, which was so noble, so high and unthinkable in the world at that time. In Buddhism, there were different schools of thoughts. There were debates in Nalanda in this regard. The *Hinyana*, the *Mahayana*, the *tantra*, all these things were discussed and researched. Because of the religious tolerance, these things were discussed in a scientific way, without

harming anybody's sentiments. We are thinking of re-establishing that great university, the great centre of knowledge, the great centre of tolerance, a great centre of peaceful message *i.e.*, the message of *ahimsa*. The message of *ahimsa* was propagated by this university. A large number of scholars, from different far off countries, got attracted to this great university. Those scholars lived here for a long time. After that, they again went back to their respective countries and preached that religion there. ...(*Time-bellings*)... We must know, through our studies, why such a great university was destroyed. And, by that, we will learn that by destroying this great university, by destroying this great source of knowledge, you can't change the history, which is etched in the minds of the knowledgeable people, in the minds of researchers, in the minds of the historians, in the minds of scholars.

Nobody can stop that. It is a lesson to the intolerant world, intolerant people that by intolerance you can't destroy the knowledge. Hitler could not do it; others could not do it. Many of our friends may not know that the great novelist, Tolstoy, had written his thesis on Buddhism. He held Buddhism very high in his world outlook, in his literary activities, and, through war and peace, he taught the world that non-violence and tolerance are the only ways for humanity to survive. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude; please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI BAISHNAB PARIDA: The Buddhism taught us all this. The Buddhism is still relevant today. My friend, Shri Pramod Kureel, was saying that the Buddhism is very dear to the dalits, the backwards and other sections of the people. Why? Because it was revived by the Baba Ambedkar. It was also revived by Gandhiji, and practised it throughout his life. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI BAISHNAB PARIDA: So, I congratulate the Government for bringing forward this Bill. My friends did not mention that the original idea of reviving this University came from Patna. Shri Nitish Kumar is, perhaps, one of the promoters of this idea of re-establishing the Nalanda University. I also congratulate him, Sir. Then, Sir, one provision is there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, don't go to the provision now, because there is no time.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, this is my last point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken double the time allotted to you.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, one provision is there that it will have its centers inside India and outside India. Pushpagiri which was mentioned by Huen Sang was in Orissa. ...(*Interruptions*)... Since it has been discovered now, so, I request the Government to have a campus in Pushpagiri. Thank you, Sir.

श्री मोहन सहि (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देते और इस वधियक का पुरजोर समर्थन करने के लए खड़ा हुआ हूँ। भारत की दुश्वारी हैं कि भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन और अध्यापन, लभियों और साहित्य

के अध्ययन और अध्यापन के जितने प्रयास इस देश में हुए , वे सब
 वफ़िल होते चले गए। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जसिमें
 ऑरिएंटल स्टडीज का सबसे बड़ा सेंटर स्थापित किया गया , डॉ .
 साहब वहां के कुलाधिपति बैठे हैं , ऑरिएंटल कॉलेज में 25
 वदियार्थी हैं और 75 अध्यापक हैं। ऐसे वदियार्थियों के अध्ययन और
 अध्यापन के लिए अध्यापक उपलब्ध हैं और वदियार्थी उपलब्ध
 नहीं हैं। ऑरिएंटल कॉलेज ऑफ़ पूना में आज की तारीख में
 अध्यापकों की संख्या 22 है और वदियार्थियों की संख्या 6
 है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के अध्ययन और अध्यापन
 के लिए अध्यापकों की संख्या 13 है और वदियार्थियों की
 संख्या पोस्ट ग्रेज्युएशन में 3 है। देश और दुनिया का कुछ
 ऐसा वातावरण बना कि पढ़ाई का मूड कुछ दूसरी दशा में दौड़
 पड़ा। नतीजा यह है कि हमारे देश के जो प्राचीन संस्कृति से
 जुड़े हुए तत्व हैं उनके अध्ययन और अध्यापन में सारी रुचि
 खत्म हो गई। पाश्चिमी और प्राकृत का विभाग जवाहर लाल नेहरू
 यूनिवर्सिटी में बहुत ही धूमधाम के साथ खोला गया और आजकी
 तारीख में बामुश्किल चार से पांच वदियार्थी वहां पढ़ने के
 लिए मल्लिते हैं , वह
 भी इस मंशा से कि आई.ए.एस. की परीक्षा में उनको एक पर्चा
 लखिने के लिए मल्लि जाता है जसिमें 90 से 95

नम्बर प्राप्त होते हैं। इसलिए इस मंशा से पाली और प्रकृत पढ़ने के लिए कुछ बच्चे वहां चले जाते हैं। हमारे देश की जो सनातन संस्कृति है और जो सनातन सभ्यता है उसके बारे में काम करने की अनन्त सम्भावनाएं हैं। आजकी भी तारीख में सन्धि घाटी की सभ्यता की जो लक्ष्मि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। सन्धि घाटी में ईसा से कोई ढाई हजार से चार हजार वर्ष पहले एक ऐसे नगर का हमने इंजाम किया था जहां सुन्दर भवन बनाने की कला इस देश के वासियों को मालूम थी। आजकी तारीख में नदियों के प्रदूषण का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। नगर का सब गंदा जल नदियों में छोड़ने की उस जमाने की जो सभ्यता थी, नगर का गंदा जल कसौ भी कीमत पर नदियों के अंदर नहीं आता था, इसका इरेनेज सिस्टम ईसा से ढाई हजार वर्ष पहले सन्धि घाटी की सभ्यता में मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता के लोगों ने विकसित किया था और ठीक उसी तरह की सभ्यता ईसा शताब्दी शुरू होने से ठीक एक हजार वर्ष पहले इलाहाबाद से यमुना के किनारे कौशांबी में एक विशाल नगर उस जमाने के लोगों ने बसाया था, जसिमें वे यमुना की नदी के जल का उपयोग तो करते थे लेकिन अपने नगर का गंदा जल और गंदगी उस नदी में न जाए, इसकी व्यवस्था उन्होंने की थी। आदरणीय डा. साहब द्वारा यहां बहुत सही बात कही गई कि उस जमाने का जो आर्किटेक्चर था, नगरों को बसाने की जो कला थी उसके बारे में अभी बहुत ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारे देश की दुश्वारी है कि विभिन्न धर्मों में जो उपासना पद्धति है, हमने उसको अपनाकर और उस उपासना पद्धति को लेकर आपस में मारा-मारी की शुरुआत अपने अंदर कर दी, लेकिन उसके साथ जो जुड़ हुआ दर्शन और आध्यात्म था, उसको हमने छोड़ दिया। सभी धर्मों में जो आध्यात्म और दर्शन है, उसमें एक तरह की synthesis है, सभी धर्मों ने आध्यात्म और दर्शन के मामले में एक दूसरे से कुछ लिया है। हमारे देश में धर्म के माध्यम से जाति प्रथा ईसा की शताब्दी शुरू होने से दो सौ, ढाई सौ वर्ष पहले आई, लेकिन वेदों की रचना बहुत पहले हो गई। ऐसा कहा जाता है कि कोई एक हजार वर्ष पहले वेदों की रचना हुई और उसी के साथ उपनिषदों की रचना हुई। जसिमें दर्शन के तमाम तत्व हमारे देश के साहित्य में सन्धि पड़े हैं। यदि आयुर्वेद में, जसिके बहु त सारे गुण यजुर्वेद में उपलब्ध हैं, आगे शोध हुआ होता है, तो मैं समझता हूँ कि चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद से बड़ा ज्ञान विश्व को नहीं मिला होता, आयुर्वेद के जरिए हम ने दुनिया को दिया होता। कहा गया, "ईशावास् यमिदम सर्वम् यत्किंचित जगत्याम् जगत्, तेन्न तयक्ते न भुज्जीथा मां ग्रध कस् यसिद्धनम" आपमार्श की सारी पुस्तकों का अध्ययन कर लीजिए,

एक वाक्य में , उपनिषद में जो बात कह दी गई कि ईशावास् समिदम सर्वम् यत्किंचित जगत्याम् जगत् , तेन त्यक्तेन भुजीथा मां ग्रथ कस् यसिद्धनम ”, यदि हमारे संसद के सदस्य भाई इस श्लोक को उपनिषद से पढ़े होते , तो वेदान के लखे मात्रा -मारी करने की प्रवृत्ति उनके मन में पैदा नहीं होती है। हमारे देश में दुश्चारी यही है कि हमारे देश के साहित्य ने त्याग की , नशिप्रयता की , भोग से अलग हटने की और अलग से पूंजी संबंठित करने की अजीब सी संस्कृति हमारे देश में साहित्य के माध्यम से करने की शुरुआत की थी। उस पर नये सखि से शोध और उस पर नई विचारधारा को आज की तारीख में सबसे अधिक वकिसित करने की जरूरत है। भारत की एकता के सत्र , उत्तरयत समुद्रस्य हस्त्रिद्रेस्चैव दक्षिणं , एतत् देश भारतम् नाम भारती यत्र संस्तुति :। भारत की इससे सुंदर और सुसंगठित परिभाषा कहीं मखि सकती है ! भारत के भूगोल और भारत के नक्शे के बारे में आजबहस होती है। लेकिन उस बहस के जो सूत्र हैं , उन सूत्रों को हमारे आज के जो कर्ता -धर्ता हैं , वे उनको शुरू नहीं करते हैं। कौटिल्य से जो अर्थ -शास्त्र लखि , उस अर्थ -शास्त्र की कोई भी भूल प्रति आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। जिसके मन में जो सूत्र समझमें आता है , उसी सूत्र को लखिकर कह देता है कि यही मूल है। कौटिल्य ने राजधर्म के बारे में , राज व्यवस्था के बारे में , अर्थ -नीति के संबंध में जो सूत्र दखि , आज की तारीख में भी , वे हमारे आदर्श हो सकते हैं। नासंदा विश्व विद्यालय ने उन सूत्रों को सबसे अधिक अपने जमाने में संबंठित कखि था। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि केवल बौद्धिज्म नहीं , जसिको हम हब्दू संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न कहते हैं , हब्दुस्तान के अंदर बाहर से आया हुआ इस्लाम , हब्दु सत्तान में बाहर से आई हुई जो ईसाइयत है , इन सबके जो सूत्र हैं , सबकी एक थीसिस उस विश्वविद्यालय को , केन्द्र के रूप में हमको वकिसित करने की आवश्यकता है। इसीलिए इसकी मूल अवधारणा में कहा गया है कि इसका जो चरित्र होगा ,

वह सेक्युलर होगा , ऐसा कहने के पीछे मंशा क्या है? ऐसा कहने के पीछे मंशा सफ़ि इतनी है कि हमारे देश में वक़िसित एक धर्म , जसिने साउथ ईस्ट एशिया को , ईसा के पैदा होने से पहले दक्षिण भारत के राजाओं ने , चोल नरेशों ने साउथ ईस्ट एशिया में अपनी संस्कृति का वक़ितार कयि। आज की तारीख तक साउथ ईस्ट एशिया में , चाहे इंडोनेशिया हो या मलेशिया हो , अगाध धारा संस्कृति की जो चली आ रही है , उस पर भारतीय संस्कृति की वशिष छाप्र है। सभी जातियां जब माइग्रेट करती हैं , तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ चीज़ें छोड़ती हैं और कुछ चीज़ों को वहां ले जाकर पहुंचाती हैं। उनकी माइग्रेशन के कारण क्या हैं , इसके बारे में इतिहासकारों ने अभी तक गंभीर अध्ययन नहीं कयि है। माइग्रेशन के बाद उन्होंने कौन-सी चीज़ वहां ले जाकर दी और कसि चीज़ को वहां छोड़ दिया , इसके बारे में आज की तारीख में अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। हम नविदन करना चाहते हैं कि हम पुरानी चीज़ों का तो अध्ययन करायें , नासंदा में इस विश्वविद्यालय को खोलने के पीछे हमारी मंशा सफ़ि इतनी है कि भारत की जो सांस्कृतिक धारा है , जो हमारी एकता का आधार है , उसका अध्ययन हो , उसका वश्लेषण हो , उसकी मीमांसा हो। इसके साथ-साथ जो आज की आधुनिकता है और जसिका प्रभाव पूरे दुनिया में फैल रहा है , हम उसके साथ अपने को जोड़कर , इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएं , ताकि हमारा देश पूरी दुनिया का मुकाबला कर सके। पहले कहावत के रूप में लोग कहते थे कि तब हम दुनिया के गुरु थे , इसलिए हमने इसके बारे में काफ़ी शोध करने की कोशिश की , लेकिन पता नहीं चल पाया कि हम कब थे , लेकिन हम ज्ञान और वज्जान के केन्द्र जरूर थे। उस ज्ञान और वज्जान का जो वक़ितार हुआ , वह बहुत सीमित जगहों पर हुआ। हमारे पड़ोस के देश तख़्बित में हब्दिस्तान का बौद्धिजम गया। वहां की भाषा में उसके दर्शन के जसिने शोध हुए , वहां के गुरुओं ने उसके ऊपर जसिने सदुपदेश दए , उनको राहुल सांस्कृतायन जी ने हमारे देश में खचचरों व घोड़ों पर लाकर प्रदर्शित करने की कोशिश की। उनके लाए हुए सारे ग्रंथ आज की तारीख में नष्ट हो रहे हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है , इसलिए मैं यह नविदन करना चाहता हूं कि इस विश्व विद्यालय में पुरानी सभी लपियां को संबूहीत कयि जाना चाहिए। भारत की जसिनी पुरानी लपियां हैं , वे धीरे-धीरे मर रही हैं और भारत की जसिनी पुरानी भाषाएं हैं , वे भी धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं। उन लपियां और उन भाषाओं के पुनर्जीवन के बारे में एक गहन मंथन और शोध होना चाहिए , इन्हीं शब्दों के साथ इस वधियक का समर्थन करते हुए , इसकी भावना का

समर्थन करते हुए तथा अर्वाचीन और प्राचीन थीसेज़ की अपील करते हुए , मैं अपनी बाह समाप्त करता हूँ: आपका बहुत -बहुत धन्यवाद।

SHRI H.K. DUA (Nominated): Thank you, Mr. Deputy Chairman, for giving me the chance to speak on, what is certainly, a very important Bill. I find from the proceedings in the House so far that everybody is supporting the measure. I hope, the Government brings more such measures which draw a lot of support from the entire House.

Sir, we have been talking of the irrelevance of borders, but that was, for quite some time, particularly for borders only on the West to become irrelevant. Lately, we have been laying some emphasis on giving an eastward look to our Foreign Policy. I see this measure not only as a part of the universal message which a university can spread, but also as a part of India's eastward look policy. There is so much scope for looking towards our neighbours in the east. If setting up a university makes the borders soft on each side, opens up the mind, gives more attention to countries in South-East Asia, and they look towards us, it would be a helpful input in our foreign policy. But, I do not see this only in the context of South-East Asia or in the context of Asian renaissance, as Mr. N.K. Singh said - I am glad he was there on the Mentor Group; so, this House gets associated with the setting up of this University by his being on the Mentor Group -

but I thought the University's concept should be more universal, after it has consolidated its work in Asia. It should be a world university, and of that standard. It will teach the subjects which are listed in the Bill on page 20, namely, Buddhist studies, philosophy and comparative religions, historical studies, international relations and peace studies, language and literature, ecology and environmental studies and other schools as may be prescribed. I am glad the Mentor Group and the Board are keeping this flexibility. I am particularly happy about the modern subjects, like international relations and peace studies, business management in relation to public policy, an area which is much required at times when there is so much tension in the world between nations, in different regions. I do not see any particular region which is at peace with itself. And if new ideas come from this University, it would be a contribution to the world, - the world of ideas. It should not be exclusively the University which teaches only Humanities, Arts and Literature or historical studies. I would like the University to look deep into the 21st Century and see what would be the needs of the 21st Century. Institutions or Schools which may be set up - I am sure the Mentor Group will give attention to it; then the new governing Board will give attention to it - should not spurn subjects related to science and technology. The world is not that exclusive. There is not going to be two cultures again - the Culture of Humanities and the Culture of Science. A vast number of scientific developments are taking place in different areas which have direct impact on human welfare. There are other subjects which can lead to human destruction. But let this University pick up those ideas of science and technology which have direct impact on human ideas and future development of mankind. I think the University will take into account those subjects. I don't think that the University will have funding problem to set up more Schools. There is no problem of land - 446 acres of land is enough. The House should be thankful to Bihar Government for letting this land for the University despite the land acquisition controversy. Sir, the Nalanda spirit should be looking into the 21st Century needs not only of India, not only of South East Asia, but also, as Mr. N.K. Singh said, of wider global confluence of ideas and of minds. This kind of place it should be. Much will depend on what kind of minds you attract in the beginning itself. The Mentor Group has been very ably represented and chaired by none else than Dr.

Amartya Sen, and other scholars from the South-East Asia. The faculty should be very selectively chosen. Unless the faculty is top-class, the University will not grow. I like that there should be an international competition for a good design and I am sure that the best of the design will be chosen. But it is not just about building, it is about what kind of faculty you are going to appoint. I have a feeling that this University should provide not just the degrees, but to make it a place of confluence of ideas there has to be exchange of ideas. In fact, scholars of eminence from all over the world should be invited. They should be resident scholars. Let the University finance their stay; let them discuss their ideas in the coffee house, and I am sure you will provide some good coffee houses also. Let exchange of ideas take place and out of which some four or five good ideas may come. If this exchange of ideas takes place on a positive track, I am sure it will work. On the Governing Board I find, frankly speaking, that there is over-

1.00 P.M.

representation of Secretaries of the Government of India. I think the Secretary, Ministry of External Affairs should be there and rightly so unlike a suggestion was made that it should be made part of the HRD Ministry. I think the Ministry of External Affairs has the right to manage it because there is an international message attached to it of public diplomacy which is very important. But why so many other Secretaries? The best thing is to look for the top academicians anywhere in the world to give shape to the University. It is like a child which has to be nurtured. If it is nurtured on proper lines, I think it will be an advantage for the country and the people and it should be advantageous for the world also.

SHRI BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Sir, I feel proud, privileged and fortunate to be a part of the process in this House in which history is awakening after 1200 years. The re-inception of Nalanda is a historic moment in this world. I am also proud that this House today has shown how in-depth and serious discussion it can indulge into. Those who only say that House is an akhada for *mara-mari*, they should see that this House can also become serious and impart some good information and thoughts when it comes to the real test.

Sir, right in the beginning, I would say that I have introduced couple of amendments. I would first talk about them and then, I would talk about the rest of the Bill. Sir, I would suggest that this University should be called 'Nalanda Vidyapeeth'. I am not against the word 'University' per se. I am not against the English language. But, when we are trying to show India as a soft power, here, we should also preserve its history. 'Vidyapeeth' is a seat of learning. It has a place in Indian philosophy. Hiuen Tsang, in his travelogue, has mentioned Nalanda as *Vidyapeeth*. University is a western concept. I am not against it. University is a concept, but when you have to preserve the eastern side, I think, this should be called 'Nalanda Vidyapeeth'. The Act may be called anything, but the university should be called 'Nalanda Vidyapeeth'.

Having said this, I would like to make a couple of suggestions in this Bill. The Bill is very comprehensive, but, still, I think it needs to give a re-look to some provisions. I will go through some

clauses. Clause 7 mentions that how the Governing Board will function. As Mr. H.K. Dua just now mentioned, there is too much presence of bureaucracy in this Bill. Why do you need bureaucrats in this area of academics? Here, I would like to make one suggestion. Clause 7(d) says that a Member, not below the rank of Secretary in the Ministry of External Affairs, to be nominated shall be the Member Secretary of the Governing Body. Sir, this is a new university, where a lot of work is to be done by the Secretary General of the Governing Body. How do you expect a Secretary rank person in the External Affairs Ministry to discharge this function? He has his own work on his desk. Over and above that, he should take care of this work also. It means he will be doing this as an additional work. My suggestion to the Minister is to have a full-time Secretary General for this body. You need a full-time Secretary General to look after the day-to-day working of this body.

Another thing is that there are many bureaucrats; there are donor Members and others. This House will be enacting the Act, by which this University will come into existence. In many universities of the country, particularly Central Universities, you have representative from both Houses of the Parliament. I don't see any representation of the Members of Parliament in this body. I am a proud parliamentarian and we have many Members who can really contribute to the University's functioning. We have learned Dr. Karan Singh sitting here. We have Dr. Kapila Vatsayayan, Dr. Ram Prakash sitting here. Shri Balavant alias Bal Apte is here, and we have many more such Members. They can really contribute to the working of the University. So, my suggestion to the Minister is to include, at least, two Members of the Parliament on the Governing Board. ...(*Time-bell rings*)... They are in many such bodies, in Aligarh University, in Banaras University.

Sir, I have some more suggestions. In clause 24, we talk about which schools this university will have. That gives a list of around seven schools. My request to you is that when we are talking of this as an ancient university, Nalanda, during its time, was the most modern university. It had a modern outlook and it was considered to be the most modern university in those times. Don't consider this as an ancient thing. When we are reviving Nalanda, we should have a modern outlook for it. Don't dwell into the past; history is gone by, the good and the bad of history is gone by. As famous Marathi poet, Keshavsut, a rebel poet said,

जुझे जाऊ द्या , मरणा लागुनी , जासुनी अथवा पुरूनी टाका , साबध
एका पुढल्या हाका !

Whatever is the old, let it go by, and, listen to the call of tomorrow. Sir, we should also listen to the call of tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BHARATKUMAR RAUT: And, for that, apart from Buddhism and other things, we should have medical sciences like Unani, and, many medical sciences in the East should be brought forth into this university. There is no provision for medical schools in this. There should be a communication school. There should be a modern management school. There should be schools of modern sciences. If you bring them here, then, new students would like to join those schools. If I am not interested in history, even then, I should be able to get attracted to...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raut, please conclude. We have a number of

speakers. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHARATKUMAR RAUT: Sir, with these words, I conclude my speech.
Thank
you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would like to again remind the hon. Members that we have hardly 55 minutes because at 2 o' clock, we have to take up the Private Members' Business. Here, we have seven speakers left. We have to finish this including the Reply in 55 minutes; otherwise, this debate would not be concluded. At 2 o' clock, the Private Members' Business has to be taken up.

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka): Sir, I feel extremely happy to speak on this Bill. I would say that the day of introduction of this Bill should be recorded in golden letters. Nalanda University was one of the world's largest university with 10,000 inmates and 1,500 to 2,000 teachers. People from all parts of the world came here for education. It was proudly declared by our ancestors.

एतद्देशे	प्रसूतस्य	साक्षाद्ग्या	जन्मन :
स्वम्	स्वम्	चरितम्	शिक्षिन्
		पृथिव्याम्	सर्वं मानव :

1,500 years ago, people from all parts of the world were coming here for higher education. That was the position. Nalanda, Takshila, and, Vikramshila were set up in Bihar. But, unfortunately, in the meandering course of our history, Nalanda University was destroyed. Fortunately, it is being resurrected in the form of this Nalanda University Bill. 100 years ago, Max Mueller from Germany, who studied our entire philosophy, Vedas, Upanishads, delivered a lecture, and, the title of the lecture was "What India can teach us". He said, if I am asked a question: Under this sky and this wide world, on which part of the earth, there has been an indepth study of human nature and solutions have been provided, I can point out, India and India alone. That is what Max Mueller had said.

Bihar is one of the richest State of our country. I think, the first Governor of Bihar was Shri R. R. Diwakar. ...*(Interruptions)*... He wrote a book titled, "Bihar through the ages". He has written a very big book recording the entire history of Bihar, in which, there is a reference to the Nalanda University.

Some people say, America is the richest country, or, some other country is the richest. From the financial or wealth point of view, it may be some other country, but from the point of view of human values, cultural values, I can say, with all confidence, that ours is the richest country and no wealth of the world can equal it. I will speak about that, but the first thing I would speak about is appointment of a Vice-Chancellor. A University can be made best provided you appoint the best Vice-Chancellor. The whole object can be defeated if the first Vice-Chancellor is appointed by collateral consideration. That should not happen.

Another thing is, establishment of Nalanda University should be the inauguration of friendly relationship between India and China. We see that all the pilgrim centres of Chinese Buddhists are in India Bodh Gaya, Sarnath, Rajgir. Buddhism is flourishing in Sikkim also. There is one statue of Padmasambhava. I have gone there and I have seen that

statue. That is 185 feet statue in sitting pose. Hinduism and Buddhism, joining together, can establish harmonious relationship among people all over the world.

Another thing is, today, we are facing corruption, the most rampant thing. The answer is found in the teachings of Buddha. Buddha had said two things. What are they? Greed is the root of misery—*aaseye dukkhakke moolavayya* in Kannada. The second thing is अहिंसा परमोधर्म :-Don't indulge in violence either against human beings or even living beings. These are the two teachings of Buddha. Today, the very root of corruption is the greed of the human being and the people who are in power. Bihar is such a State where great personalities,

famous all over the world, were born. Only to name a few, Sita, Raja Janak, Buddha, Mahavira, Patanjali, Chanakya, Chandra Gupta and then Yagyavalkya who wrote Mitakshara.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Guru Gobind Singh.

SHRI M. RAMA JOIS: Guru Gobind Singh was born in Patna. I have seen that Gurudwara also. I was fortunate of being Governor there. But, unfortunately, I found that there was no Buddha statue in Patna whereas so many politicians' statues were there. When I was the Governor, I contacted a monk in Bodh Gaya. He presented a beautiful bronze statue of Buddha brought from Thailand. It was installed in front of the statue of Babu Rajendra Prasad. Every evening, it becomes a place of pilgrimage for the people in Patna. Then, Buddha gave most importance to the *dharma*. Why do you consider *dharma* supreme? The answer is given in half a line in the Mahanarayan Upanishad- धर्मणः पापमपुनरुदति तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति -Dharma destroys sinful thoughts and, therefore, *dharma* is supreme. Therefore, I always say that *dharma* is preventive and law is punitive. Law will come in to act only after a person commits offence but *dharma* has the capacity to prevent a man from committing this offence. Therefore, this Nalanda University should become a place to inculcate sense of *dharma* in every student who comes for study there. And, the slogan from most ancient time is सर्वे भवन्तु सुखिनः - All should be happy. Never think in terms of religion or caste or whatever it is. That is why in Hitopadesha, Sarvajna Narayana declares अयं नज्जिः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् - This man belongs to my clan; that man does not. Let him ruin like that. That should never be there in our mind. We always consider that the entire humanity is one. Now, people say that world is one. But there is a difference. The Westerners' concept is that world is one market whereas ours is that world is one family. That is the difference. Then, what is the quality of *vidya*? Suppose he is a graduate, he is a Ph.D. holder, he has got Master's Degree or MS from America and all that. It is such highly-educated persons who are indulging in terrorism, in hijacking planes. Are they uneducated persons? Most educated persons are indulging in terrorism and that is because the *vidya* is minus culture. Unless *vidya* is accompanied by character and humanness, it is dangerous. That is why, today, educated persons are the so-called demons in human form. They are the persons who are creating a lot of trouble.

“Vidya dadati vinayam
Vinayad yati patratam
Patratam dhanam apnoti
Dhanad dharmum tatab sukham”

Education provides character and fitness. Once you get fitness and suitability, through it, you can earn money legally. And when you earn money legally, not illegally, you lead a happy life. But, unfortunately, today, education is minus ethics or minus character. That is the problem we are facing today. I am sure the Nalanda University will re-start this process of inculcating character and sense of dharma in every individual.

A great definition of vidya is given by Bhartrihari which has now become part of judgement of the Supreme Court.

वद्विया नाम नरस्य रूढमधिकं प्रच्छन्नं गुप्तं धनम्

It means education is the special attribute of a man and it is related to wealth.

वद्विया भोगकारी यशःसुखकारी वद्विया गुरुणं गुरुः ।

Education gives pleasure, success, and happiness. It is the teacher of the teacher.

वद्विया बंधुजनो वद्विशगमने वद्विया परा दैवत

When you go abroad, education is your best friend. Education is God incarnate.

वद्विया राजसु पूज्यते न तु धनम् वद्वियाविहीनः पशुः ॥

Education, not money, is respected by the State. A man without education is equal to an animal. That has been quoted by the Supreme Court in AIR1994. They said that education is a fundamental right. No Article of the Constitution says that education is the fundamental right. But the Supreme Court declared that education is a fundamental right because we have a right to life and liberty. And subsequent to the judgement of the Supreme Court, Article 21 A has been added to the Constitution conferring right to education as a fundamental right. Now the Compulsory Education Act has been passed by Parliament.

Swami Vivekananda said thus about education. Character building and man-making education should be imparted to every individual. Without that, nation cannot progress.

My appeal is that the Nalanda University should be made the best university in the world through which cultural value can be imparted to all not just to the individuals of our country. The slogan given by our ancestors is that we will civilise the entire world through education. At that time, students from all parts of the world were coming to India for getting real education. Unfortunately, that trend was reversed. Now people go from our country to foreign countries for education. And what type of education are they receiving? There are two things. One is for earning money, another is developing character. As far as first one is concerned, probably we may have progressed. Education has been imparted for earning money. Many medical colleges, engineering colleges and law colleges have come into existence. But there is no college, no educational institution which imparts

character to an individual. Without character we cannot serve the nation at all.

Because, the police, the CBI, and Magistrate's court cannot solve the problem of rampant corruption. Corruption can be removed only by inculcating sense of dharma in every individual. This university should become pioneer in imparting good education to every individual.

Therefore, my submission is that in the real sense of term the entire world is one; all human beings belong to one family. The so-called secularism par excellence has been our rajadharma. Our rajadharma declared "Yatha sarvani bhutani dhara dharyate saman, Tatha sarvani bhutani vibhratah parthivam vratam." It means, how the State should treat all the citizens. Just as

mother earth gives equal treatment to all her children, the State should give equal treatment. (Time-bell ring) There is another Narada Smriti पाण्ड नैयम पूरा वस्तु गणाधिषु , संरक्षेत समयं राज्ञा। Disbelievers in Vedas should be given the same amount of protection as is given to the believers in Vedas. That is why, in thousand years of our history, there is no question of State (Kings) persecuting persons belonging to any other religion. That is why, Swami Vivekanand said that ultimately if you want to civilise the entire world and bring harmony among all the people, the responsibility is given to India and India alone. That has been the declaration of Swami Vivekanand. Therefore, we should resurrect all our cultural values and ultimately, India should be taken to the pinnacle glory.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute please. If the House agrees, I would request Shri Shantaram Laxman Naik to take the Chair.

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK) IN THE CHAIR]

SHRI M. RAMA JOIS: Sir, I conclude with these words. Sir, Nalanda means, give ananda to everybody. Etymologically, Nalanda means that. Let this university be a major step to take our nation to the pinnacle of glory. Thank you.

डा० राम प्रकाश (हरियाणा) : श्रीमान् , भारत ने ज्ञान के क्षेत्र में विश्व को बहुत कुछ दिया है। शून्य और गतिती , जसि गांध में आज भी हबि दसे कहते हैं , क्योंकि अंकों की गणना भारत से गई थी , इसलिए इस वदिया का नाम हबिसे है और भी बहुत कुछ हमारे यहां से देश -वदि श में गया है। यहां नासंदा , तक्षशिला , वक्रिमशिला विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केन्द्र थे। इसलिए आजइस वदियापीठ की स्थापना का उदेश्य , स्थान का चयन, नासंदा नाम को पुनर्जीवित करना , ये सभी बहुत सराहनीय कार्य हैं , जन्किने लएि में सरकार के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ ।

इसके उदेश्यों में स्पष्ट लखि है कि इन देशों की बौद्धिक , दार्शनिक , ऐतिहासिक , धार्मिक , आध्यात्मिक वसिसत और भाषा का अध्ययन करना , उसे समझना और पारस्परिक एकता का आधार बनाना इसका लक्ष्य है। इस नाते बौद्ध संस्कृति और दर्शन के अध्ययन की बाह्य को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ लेकिन , तुलनात्मक अध्ययन के लएि इसके साथ प्राचीन वैदिक संस्कृति , भारतीय दर्शन , वेद शास्त्रों और आर्ष साहित्य का अध्ययन नतिांत आवश्यक है।

वेद विश्व में प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वदिशियों ने भी इस बाह्य को सूचीकार कथि है। पुराने ऋषियों से लेकर महर्षि

दयानंद सरस्वती तक के वेद भाष्यों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह विश्वविद्यालय एक विभाग अवश्य नर्दिष्ट करे। संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए यह नर्दिष्ट आवश्यक है कि व्याकरण का अध्ययन कथि जाए और पाणिनी की रचना अष्टाध्यायी मानव मस्तिष्क का एक अद्भुत आविष्कार है। उसके बिना हमारे प्राचीन साहित्य को समझ पाना नर्दिष्ट कठिन है। इसके उद्देश्यों में एक बात ancient science की लखी गई है, इसलिए मेरा यह अनुरोध रहेगा कि बौद्ध चर्चित्सा पद्धति और आयुर्वेद को भी इसमें सम्मिलित कथि जाना चाहिए।

आज वदिशी लोग भारतीय प्राकृतिक संषदा का पेटेंट बना करके उसे अपने कब्जे में ले रहे हैं और इसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि यहां हम आयुर्वेद के अध्ययन पर बल दें साथ ही, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि एक बौद्ध ग्रंथ ललित वस्तिर के दसवें अध्याय में 64 लपियों की चर्चा की गई है। आज वे लपियां लुप्त तप्राय हैं। ब्रह्मही, जो बायें से दायें लखी जाती थी, खरोष्ठी, जो दायें से बायें लखी जाती थी, आज इनके ज्ञाता नहीं हैं। अगर मैं गलती नहीं करता तो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यह जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, इसमें इन लपियों का केवल एक ज्ञाता आचार्य वरिजा नंद दैक्करणि हरियाणा का नबिसी है। अगर इन

लभियों के जामने वाले लोग नहीं रहेंगे , तो जो सक्कों , मोहरों , शत्रालेखों , ताम्रपत्रों और कहीं -कहीं घड़ों पर लखी हुई इन लभियों में इतिहास है , वह लुप्त हो जायगा। इसलिए अगर हम प्राचीन इतिहास का , पूर्वी एशियाई देशों के इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं , तो इन लभियों के ज्ञाता पैदा करना भी इस वद्वियापीठ का एक विशेष लक्ष्य होना चाहिए। यह बात मैं इस नाते कह रहा हूँ कि इतिहास का ज्ञान संस्कृत के जामने बलि संभव नहीं है। इंडोनेशिया के एक राष्ट्रपति का नाम सुकर्णा था। यह उनकी भाषा का शब्द नहीं है। यह सुकर्ण से बना है , अच्छा सुनने वाले से बना है और हमारा अपना शब्द है। बाली द्वीप में बैक को अर्थलोक कहते हैं , इससे बढ़िया इसके लिए कोई और शब्द नहीं हो सकता। इसी तरह पंजाबी में गाँव को पड्डि कहते हैं , क्योंकि कभी एक बुजुर्ग ने गाँव बसाया था। उसके बाद उसके बच्चे , उनकी संतानें वहाँ बसती गई , क्योंकि वे एक पड्डि से पैदा हुई संतानें थीं , इसलिए गाँव का नाम पड्डि पड़ गया। बलि संस्कृत को समझे , पंजाबी भाषा के गहन अर्थों को समझना भी नतिांत मुश्किल है , इसलिए मैं यह समझता हूँ कि इस पर ध्यान देना जरूरी है। इन देशों में बहुत इतिहास बखिरा पड़ा है। मैंने रामायण पर इंडोनेशिया का टिकिट 1971 में देखा था। इन देशों में हमारी जो संस्कृति है , उसे जामने के लिए इन लभियों का ज्ञान आवश्यक है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। इस विश्वविद्यालय को हम वद्वियापीठ कहना चाहेंगे , क्योंकि अगर आपने नालन्दा को पुनर्जीवित करना है , तो उसे जमाने में विश्वविद्यालय शब्द नहीं था। और जब वहाँ विश्वविद्यालय शब्द नहीं था और वद्वियापीठ था , तो हम उसी शब्द को इस्तेमाल क्यों न करें ? आज पूना को पुणे , बम्बई को मुम्बई , ये सारे नाम बदले गए हैं तो इस नाम को भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। मैं यह बात इस नाते कह रहा हूँ कि देवनागरी का एक वभिाग निश्चित रूप से वहाँ खोला जाना चाहिए। ये शब्द वलिाबा भाषे की इस अवधारणा का समर्थन करते हैं कि अगर हमें राष्ट्रीय एकता को पैदा करना है , अगर हमें एक-दूसरे के ज्ञान को समझना है , तो सब भाषाओं की अपनी लभियां हों , कोई बात नहीं , उसका मैं स्वागत करता हूँ , लेकिन उसके साथ वैकल्पिक लभि के तौर पर देवनागरी लभि भी हो और जलि बोलियों की कोई लभि नहीं , उनको देवनागरी लभि प्रदान की जाए , यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो देवनागरी का एक विश्वविद्यालय खुलना चाहिए लेकिन कम से कम यह एक वभिाग जरूर हो।

महोदय , अंतिम बात मैं यह कहना चाहूँगा कि जो कमेटी गठित की गई है , उसमें मुझे एक अभाव बहुत अखरता है। इसमें कोई प्राच्य वद्विया का वद्विवान नहीं है , इसमें कोई भाषाविद् नहीं है। डा. लोके श चन्द्र जैसा वद्विवान इस कमेटी का हस्सिा होना चाहिए। उनके पूज्य पति डा. रघुवीर ने जतिनी इस देश की

भाषायी दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से सेवा की है, मैं यह समझता हूँ कि वह व्यक्ति भारत रत्न के लिए उसी तरह हकदार है जसि तरह धर्मशास्त्र का इतिहास लिखने के बाद डा. पी. वी. कणे उसके हकदार थे।

महोदय, अंत में मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इसकी गवर्निंग बॉडी पर सरकारी अफसरों की बहुतायत नहीं होनी चाहिए। बाद में हम चीखते हैं, हमें दुख होता है कि इसको ब्यूरोक्रेसी ने जकड़ लिया। इसमें भाषाविद् हों, इसमें प्राचीन इतिहास को जानने वाले लोग हों, प्राचीन लिपियों को जानने वाले लोग हों, आयुर्वेद को जानने वाले लोग हों, अगर ऐसे लोगों के साथ इस विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी, तब तो यह अपना लक्ष्य पूरा करेगी, नहीं तो यह भी दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह एक विश्वविद्यालय बनकर रह जाएगी। महोदय, नाम का बहुत महत्व होता है। मैं महर्षि दयानन्द की एक बात के साथ अत्यधिक सहमत हूँ। उन्होंने कहा था कि हम कर्मभ्रष्ट तो हो गए, नामभ्रष्ट तो नहीं। इस नास्ते इसका नाम विश्वविद्यालय न रख करके विद्यापीठ रखा जाना चाहिए। आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): हमारी ओर से आपका नाम भी दिया गया है। भारतकुमार राऊत जी कह रहे थे ... (व्यवधान) ...

श्री राम कृष्ण यादव (बल्लार): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो इस ऐतिहासिक पल में इस ऐतिहासिक बलि, नामन्दा विश्वविद्यालय विधायक, 2010

को लेकर आए हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से तो उनके प्रति आभार व्यक्त करता ही हूँ, पूरे बहिर की नौ करोड़ जनता की ओर से भी मामनीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, बहिर का अपना एक अलग गौरवशाली इतिहास रहा है, इस संबंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, आप स्वयं भी जानते होंगे। कई महत्वपूर्ण योगदान बहिर के रहे हैं। नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना पाँचवीं शताब्दी में हुई थी और दुनिया की विभिन्न जगहों से यहां पर लोग अध्ययन करने के लिये आया करते थे - तर्कशास्त्र का अध्ययन करने के लिये, अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिये, गणित का अध्ययन करने के लिये, ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने के लिये - 16 ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे, जिनको पढ़ने के लिये लोग यहां बहिर में नालन्दा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये आते थे। यहां पर दस हजार विद्यार्थी हुआ करते थे। यह विश्वविद्यालय लगातार बारहवीं शताब्दी तक चला। बारहवीं शताब्दी में इसका समापन हो गया। लोगों में मामसिक परिवर्तन आया होगा, सोचा होगा, कई तरह की बातें हुई होंगी, नए concept आए होंगे और इस प्रकार बारहवीं शताब्दी में यह विश्वविद्यालय समाप्त कर दिया गया। मगर आज सरकार ने उसकी अहमियत को समझा और यह नर्णिय लिया कि इस बलि के माध्यम से पुनः नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना हो तथा यहां उन तमाम विषयों की पढ़ाई हो जो आदिका ल में हुआ करते थे। अब फिर इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई होगी - गणित की पढ़ाई होगी, व्यापार की पढ़ाई होगी, विज्ञान की पढ़ाई होगी, तर्कशास्त्र की पढ़ाई होगी, ज्योतिष विद्या की पढ़ाई होगी, कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई होगी और लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्थापित करने की कोशिश, पुनर्विद करने की कोशिश की जा रही है। महोदय, बौद्धिक दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से बहिर बहुत ही सनद रहा है, अमीर रहा है। वैसे बहिर गरीब राज्य है, आज भी वहां पछिड़ापन है, अशिक्षा है - मैं इन सब चीजों को मामता हूँ। बहिर की यह बहुत पुसनी मांग रही थी कि वहां पर जो नालन्दा विश्वविद्यालय से खंडहर है, उनको पुनर्जीवित करने का काम किया जाए और मैं समझता हूँ कि इस कामून के माध्यम से वह पुनर्जीवित होगा और यह बलि पुनः इतिहास बनाने का काम करेगा। मैं इस संबंध में मंत्री जी को जतिना धन्यवाद दूँ, कम होगा। महोदय, जो यू.पी.ए.-1 की गवर्नमेंट थी, जिसमें हमारी पार्टी का समर्थन था, आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो एल.जे.पी. से हैं, उनका भी समर्थन था, उस समय ही इसका शुभारम्भ हो गया था, एक खाका तैयार होने लगा था। जब ढाका में 2005 में शखिर सम्मेलन हुआ, उसी समय इसकी बुनियाद डाली गयी।

लोगों ने इस पर वचिर करने का काम किया सार्क सम्मेलन नहीं, शखिर सम्मेलन नहीं। उसका जो कंसैप्ट है वह कार्यरूप में 17 जनवरी, 2007 को आया और यह नर्णिय हो गया कि नालन्दा

वश्वविद्यालय की स्थापना बहिर में होगी। मैं समझता हूँ कि यह मेरे लिए एतिहासिक पल इसलिए भी है और हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि यहां हमारी पार्टी के सम्मानित नेता जाबिर हुसैन साहब हैं, जो वद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, जसिकी यह जन्मस्थली भी है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और इनको भी बधाई देना चाहता हूँ। यहां हमारे जो माननीय नेता राजनति प्रसाद जी हैं, यह उनकी भी जन्मस्थली रही है। सर, मैं आपको बताऊँ कि... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री शान्तराम लक्ष्मण नायक): अब आप वाइंड अप कीजिए, समय हो गया है।

श्री राम कृपाल यादव: मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जब खड़ा हुआ हूँ और कसिी को नहीं रोका गया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री शान्तराम लक्ष्मण नायक): एक मिनट में खत्म करें।

श्री राम कृपाल यादव: सर, मैं लिमिटेड समय में ही अपनी बात कह दूँगा।

जैसा कि मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति के बाद पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के फैसले के आलोक में वश्वविद्यालय की स्थापना करने का फैसला जनवरी, 2007 में हुआ। भारत सरकार ने जब, 2007 में नालन्दा सेंटर ग्रुप का गठन किया, जसिकी 6 बैठकें हुईं और उनमें वश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार कर ली गई। महोदय, मैं आपको बताऊँ कि इस वधियक के बारे में देश के लोगों को आज अपार खुशी हो रही है, सभी माननीय सदस्यों ने भी इसका स्वागत किया है। सर, इस वधियक के उद्देश्य के प्रति भी मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ जो मूल उद्देश्य है इस वधियक को लेकर कानून बनाकर वश्वविद्यालय की स्थापना करने का, उस

मंशा पर भी मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। इस वधियक में इस विश्वविद्यालय को नॉन प्रॉफिट सेक्युलर और स्वसंचालित संस्था के तौर पर पेश किया गया है, इसमें महात्मा गौतम बुद्ध के आदर्शों, उनकी नसीहतों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए शिक्षा और शोध के कार्यक्रम तय किए गए हैं, वधियक में अध्ययन और अध्यापन के व्यापक प्रारूप भी दिए गए हैं। नास्नन्दा एक प्रकार से पूरे बहिर की धरती, गुरु महात्माओं, सूफ़ी संतों की धरती रही है। पूरी दुनिया में इसका एतिहासिक महत्व है। यहां महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नामक देव, शरफुद्दीन, यहिया, मनरी, शाह शुएब आदि अनेक गुरुओं ने धर्मनिर्पेक्ष मूल्यों के आधार पर जीवन-शैली अपनाने के व्यावहारिक उपदेश दिए हैं। मेरा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय में इन सभी धाराओं का समावेश हो और समान रूप से सभी धार्मिक सामाजिक आस्थाओं को स्थापित किया जाए। वधियक की धारा -9 में ... (समय की घंटी) ... बस, सर, दो-तीन मिनट में खत्म कर रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शांतिाराम लक्ष्मण नायक): आप अपनी ही पार्टी के मेम्बर का टाइम ले रहे हैं।

श्री राम कृष्णल यादव: सर, मैं बहिर से आता हूँ, इसका एतिहासिक महत्व है। ... (व्यवधान) ... टाइम तो सब लोगों का पूरा होता है, कहां इंटरप्शन आता है। मैं खड़ा हुआ, तुरन्त घंटी बज जाएगी।

वधियक की धारा -9 में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की वस्तुतः चर्चा की गई है। इसमें "without excluding any other thoughts and practices" का उल्लेख है, मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। वधियक में विभिन्न भाषाओं तथा साहित्य के अध्ययन शोध की चर्चा है। सच्चाई यह है कि अब भी विभिन्न शोध संघठनों में प्राचीन भाषाओं में बहुमूल्य पांडुलिपियां अप्रकाशित, असुरक्षित पड़ी हुई हैं। वे पांडुलिपियां पाली, प्रस्कृत, संस्कृत, फारसी, अरबी भाषाओं में हैं। विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में इनके प्रकाशन तथा आज के परिवेश में इनकी व्याख्या का भी प्रावधान किया जाना उचित होगा। महोदय, वधियक में पब्लिक, प्राइवेट तथा वदेशी डोनेशन की व्यवस्था है। इसमें पूर्व एशियाई देशों का आर्थिक सहयोग शामिल है। सरकार को पी.पी.पी. तथा वदेशी धन पर खास नजर रखने की जरूरत होगी, ताकि किसी भी रूप में इसका दुरुपयोग नहीं होने पाए। सार्क देशों के बीच हुई सहमति के आधार पर दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार आकार ले चुका है। पूर्व में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं ऊंचे आदर्शों को लेकर की गई थी। ... (समय की घंटी) ... सर, बस, खत्म कर रहे हैं। आजवहां की स्थिति क्या है, यह हम सब लोग जानते हैं। क्या वहां पर सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, इसको देखने की जरूरत है ...।

उपसभाध्यक्ष (श्री शांतिाराम लक्ष्मण नायक): ठीक है , ठीक है।

श्री राम कृपाल यादव : नासंदा mentor group, Harword विश्वविद्यालय और न्यूयार्क विश्वविद्यालय के डिप्लोमा को जगह दी गई है। ये वद्विान भारतीय मूल के हैं , मैं इसका भी स्वागत करता हूं , परन्तु भारतीय विश्वविद्यालयों में भी दशकों से कार्यरत वद्विानों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान देगी , मेरा यह विश्वास है। मैंने जो अपने विचार रखे हैं , उनका समावेश इस विधियक में किया जाना चाहिए। इस विधियक में जो कमी है , उसको दूर किया जाना चाहिए। मैं इस विधियक का पूरा समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस विधियक के माध्यम से जो नासंदा विश्वविद्यालय का नक्षिण किया जा रहा है , उसके उदेश्यों को सरकार पूरा करेगी और देश -विदेश के लोग इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में आयेंगे तथा शिक्षा ग्रहण करके , उनका व्यक्तित्व नखिरेगा और वे देश तथा दुनिया की सेवा करेंगे। मैं पुनः इसका समर्थन करते हुए , आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

पुनः . सैफुद्दीन सोझ (जम्मू और कश्मीर) : जनाबेवाला , डिप्टी चेयरमैन साहब ने ठीक कहा था , जब वह सदरनशीन थे यहां के कि आजकी बहस का मयार इतना बुलंद हो गया कि उन्होंने घड़ी की तरफ नहीं देखा। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस विषय पर कुछ नहीं बोलना था। मैंने समझा कि मेरे पास वह इल्म नहीं कि मैं नासंदा विश्वविद्यालय के बारे में बोझूं। लेकिन जब मैंने डा. कर्ण सहि जी की तकरिर सुनी , तो मुझे लगा कि डा. कर्ण सहि जी ने ऐसा मजिराब छेड़ा है जिसकी ले का दखि की कायनात में , इंसानियत की बका के लिए एक रूहपरवर तलातुन पैदा कर सकता है। मैं इस ले का इस्तकबाल करता हूं। मुझे आज बड़े दखि में एक लुल्फ पैदा हुआ कि सारा एवान जो था , हर मेम्बर जो इस सभा का था , वह ले का आशिक हो गया था। हम सब

जुड़ गए थे हब्दिस्तान की अज़मतके लए। मैं डॉ. कर्ण सहि जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस सदन का वकार बुखंद कयिा है और मैं हुकूमते हदि को, यूफ़ीए सरकार को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हब्दिस्तान की अज़मतेरफता को, फरि से जद्वि कयिा है। यह ऐसा पैंगाम है सारी दुनिया के लए, मैं देख रहा था कि ईस्ट एशिया की सम्मित मल्लिगी, लेकिन यह पैगाम जो नासंदा का है, ये हब्दिस्तानगीर नहीं है, यह आलमगीर है। इसलिए मैं इस कंसैप्ट का, इस ख्याल का, इस तजवीज़ का खेरमकदम करता हूँ दल्लि की गहराईयों से।

मैं अभी देख रहा था, क्योकि डॉ. साहब ने जब तकरीर फरमाई और हमको जोड़ दिया, तो मैंने देखा कि पछिले हफते में अमत्यसेन और George Yeo जो सगिापुर के वजीरे खारजा हैं, उन्होंने एक mentor group तशकील दिया है और काफ़ी बातें की हैं। मैं इस एवान में एक तजवीज़ रखता हूँ, इसलिए नहीं कि उनसे कहता हूँ, बल्कि उनका मर्तबा बढ़ेगा कि उस mentor group में डॉ. कर्ण सहि जी को शामिल कयिा जाना चाहिए, एक दरखास्त उनको देनी चाहिए। अभी ईस्ट एशिया सम्मित हो रही है, आजजब इस बल्लि को पास करेंगे, उसके बाद उनकी तजवीज़ है कि ईस्ट एशिया सम्मित में, इस बल्लि को, हमारी तजवीज़ को वह देखेंगे। उसके बाद नासंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। अभी डॉ. साहब बता रहे थे, मैंने सोचा था कि इस बहाव में याद दल्लिऊँ कि जब नासंदा यूनिवर्सिटी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाइयों कि इसको वद्वियापीठ कहेंगे, यूनिवर्सिटी कहना ज्यादा मुत्तासि ब है। यह तो बड़ा म्यार रखा, सारी तकरीरें, एक से एक बढ़िया तकरीरें यहां हुई हैं। अभी यहां मोहन सहि जी याद दल्लिा रहे थे कि ये सेक्युलर यूनिवर्सिटी होगी, सबकी यूनिवर्सिटी होगी। मैं उस पर भी जरा आऊंगा। जब हम इस यूनिवर्सिटी के काम में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे ख्याल आया कि मैं एक कश्मीरी होमे के नासंदा डॉ. साहब को याद दल्लिऊँ, वह उस मायने में मेरे हम वतन है कि जसि वक्त नासंदा थी, उस वक्त तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी और उस वक्त कश्मीर की शारदा यूनिवर्सिटी थी। कश्मीर ने क्या इस मुल्क को कुछ नहीं दिया है? हमने इबनेबतूता दिया है, हमने कलहन दिया है और आज की तारीख में जो आपके पास लाइब्रेरी में सारी कत्तिबें प्रिंटेड हैं हमारे इतिहास की हब्दिस्तान की पांख हजार साल पुरानी तारीख है, जो लखी हुई है। उसमें जो लखी हुआ इतिहास है, वह कश्मीर ने दिया है, कलहन ने राज तरंगनी में तो मैंने चाहा था डाक्टर साहब को याद दल्लिऊँ कि कभी इस एवान में शारदा यूनिवर्सिटी की बुनियादी रखने का भी प्रमोजल होना चाहिए। क्योकि उस जमाने में नासंदा के साथ शारदा यूनिवर्सिटी भी थी और यह सब मीरास जो है, मैं याद दल्लिाना चाहता हूँ मोअज्जिज साहेबान को कि यह मीरास इंसानियत की मीरास है, हब्दि, मुसलमान, सखि, इसाई और बौद्ध की मसिस है।

इसलिए मैं नालंदा यूनिवर्सिटी के इस ख़ाब की जो ताबीर हुई है, उसका इस्तक़बाल करता हूँ यह मीरास सबकी है, हब्दिस्तान के हर बाशिंदे की है और दुनिया के हर बाशिंदे की है। इसीलिए मैं इस सदन को यह याद दखिना चाहता हूँ, कभी-कभी मौक़ा मख़िता है, कभी-कभी हम घर से तैयार होकर बोलने के लए आ जाते हैं, कभी-कभी डाक्टर कर्ण सहि जी जैसे लोग यहां मजिराब छेड़ते हैं और दखि के तार हखिने लगते हैं और रस्मे तहरीक पैदा होती है कि कुछ बोला जाए। आजमुझे यह कहने का मौक़ा मख़िता है कि जब जहालत फैल जाती है, उसका मजहब से तारलुक नहीं होता है, जब महात्मा बुद्ध के बुत बाभियान में तोड़े जा रहे थे, मैं दुनिया के उन करोड़ों मुसलमानों में शामिल था, जबकि दखि में बड़ा दुख पैदा हो गया था। बाकी लोगों की तो बाह ही नहीं है। जहालत के साथ सारे लोग नहीं होते हैं। असल में कुछ मुसलमान इस्लाम की तालीमात के दरमियान हाइल हो गए हैं और हमने माहम कथिा था उस अमल पर, जसिमें महात्मा बुद्ध के मुजस्समे तोड़े गए थे, क्योंकि आपके दखि में खयाल होना चाहिए। कसिी मजहब में नहीं हो सकता है ये कि वह दूसरे मजहब का अपमान करे। आपको, हमको कसिी को हक नहीं पहुंचता है कि मैं कसिी तरफ नमाज पढ़ता हूँ, मुसलमान अपने इल्म से वह करे, लेकिन दूसरे मजहब का एहतराम करना हर मजहब ने सखिया है और इसीलिए मुझे याद आ गया आजके दखि महात्मा बुद्ध के मुजस्समे को जबि लोगों ने तोड़ा उन्होंने खुद मुसलमानों के दखिों पर नेजे या कुदाल चलाए थे। उनको इल्म नहीं था कि इस्लाम रवादारी का मजहब है। डा. कर्ण सहि जी ने अपनी खूबसूरत तकरीर में पैशम्बर इस्लाम को भी याद कथिा। मैं इसकी तहकीकात करके, अभी मैं जाहिल हूँ, मुझे माहूम नहीं है, लेकिन हब्दिस्तान की मीरास, हब्दि सुलान की अजमत और हब्दिस्तान में जो कल्चर था, उसके बारे में जो कहा गया है, इसी सदन में पलट के आऊंगा, लेकिन उनके दो बोल मैं इस वक्त बताना चाहता हूँ मैं इसमें जरा सा बताऊंगा कि रवादारी और वुस्सत नजर की क्या है, उन्होंने यह बोला कि मुसलमान मर्दा और मुसलमान औरतों के लए इल्म हासिल करना लाज़मी है।

और इल्म को इतना तंग नहीं बनाया कि कहां इल्म हासिल करें और दूसरे बोझ में कहा कि इल्म हासिल करो। मैं अरबी में बताऊंगा - तलब अल इल्म वलौकान बैल। उस जमाने में चीन दूर था, कोई रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, कहा कि अगर इल्म हासिल करना जरूरी है, तो अगर चीन भी जाना पड़े तो इल्म के लिये यह हदियत है। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो आप नास्रुन्दा की बुनियाद रखने जा रहे हैं, यह इल्म का नूर है, यह इंसानियत की मीरास है, इसीलिए मैंने डॉ. कर्ण सहि जी के साथ अपनी जरा सी आवाज मिलाए की कोशिश की है मैं अल्लामा इकबाल के एक मसिरे पर खत्म करता हूँ, शायद की उतर जाए, तेरे दिल में मेरी बात। बहुत - बहुत शुक्रिया।

†
] پروفیسر سیف الدین سوز : جناب عالی، ڈپٹی چیئرمین صاحب نے ٹھیک کہا تھا، جب وہ صدر نشین تھے یہاں، کہ آج کی بحث کا معیار اتنا بلند ہو گیا کہ انہوں نے گھڑی کی طرف نہیں دیکھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس وشنے پر کچھ بولنا نہیں تھا۔ میں نے سمجھا کہ میرے پاس وہ علم نہیں کہ میں نالندہ وشوودیالیہ کے بارے میں بولوں۔ لیکن جب میں نے ڈاکٹر کرن سنگھ جی کی تقریر سنی، تو مجھے لگا کہ ڈاکٹر کرن سنگھ نے ایسا مضراب چھیڑا ہے جس کی لے کا دل کی کانٹات میں، انسانیت کی بقا کے لئے ایک روح پرور تلاطم پیدا کر سکتا ہے۔ میں اس لے کا استقبال کرتا ہوں۔ مجھے آج بڑے دنوں کے بعد اک لطف پیدا ہوا، سارا ایوان اور ہر ممبر اس لے کا عاشق ہو گیا تھا۔ ہم سب جڑے ہوئے ہندوستان کی عظمت کے لئے۔ میں کرن سنگھ جی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس سدن کا وقار بلند کیا ہے اور میں حکومت ہند کو، یو پی۔ اے۔ سرکار کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کی عظمت رفتہ کو، پھر سے زندہ کیا ہے۔ ایک ایسا پیغام ہے ساری دنیا کے لئے، میں دیکھ رہا تھا کہ ایسٹ ایشیا کی سمٹ ملے گی، لیکن یہ پیغام جو نالندہ کا ہے، یہ ہندوستان گیر نہیں ہے، یہ عالم گیر ہے۔ اس لئے میں اس کنسیپٹ کا، اس خیال کا، اس تجویز کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جب تقریر فرمائی اور ہم کو جوڑ دیا، تو میں نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے میں امرتہ سین اور George Yeo جو سنگاپور کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایک mentor group تشکیل دیا ہے اور کافی باتیں کی ہیں۔ میں اس ایوان میں ایک تجویز رکھتا ہوں، اس لئے نہیں کہ ان سے کہتا ہوں، بلکہ ان کا مرتبہ بڑھے گا اس mentor group میں ڈاکٹر کرن

†[Transliteration in Urdu Script]

سنگھہ جی کو شامل کیا جانا چاہئے، ایک درخواست ان کو دینی چاہئے۔ ابھی ایسٹ ایشیا سمٹ ہو رہی ہے، آج جب اس بل کو پاس کریں گے، اس کے بعد ان کی تجویز ہے کہ ایسٹ ایشیا سمٹ میں، اس بل کو، ہماری تجویز کو وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد نالندہ یونیورسٹی کا نرمان ہوگا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، میں نے سوچا تھا کہ اس بہاؤ میں یاد دلاؤں کہ جب نالندہ یونیورسٹی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے بھائیوں، اس کو ودھیاپیتھہ کہیں گے، یونیورسٹی کہنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ تو بڑا معیار رکھا ساری تقریروں کا، ایک سے سے بڑھیا تقریریں یہاں ہونی ہیں۔ ابھی یہاں موہن سنگھہ جی یاد دلا رہے تھے کہ یہ سیکولر یونیورسٹی ہوگی، سب کی یونیورسٹی ہوگی۔ میں اس پر بھی ذرا آؤں گا۔ جب ہم اس یونیورسٹی کے کام میں آگے بڑھیں گے، تو مجھے خیال آیا کہ میں ایک کشمیری ہونے کے ناطے ڈاکٹر صاحب کو یاد دلاؤں، وہ اس معنی میں میرے ہم وطن ہیں، جس وطن نالندہ تھی، اس وقت تکشیلہ یونیورسٹی تھی اور اس وقت کشمیر کی شاردہ یونیورسٹی تھی۔ کشمیر نے کیا اس ملک کو کچھ نہیں دیا ہے؟ ہم نے ابن بطوطہ دیا ہے، ہم نے کلہن دیا ہے اور آج کی تاریخ میں جو آپ کے پاس لائبریری میں ساری پرنٹڈ کتابیں ہیں۔ ہمارے اتہاس کی، ہندوستان کی پانچ ہزار سال پرانی تاریخ ہے، جو لکھی ہوئی ہے۔ اس میں جو لکھا ہوا اتہاس ہے، وہ کشمیر نے دیا ہے۔ کلہن نے راج ترنگنی میں۔ تو میں نے چاہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو یاد دلاؤں کہ ابھی اس ایوان میں شاردہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے کا بھی پروژل ہونا چاہئے۔ کیوں کہ اس زمانے میں نالندہ کے ساتھ شاردہ یونیورسٹی بھی تھی اور یہ سب میراث جو ہے، میں یاد دلانا چاہتا ہوں معزز صاحبان کو کہ یہ میراث انسانیت کی میراث ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور بودھ کی میراث ہے۔ اس لئے میں نالندہ یونیورسٹی کے اس خواب کی جو تعبیر ہوئی ہے، اس کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ میراث سب کی ہے، ہندوستان کے ہر باشندے کی ہے اور دنیا

کے ہر باشندے کی ہے۔ اسی لئے میں اس سدن کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی موقع ملتا ہے، کبھی کبھی ہم گھر سے تیار ہو کر بولنے کے لئے آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ڈاکٹر کرن سنگھ جیسے لوگ یہاں مضراب چھیڑتے ہیں اور دل کے تار ہلنے لگتے ہیں اور رسم تحریک پیدا ہوتی ہے کہ کچھ بولا جائے۔ آج مجھے یہ کہنے کا موقع ملا ہے کہ جب جہالت پھیل جاتی ہے تو اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا ہے، جب مہاتما بدھ کے بت بامیان میں توڑے جا رہے تھے، میں دنیا کے ان کروڑوں مسلمانوں میں شامل تھا، جن کے دل میں بڑا دکھ پیدا ہو گیا تھا۔ باقی لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جہالت کے ساتھ سارے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ اصل میں کچھ مسلمان اسلام کی تعلیمات کے درمیان حائل ہو گئے ہیں اور ہم نے ماتم کیا تھا اس عمل پر، جس میں مہاتما بدھ کے مجسمے توڑے گئے تھے، کیوں کہ آپ کے دل میں خیال ہونا چاہئے، کسی مذہب میں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے مذہب کا اہمان کرے۔ آپ کو، ہم کو کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ کوئی کس طرح نماز پڑھتا ہے۔ مسلمان اپنے علم سے وہ کرے۔ لیکن دوسرے مذہب کا احترام کرنا ہر مذہب نے سکھایا ہے اور اسی لئے مجھے یاد آ گیا آج کے دن مہاتما بدھ کے مجسمے کو جن لوگوں نے توڑا انہوں نے خود مسلمانوں کے دلوں پر نیزے اور کدال چلانے تھے۔ ان کو علم نہیں تھا کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے۔ ڈاکٹر کرن سنگھ جی نے اپنی خوبصورت تقریر میں پیغمبر اسلام کو بھی یاد کیا۔ میں اس کی تحقیق کروں گا، ابھی میں جاہل ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہندوستان کی میراث، ہندوستان کی عظمت اور ہندوستان میں جو کلچر تھا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے، اسی سدن میں پلٹ کے آؤں گا، لیکن ان کے دو بول میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں۔ میں اس میں ذرا سا بناؤں گا کہ رواداری اور وسعت کی نظر کیا ہے، انہوں نے یہ بولا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لئے علم حاصل کرنا لازمی ہے اور علم کو اتنا تنگ نہیں بنایا کہ کیا علم حاصل کریں اور

same.

Now, Sir, the school of education, upon its establishment, will impart education in various fields, namely, Buddhist studies, philosophy and comparative religions, historical studies, international relations and peace studies, business management in relation to public policy and development studies, languages and literature; and ecology and environmental studies. During the sixth century, the Nalanda Vidyapeeth or the Nalanda University was an institution that was

renowned for its mathematics and astronomy in ancient days. So, I would like to know from the hon. Minister why these subjects have not been included. Secondly, it was a Buddhist University, but now, will it serve the purpose of an institution devoted to global religious reconciliation?

Lastly, I would like to say in support of this Bill that there is an imperative need for retrieval of roots, a connection to the soul of Indian learning, systematically, at almost the exact physical location of the ancient Nalanda Vidyapeeth.

श्री रामविलास पासवान (बहिर) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विधियक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं भारत सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो चीज़ खत्म हो गई थी, उन्होंने 800 साल के बाद, उसको फिर से न सिर्फ पुनर्जीवित करने का काम किया है, बल्कि विश्व के पैमाने पर भारत और नालंदा विश्वविद्यालय का नाम भी प्रकाशित करने का काम किया है। सर, जब हम नालंदा की बात करते हैं, तो साहसा बौद्ध धर्म की याद आ जाती है। यदि आज विश्व में भारत की पहचान है तो वह बौद्ध धर्म के कारण है। मैं राम और भगवान बुद्ध में कोई अंतर नहीं मानता हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध को मानने वाले आज दुनिया में जितने लोग हैं, आप इस्लाम धर्म को छोड़ दें, क्रिश्चियन तो हैं ही, शायद ही किसी अन्य को मानने वाले हैं। उसके साथ ही जब आज भी बौद्ध धर्म दुनिया में जीवित है, तब हमें आत्मविवेचन करना चाहिए कि जो बौद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ, जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुआ, जहाँ पर भूतान बुद्ध ने दीक्षा ली, आज वहाँ पर बौद्ध धर्म क्यों समाप्त हो गया? बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय यदि किसी को जाता है, तो वह बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। जिनोंने 14 Oct., 1956 को, महाराष्ट्र के नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा भूमि में दीक्षा लेने का काम किया। उस समय, उनके साथ, जिन दस लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, वे सभी दलित वर्ग के थे। बौद्ध धर्म को यहाँ से समाप्त कर दिया गया। आज चीन में बौद्ध धर्म है, चीन अमेरिका से टक्कर लेने को तैयार है। जापान में बौद्ध धर्म है, जापान अमेरिका से टक्कर लेने को तैयार है। जसि बौद्ध धर्म ने सामाजिक कुव्यवस्था को दूर किया था, जात-पात को दूर किया था, हमने उसी बौद्ध धर्म को समाप्त करके पूरे देश को गर्त में लाने का काम किया है।

भारत की कतिनी पूजा होती है। मैं ताइवान गया हुआ था, ताइवान में हमने लोगों से पूछा, वे हमारे मन्त्रि थे, कि मैं भारत से आपके लिए क्या तोहफा लाऊंगा। उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं, हमारे लिए बोध गया से एक पेड़ लेकर आइएगा। वहाँ से एक छोटा-सा पेड़, वह भी proper बोध गया में होता है या नहीं, लेकिन लोग बेचते हैं, मैं उसे लेकर वहाँ गया, उसकी लोगों ने पूजा की। जब मैं दोबारा गया, तो वह पेड़ बहुत बड़ा बन गया था।

वह छोटा -सा पौधा बहुत विशाल बन गया था। इतनी पूजा होती है। आज यदि हम दुनिया को कहते हैं कि भारत दुनिया का गुरु है, तो उसमें भुशवान बुद्ध का सबसे बड़ा हाथ है और अहिंसा का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन हम क्या करते हैं ?

कल मैके कहा था कि Act अलग होता है, fact अलग होता है। हमें इस बात का डर है कि आप नाबंदा विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, लेकिन कल इसका control कबिके हाथों में होगा ? वही कुछ IAS अफसर, IFS अफसर इसे control करेंगे। यही लोग करेंगे। मैं कोई politics नहीं करना चाहता हूँ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना, उसका minority character था, जामिया मल्लिया, minority character था, हमने इसे कहाँ खत्म कर दिया ? एन.के. सहि जी यहाँ हैं, आप चले जाइए बोध गया, वहाँ बौद्ध वह्निर मंदिर है। बौद्ध वह्निर मंदिर Budhists के लखे हैं, लेकिन हमने वहाँ क्या उत्पात मचाया है। बौद्ध वह्निर मंदिर की 9 मैम्बर्स की मैनेजमेंट कमेटी है। हमारे बहुत सारे पुराने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अम्बिका सोमी जी बैठी हुई हैं। हमने कैबिनेट में कई बार इस मामले को उठाया कि बोध गया मैनेजमेंट कमेटी में 9 मैम्बर्स हैं और यह कहा गया है कि 9 मैम्बर्स में से 4 मैम्बर्स हब्दू रहेंगे और 4 मैम्बर्स गैर -हब्दू रहेंगे। कामून यह बना दिया गया कि इसका चेयरमैन कलक्टर होगा। इतनी दूर तक तो ठीक है। हम संबिधान में कहते हैं कि जात -पात नहीं है, लेकिन हमने उसके एक्ट में लखा हुआ है कि यदि कलक्टर हब्दू होगा, तो वह चेयरमैन होगा और अगर कलक्टर हब्दू नहीं है, Budhist है, तो वह चेयरमैन नहीं होगा। इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। आज यदि कोई हब्दू

2.00 P.M.

का मंदिर है, शंकराचार्य का मंदिर है, क्या कोई मुसलमान उसका चेयरमैन बन सकता है, कोई Buddhist उसका चेयरमैन बन सकता है या कोई ईदगाह है, कोई शरीफ है, वहाँ कोई बन सकता है? जहाँ भगवान बुद्ध ने दीक्षा ली, उस बौद्ध वह्निर में कानून बना हुआ है कि उसका चेयरमैन हब्दू ही होगा। अगर कोई दूसरा कलक्टर जाएगा, तो वह उसका चेयरमैन नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से यह माँग करना चाहता हूँ कि जब आप यह प्रस्ताव पास करते हैं, आप तुरंत यहाँ से बह्निर सरकार को नदिश दीजिए कि बह्निर सरकार वहाँ कानून में संशोधन करे और उस बौद्ध वह्निर के मंदिर में Budhists को majority में रखा जाए। हम लोग इसके लिए कत्तिनी बार जेख गए। 22 अप्रैल को करीब 5 हजार बौद्धों को लेकर, जो महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर नॉर्थ - ईस्ट, सब जगह से आए थे, हम लोग जेख गए थे। इसलिए मैंने कहा कि Act अलग होता है, fact अलग होता है। हम आज कानून बना देंगे कि इसका secular character होगा, लेकिन हमें इस बात का डर है कि कब यह कट्टरवादी हब्दुवादी के हाथों में चला जाएगा और जो भगवान बुद्ध का दर्शन है, वह भगवान बुद्ध का दर्शन इसमें से वल्लोपित हो जाएगा। आपने कहीं नहीं लिखा है कि जो मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, उस मैनेजमेंट कमेटी में कत्तिने Budhists रहेंगे। आपने इसे बाद के लिए छोड़ दिया है। यह vague है और इसको साफ़ करना चाहिए।

सर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा, मैं देख रहा हूँ कि आप हमारी तरफ देख रहे हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन कत्तिनी यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध पेट से होता है। अंग्रेज यहाँ कत्तिने सालों के लिए आए थे? अंग्रेज यहाँ 1857 में आए और 1947 में चले गए। 100 सालों के लिए अंग्रेजों का भारत में आना और हमारी मातृभाषा, हब्दुी नौकरानी बन गई है। देशी भाषा नौकरानी बन गई है और अंग्रेजी महारानी बन गई है।

अंग्रेजी क्यों महारानी बन गई है? अंग्रेजी इसलिए महारानी बन गई, क्योंकि आपने उसका संबंध पेट से जोड़ दिया, नौकरी से जोड़ दिया। जब तक आप..(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री शान्तराम लक्ष्मण नायक): एक मिनट, पासवान जी। If the House agrees, we can pass the Bill first and postpone, for a while, the taking up of the Private Members' Business at 2.30 p.m.

श्रीमती वृद्धा कारत (पश्चिम बंगाल): सर, पहले बिल को पास कर दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री शान्तराम लक्ष्मण नायक): ठीक है, पासवान जी, आप बोलिए।

श्री रामविलास पासवान: सर, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि

भाषा का संबंध , जसि भाषा में नौकरी मखिती है , वह पेट से जुड़ा हुआ है। अभी हमारी साथी कह रहे थे , उस समय वहां पर लोकल भाषा पाली चलती थी और पाली में ही पढ़ाई होती थी , लेकिन अब लोग पाली की पढ़ाई करके क्या करेंगे ? कहां जाएंगे ? आज संस्कृत पढ़ने वाले लोग कहां जा रहे हैं ? उर्दू पढ़ने वाले लोग कहां जा रहे हैं ? सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों के लखि सभी दरवाजे खुले हुए हैं , बाकी दूसरी भाषा पढ़ने वाले लोगों के लखि कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है। इसलिए जब तक आप इसका संबंध पेट से नहीं जोड़ेंगे , तब तक वह सफल नहीं हो पाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी से जो स्टुडेंट पढ़ कर नकिलेगा , वह कहां जाएगा ? वह लड़का क्या करेगा ? क्या वह जाकर सिर्फ बुद्धम शरणम् गच्छामी करता फरिगा ? वह आखिर क्या करेगा ? जो बच्चे वहां पढ़ेंगे , आपको उनके भविष्य की तरफ भी देखना पड़ेगा।

मैं फरि कहना कहना चाहता हूं कि जसि बौद्ध धर्म ने पूरे देश में और पूरी दुनिया में मामवता का संदेश दिया , वह बौद्ध धर्म आज भारत से वल्लिप्त क्यों हो गया है ? वह कौन सी मामसिकता है , जो यहां पर फैल रही है ? हम सर्वधर्म की बात करते हैं , 'वसुधैव कुटुम्बकम् ' की बात करते हैं , लेकिन वे कौन सी ताकते हैं , जो हमें कमजोर बना रही है ? हमको उन ताकतों को समाप्त करना पड़ेगा। उन कट्टरपंथी ताकतों को सोचना पड़ेगा कि भारत एक बगीचा है और इस बगीचे में हर तरह के फूल हैं। यहां पर हिन्दू भी हैं , मुसलमान भी हैं , सिक्खि भी हैं , ईसाई भी हैं , दलित भी हैं , ब्राह्मण भी हैं। बगीचे का वही माली अच्छा होता है ,

जसिके बगीचे में हर तरह का फूल खलित है। जसिे बगीचे में सर्फि कमलका फूल खलि , बाकी फूल मुरझा जाण , तो समझलीजिए कि बगीचे का माली बेईमान है।

अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि हमारे मन की मधुमक्खियां ... (व्यवधान) ...

श्री उद्गनारायण पाणि : माननीय सदस्य कमल की बाह कर रहे हैं ... (व्यवधान) ...

श्री रामविलास पासवान : सर, मैंने बीजेपी का नाम कहा लया है , मैंने तो कमल की बाह की है ... (व्यवधान) ...

श्री उद्गनारायण पाणि : सर, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आखिर बौद्ध गया मन्दिर का कानून कब से बना है ?

श्री रामविलास पासवान : यह कानून बहुत पहले से है।

उपसभाध्यक्ष (श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक) : ठीक है , ठीक है ... (व्यवधान) ... पाणि जी , आप बैठ जाइए ... (व्यवधान) ...

श्री उद्गनारायण पाणि : बौद्ध गया मन्दिर का कानून कब से है ? ... (व्यवधान) ...

श्री रामविलास पासवान : हमने बोला ना कि कानून बहुत पहले से है। ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक) : ठीक है , ठीक है , समाप्त कीजिए ... (व्यवधान) ...

श्री उद्गनारायण पाणि : 1990 में लाख जी की सरकार थी , 9 साल आपने बहिर पर राज किया ... (व्यवधान) ... आपने जब कमल के फूल का नाम लया , तभी हम बोस रहे हैं ... (व्यवधान) ...

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (गुजरात) : क्या आपने कमल का फूल पेटेंट करवा लया है ?

श्री रामविलास पासवान : कमल के फूल का मतलब क्या बीजेपी ही होता है ? ... (व्यवधान) ...

श्री उद्गनारायण पाणि : हम इशारा समझते हैं ... (व्यवधान) ...

श्री रामविलास पासवान : आप इशारा समझते रहिए ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक) : पासवान जी , समाप्त कीजिए ... (व्यवधान) ...

श्री रामविलास पासवान : सर, लास्ट में हम इतना ही कहना चाहेंगे ... (व्यवधान) ...

श्री उद्गनारायण पाणि : बौद्ध गया मन्दिर का कानून कब से है ?

श्री रामविलास पासवान : 1949 से हैं ... (व्यवधान) ... मैं आपकी पार्टी को कहां दोष दे रहा हूं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक) : पासवान जी , आप प्लीज़ समाप्त कीजिए ... (व्यवधान) ... बस आपका हो गया ,

धन्यवाद ... (व्यवधान) ...।

श्री रामविलास पासवान : सर, अभी डॉक्टर साहब ने जो कहा, उनका समर्थन करते हुए मैं सफ़ि़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, हमारे मन की मधुमक्खियाँ संसार के सभी उद्यानों में जाएंगी, सभी बगीचों में जाएंगी और अपनी मेहनत से मधु का कोष तैयार करेगी, इसलिए हम अपना दरवाजा खोल कर रखें। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पर हमें नाज़ है। हर संस्कृति पर नाज़ नहीं किया जा सकता है ... (व्यवधान) ... और इन्होंने जो वास्तुकला की बात कही, उन सबको समाविष्ट करते हुए, उसका जो करेक्टर होना चाहिए, वह सैकुलर होना चाहिए। यदि हम सैकुलर करेक्टर की बात करते हैं तो एडमिशन से लेकर एजुकेशन तक और वद्वियार्थी से लेकर शक्षिक तक, सब में सैकुलर करेक्टर झलकना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजनीति प्रसाद (बहिर) : सर, मैं सबसे पहले नाज़दा विश्वविद्यालय बनाने की जो सोच है, उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। यह बहुत ही अच्छा बख़ि है। मैं अपनी बात इकबाल की शायरी से शुरू करता हूँ,

कुछ बात है कि हस्ती मट्टि नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौर -ए-जमां हमारा।

(श्री उपासभापति पीठासीन हुए)

जो विश्वविद्यालय दर-ब-दर नीचे दफना दिया गया था, जो खत्म हो गया था, उसे हम पुनः वापस ला रहे हैं। हमारी यह कतिनी अच्छी परम्परा है और कतिनी मधुर सोच है, लेकिन इस विश्वविद्यालय में पढ़ेगा कौन ? उसमें शायद एन.के. सहि जी नहीं पढ़ेंगे, रामविलास जी नहीं पढ़ेंगे और हम भी नहीं पढ़ेंगे। वहाँ पढ़ने कौन जाएगा ? मोहन सहि जी ने बहुत बढ़िया कहा कि कतिनी ही विश्वविद्यालय खोले गये और संस्कृत और पास्ती के कतिनी ही वदियापीठ खोले गये, लेकिन उनमें वदियार्थी नहीं मखिते हैं। रामविलास जी ने सही कहा कि कहाँ के विश्वविद्यालय से पास करने के बाद हमको कतिनी पैसा मखिता है, यह एक बड़ी बात है। इसीलिए, लोग अपने बच्चों का नाम पूजा से सम्बिण्डिसिस में लखिवाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को कौन भेजेगा और वहाँ बाहर से कौन आयेगा ? हम हार्बर्ड यूनिवर्सिटी इसलिए जाते हैं कि उसका नाम है और अंग्रेजियत के कारण हन्दिस्तान में भी नाम से ही काम मखिता है। इसलिए सर, This solemn may be virtues of life, but, Sir, the prevailing vice cannot be ruled out. This is the fortune of our nation.

इसलिए, आपने यूनिवर्सिटी खोली है, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो वहाँ पैदा हुआ हूँ। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि आपने इतने साल पुराने विश्वविद्यालय, जसिकी कतिनी को जलने में 6 महीने लगे और जहाँ के लोगों को मार दिया गया, उसको आपने पुनर्जीवित किया है, लेकिन आप इस बात का खयाल रखेंगे कि कहीं वह कसि की धरोहर न बन जाए। दूसरी बात यह है कि फुल का मतलब गुलाब होता है, फूल का मतलब चम्पा और चमेली होती है, फूल का मतलब केवल कमल नहीं होता है। जो केवल कमल को रखेंगे तो वह चलने वाला नहीं है। अब मैं आपका समय नहीं लूँगा। मैं फरि से इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये इतना बढ़िया बिल यूनिवर्सिटी के लिए लाए हैं। मेरा समय खत्म हो गया है, इसलिए अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे जो दो मखिट का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI PRENEET KAUR): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I take note of the suggestions put forward by the hon. Members. Firstly, let me clarify that the Ministry of External Affairs has introduced the Bill as this will be an international University supported by 16 other countries of the East Asia Summit. We will certainly recommend the suggestion regarding the motto and the name of the university will be suitably considered by the governing body of the University and the Nalanda

Mentor Group. Regarding the architecture, there will be an international architectural competition held and suggestions made by the hon. Members will be incorporated when calling for the architectural designs. I am in full agreement that our focus has to be on Buddhist studies. This has been incorporated in the objectives of the University. A school of Buddhist Studies is going to be established. I would like to congratulate the hon. Member, Shri Pramod Kureel on his maiden speech and many of the Members have proposed that there should be a special officer. It has been proposed to appoint a dedicated officer at the level of Joint Secretary in the Ministry to handle the working related to the Nalanda University. Mr. Deputy Chairman, Sir, I am in full agreement that the faculty should be drawn from international academics and that all countries should be involved in Nalanda University, not only the countries of South East and East Asia. In fact, in the Governing Board itself there will be prominent academics on the Board to ensure academic content. Mr. Deputy Chairman, Sir, some suggestions have been made to enlarge the number of school disciplines. There is an enabling clause to do so in the Bill and this will be done in the framing of the statutes. Let me clarify to the hon. Members, Sir, that there will

be a full-fledged resident Vice-Chancellor and other officers of the university for the running of the university on a day-to-day basis as has been laid down under Section 13 of the Bill itself. Mr. Chairman, Sir, I must add that this Bill provides only the broad skeleton of the legislation. The other details mentioned in the valuable suggestions put forward by the hon. Members will be suitably kept in mind while framing the statutes, academics and regulations under the Act provisions. It is with a great sense of happiness, Mr. Deputy Chairman, Sir, that I express my sincere gratitude to the hon. Members of this August House for extending their full support today to the establishment of this great institute of learning. Mr. Deputy Chairman, Sir, may I now request that the Bill be passed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will now put the motion to vote. The question is:

That the Bill to implement the decisions arrived at the Second East Asia Summit held on the 15th January, 2007, at Philippines and subsequently at Fourth East Summit held on the 25th October, 2009, at Thailand for the establishment of the Nalanda University in the State of Bihar as an international institutions for pursuit of intellectual, philosophical, historical and spiritual studies and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 3, there is one amendment by Shri Bharatkumar Raut. Are you moving?

SHRI PRENEET KAUR: Sir, we will refer it to the mentor group.

SHRI BHARATKUMAR RAUT: In view of the assurance given by the hon. Minister that the issue would be referred to the mentor group, I am not moving my amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. We will now put clause 3 to vote.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 to 44 were added to Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 1, there is one amendment by Shri

Bharatkumar Raut. Are you moving?

SHRI BHARATKUMAR RAUT: I am not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. I will now put clause 1 to vote.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

*The Enacting Formula, the Preamble and the Title
were added to the Bill.*

SHRIMATI PRENEET KAUR: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Private Members' Business (Resolutions). Now, Dr. Gyan Prakash Pilania to speak.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Constitution of an environment adaptation and mitigation fund

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Thank you, Sir.

Shri N.K. Singh has raised a matter of universal concern. A matter which vitally affects each and everyone – human beings, trees, plants, insects, earth, sky and all the animals. Global warming is called वैश्विक उष्णता . It means, a series of small but consistent increases in atmospheric and ocean temperatures over the past century. It affects the temperature of earth, air and seas. Every time a human cuts down a tree or drives a gas-burning car, he contributes to global warming. Global warming has a direct effect on climate change. Climate change is the affect of global warming on weather. As wind and water get warmer, the earth's climate cycles will change dramatically, leading to shifting in agriculture production and water supply. There is an anticipation – and nearly concurrence – that temperature will rise in future anywhere from 1.1 to 6.4 degree Celsius. And, if earth's temperature rises, evaporation goes up, leading to more pronounced dry spells. At the same time, all the moisture in the air collects over the oceans, and when these clouds finally roll over land, they release torrential and sudden rains. As has happened very recently, cloud burst in Leh is one example of that. There was also a cloud burst on 18th in Uttarakhand is another example of that. And, Sir, somewhere drought and somewhere torrential rains and this shifting of temperature is the affect of global warming. Global warming is generated, primarily, by Greenhouses. The most prevalent green gasses are Co₂, Methane and Nitrous Oxide. A fourth group is fumigated gasses released by Air Conditioners and refrigerators. These are the causative factors. But, Sir, global warming, as I have submitted, affects everyone. The poorest of the poor, the richest of the rich and all kinds of species are affected.

Sir, I had put a question in Rajya Sabha to reply what are the threats of climate change. This was replied on 19th April, 2010, by the hon. Minister of Environment and Forests. He is here to illuminate this to the Rajya Sabha with his views. The Government replied, "The adverse impact of climate change is:-

- “(1) increased frequency of extreme weather events;
(2) variation in pattern of monsoon;
(3) rise in surface temperature;
(4) rise in sea level; and
(5) melting of glaciers.”

These are all combine together have adverse affect on various sectors – water resources, agriculture, forests, natural ecosystem, coastal zones, health, energy, infrastructure and on everything. The air we breath, the water we drink, the earth we live in, the sky at which we gaze are all affected by climate change because of global warming.

Hence, global warming must be contained. As has very rightly been pointed out by Mr. N.K. Singh. You have to do changes to escape the adverse effects of global warming. And, for that, you need innovative fiscal policies; for that, you need finance; for that, you need technology; for that, you need new research; and, for that, you need will of the Government and will of the society. That is what has been said. Just for an example, hour honour, a volcano sneezes and the world grinds to halt. An eruption of volcano in Iceland and the resulting ash, which had formed, had disrupted air traffic across the globe and had shut down the airports for a week or more. That was just one example. Parts of ocean are turning saltier. They are getting warmer. They are getting turbulent. And, still more, certain parts of ocean are being converted into deserts because there is no more oxygen there, and, hence, aqua life cannot survive. It is a very horrendous scenario. And, as five elements are called गगन समीर अनल जल धरनी , कृषिति जल पावक गगन समीरा - land, water, fire, wind and sky, all the five of them are affected by global warming and its effect on climate change. As I just mentioned, green houses are one of the causative factors. Fossil fuel is another factor. Deforestation is the third one and the industrial activity is the fourth one. The resultant effects are: sea level rise; lesser erratic monsoon rainfall, which we have experienced just now. In Orissa there is a very dangerous drought in all the thirty districts. And, there is a deluge in Himachal, in Uttarakahand, and even in Rajasthan. It is a very new change in the pattern of climate and pattern of monsoon. Desertification will be an outcome of climate change. When desertification will take place, the Thar Desert would spread. The real fertile land will grow dry. Glacier retreat will be there. Arctic snow shrinkage will be there. There will be effect on agriculture. There will be shortage of food. There will be effect on rivers. There will be shortage of river water. There will

be ozone depletion. There will be ocean acidification. It will disturb eco system. And, the eco system will effect everyone. It is the eco system in which we survive. And, settlements will be threatened by sea level rise. It may be Maldives; it may be mangroves of Sundarban; it may be Coral Reef. All our coastal areas will be effected. It may be Chennai; it may be Kolkata. All of them will be effected in due course of time, if we are not able to stop sea rise. There is turbulence in sea. समुद्र उबल रहा है; समुद्र को भी बुखार है और धरती को भी बुखार है; इस बुखार का इलाज होना चाहिए। There will be effect on marine products. Our fishermen will be effected by that. When the hon. Minister was asked, he said that there would be five main impacts. I had noted them down. These are: water resources - depletion and pollution; agriculture - loss in food production. Up to thirty per cent loss in food production can be in India because India is one of the most effected areas. Whole South Asia comes in this. There will

be effect on health – the dengue fever, swine flu, malaria. All these things will spread more because of the erratic behaviour of monsoons. The forests will be depleted. Coastal areas will be in danger.

Climate change is significant and irresistible. Hence, there is a call just now that “Save the Planet” “Save the Earth” and “Save the humanity”. It dramatically affects the life of common man. The common man will be worst affected by the climate change and by global warming. Scenario is horrendous. Time is very little. We have to do something about it. Approach has to be multi-faceted, multi-sectoral and there are invisible enemies who are stabbing in our back. Changing monsoon patterns will affect our entire civilization pattern in a dramatic way. Global warming has led to a 30 per cent decline in productivity of seeds. The weather and seasonality effects are deeply affecting the agriculture. Sir I have copious notes on this, but I won't like to take much of your time. Just as a pointer how dangerous it can be – in 2009 – this is futuristic – first migration due to sea level rise took place. I mean, it has happened already. From the Carteret islands of the coast of Papua New Guinea, it has happened already. In Sunderbans, as I mentioned, it has happened already. Maldivians under the sea raised a cry, “We are drowning; do something for us”. In 2020, less than five per cent of the Amazon forest will remain in pristine condition; about one-fifth of Central Asia's forest will have disappeared; so, this will be the effect on forests. In 2030, around 5,00,000 humans will have died due to fall out of climate change. In 2035, many Central and Eastern Himalayan glaciers will melt completely. About melting of Himalayan glaciers, I have the reply of the Hon. Minister given on March 11, 2010. Sir, I am quoting verbatim. “Indian Himalayan region comprises of three major river systems, namely, the Indus, Ganges and Brahamputra and their tributaries which originate from permanent ice fields in the Himalayas. Siachen and Gangotri are the two main glacier systems of the region. Data indicate that the glaciers in the Himalayas have been, by and large, shrinking in volume and showing a retreating front.” हिमालय घट रहा है, हिमालय रो रहा है, हिमालय पघिल रहा है, This is our protective glory which we are so proud of, which is in our National Anthem also. I think, Sir, something has to be done. I know our hon. Minister will do his best to check the adverse effect of global warming and climate

change. I won't like to take much of your time, Sir, except mentioning that मौसम के बदलते तेवर और धरती पर गहरा रहा संकट हर आदमी का concern है। जैसा मैंने कहा , दक्षिण एशिया में मौसम के बदलाव का रुख दखि रहा है , आपदाएं बरस रही हैं , जमिना अध्ययन जरूरी है। The Centre for Global Development has said that global warming has reached a high temperature point in developing nations and by 2080 agriculture will be very adversely affected by 10 to 20 per cent. I am quoting Center for Global Development institution. If care is not taken, it may drop by 30 to 40 per cent. In India, 30 per cent droppage will, definitely, be there and West Rajasthan, South Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, North Karnataka, North Andhra Pradesh and West Bihar are, particularly, sensitive to this. This is a very important report, Sir, and, I think many hon. Members might be aware of it. I will finish, Sir, just after quoting this.

Sir, "2009 State of the Future" is a 6700 pages report. It is a big bulky report prepared by specialists on global warming and temperature change, and it has been okayed by UNESCO World Bank, Rockefeller Foundation. It says, "If at present rate the temperature of earth keeps on rising, then by 2050, it will be impossible to live on this globe because the temperature will rise up to 60-65°C. दुनिया की बर्फ पघिलेगी, समुद्र का जल सूखर घटेगा, तटवर्तीय क्षेत्रों में तबाही का खौफनाक मंजर होगा, and, I think, Sir, water has come up to neck level. So, something has to be done.

I am grateful for your kind patience and I am also grateful for giving me the first opportunity, looking at my slight ill-health. But I am fine after looking at your smiling face, Sir. Thank you.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am grateful to my good friend and colleague of many years, Shri N.K. Singh, for bringing forward this Private Member's Resolution.

Ten speakers have spoken. The Resolution was introduced first on the 12th of March, 2010. It was discussed on the 6th of August and today is the third day on which the discussion is taking place. I am grateful to the three speakers from the Treasury Benches, namely, Shri Mani Shankar Aiyar, Dr. Sudarsana Natchiappan and Dr. Prabha Thakur; the three Members from the BJP Benches, Shri Anil Dave, Shri V.P. Singh and Dr. Gyan Prakash Pilania; Shri Rajniti Babu from the RJD; Shri Saman Pathak, who is not here, from the CPM; and Shri Brijesh Pathak from the BSP. So, we have had 10 speakers and all of them have contributed richly to the debate.

Sir, I will be brief in my response because this Resolution is a very specific Resolution. It calls upon the Government to establish an Environment Adaptation and Mitigation Fund to deal with the effects of climate change. All the speakers have spoken about larger issues. Many like Dr. Pilania today have spoken about climate change; Mr. Mani Shankar Aiyar, on the 6th, spoke about global issues of planet protection. So, every speaker has enlarged the scope of the Resolution. But I want to confine my remarks largely to the Resolution *per se* which is the establishment of an Environment Adaptation and Mitigation Fund.

First of all, Sir, let me say that I take these Resolutions very seriously. It is very easy to be cynical and say, 'Well, we know the outcome of this Resolution.' Mr. N.K. Singh has contributed to this outcome in his previous avatar in the civil service. He is now expecting a better outcome; I will have to disappoint him. But I think more than the outcome, it is the process that is important; and I want to start by saying that I entirely share the concerns of the hon. Member and the spirit with which he has moved the Resolution that we need an adequate financing mechanism or a financing facility to deal with the impacts of climate change which is indisputable. How this money is to be raised, where this money will be housed and what this money will be used for is a matter for discussion and debate.

Now, in his interventions, both on the 12th of March and the 6th of August, Shri N.K. Singh has identified where this money would be raised and how this money would be used. I have absolutely no quarrel with the substance of what he has said. But let me, Sir, begin by saying - and Mr. Singh has also acknowledged this - that the Government has actually started taking the steps towards creating specialized financing facilities for dealing with the adverse effects of climate change.

Sir, let me quote from the hon. Finance Minister's Budget Speech of 2010-11. Paragraph 65 says, "To ameliorate the negative environmental consequences and increased pollution levels associated with industrialization and urbanization, I propose to take a number of proactive steps in the Budget 2010-11". The hon. Finance Minister then went on in paragraph 66 to say, "There are many areas of the country where pollution levels have reached alarming proportions. While we must ensure that the principle of polluter pays remains the basic guiding criterion for pollution management, we must also give a positive thrust to the development of clean energy. I propose to establish a National Clean Energy Fund for funding research and innovative projects in clean energy technologies". This is what the hon. Member was referring to. I shall outline the mode of funding for the initiative in part (b) of my speech. The hon. Finance Minister then went on in paragraph 154 to say, "Harnessing renewable energy sources to reduce dependence on fossil fuels is now recognized as a credible strategy for combating global warming and climate change", the point that Dr. Pilonia was making. "To build the corpus of the National Clean Energy Fund announced earlier, I propose to levy a clean energy cess on coal produced in India at a nominal rate of Rs. 50 per tonne. This will also apply to imported coal".

Sir, I am glad to inform the hon. Member and the other hon. Members that the Clean Energy Fund, as promised by the hon. Finance Minister, is now operational. There would be a cess of Rs. 50 per tonne on both domestically produced coal and imported coal. This year, roughly Rs. 3000 crores will accrue to the corpus of this Fund. There are projections that by the year 2015, India would produce almost two to three times the amount of coal that she is producing now. So, it is possible that in the year 2015, Rs. 10,000 crores would accrue to the corpus of this Fund. It is a very, very large fund. Normally, Sir, when we set up funds, it is for Rs. 100, 200 or 500 crores, but this

is one of those rare funds which in the first year itself, is going to mobilize about Rs. 3000 crores of rupees. So, the first point I want to make in response to the hon. Member's Resolution is that the first step towards setting up an Environmental Adaptation and Mitigation Fund was taken by the hon. Finance Minister in this Budget Speech. The Fund has been set up, organization of the Fund has been finalized, and I am sure that in the next couple of months, projects under this Fund would also start getting funded, both in the field of clean energy, that is, renewable energy, and also in the field of environmental management, pollution control and remediation.

So, the first step has been taken. Sir, there are also other financial interventions that the Government has done which goes some way in meeting hon. Members' objectives. I have

spoken about the Finance Minister's National Clean Energy Fund. The 13th Finance Commission submitted its Report and all hon. Members know that the hon. Finance Minister accepted the recommendations of the 13th Finance Commission. Now one of the important elements of the 13th Finance Commission was a special grant of Rs. 5000 crores to be given to all the States and Union Territories over the next five years for sustainable management of forest resources. This is a very large sum and this recognises the central role that forests play in combating global warming and climate change. Many hon. Members from Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, Kerala and so on have often asked me आप हमारे राज्यों को ग्रीन बोनस क्यों नहीं देते हैं ? हमारे राज्यों में इतनी भारी संख्या में फॉरेस्ट कवर है आप चाहते हैं कि यह फॉरेस्ट कवर बना रहे , तो हमें कुछ कम्पनसेशन की भी जरूरत है Many Members of Parliament have told me that richly forest States must get a Green Bonus from the Centre for preserving the forests. Many Members of Parliament have often written to me and talked to me about this. I am glad to say that the 13th Finance Commission has taken the first step to put in place this Green Bonus. This Rs. 5000 crore is distributed across the States based on their forest cover and, if you notice, the States which are getting the bulk of the money are the States which have rich forest cover. Let me give you some examples. Out of this Rs. 5000 crore, over the next five years for Sustainable Forestry Management, Chhattisgarh alone will get Rs. 411 crore; Orissa will get Rs. 330 crore; Arunachal Pradesh will get Rs. 727 crore; Jharkhand will get Rs. 152 crore; Madhya Pradesh will get Rs. 490 crore and ...*(Interruptions)*... राजनीति प्रसाद जी, बहिर में जंगल नहीं है आपका सारा जंगल झारखंड में चला गया है फरि भी बहिर को 40 करोड़ मल्लि रहा है नंद कुमार राय साहब , आपने छत्तीसगढ़ का जक्रि कथिा है , आप बार -बार मुझ से पूछते रहते हैं कि ग्रीन बोनस का क्या होगा ? यह ग्रीन बोनस इसीलिए दथिा जा रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो हमारे जंगल हैं , उनको बचाए रखना अनिवार्य है पर्यावरण की दृष्टि से उनको बचाए रखना तथा इनको और आगे ले जाना भी अनिवार्य है So, I would like to say to hon. Members that although it is not called Environment Adaptation and Mitigation Fund, this special grant of Rs. 5000 crore for Sustainable Forestry Management is a very important

policy initiative taken by this Government to meet the objectives of the hon. Members. It is basically to provide money so that the country is better equipped to deal with climate change. Sir, let me now turn to the third initiative that we have taken. There is a financing mechanism called CAMPA. कैम्पा कोला नहीं , पर CAMPA (Compensatory Afforestation and Management Planning Authority). Sir, if you just give me two-three minutes to explain what this is, under the Forest Conservation Act of 1980, whenever any forest area is used for non-forestry purposes, you have to do compensatory afforestation. And, you also have to pay the Net Present Value. It is a penalty that you pay for using forest land for non-forestry purposes. This goes back to a Supreme Court judgment of 2002. Now, Sir, over the last eight years, almost Rs. 10,000 crores, कैम्पा के खाले में लाकर बढाए गए। Over the last six years, that is, from 2004, almost Rs. 10,000 crores has accrued to this CAMPA account. The bulk of CAMPA account comes from the Net Present Value, which everybody has to pay for using forest land. It

also has the component of compensatory afforestation or catchment area treatment. Now, this is all the money that is available to the State Governments for doing forest management and compensatory afforestation. Now, Sir, for the last five-six years, this money has just been lying in the CAMPA account. Nobody had access to this money. There was a big debate between the Centre and the States. The Central Government wanted to use this money for itself. The State Governments wanted to use the money for themselves, and senior Member, Mr. Ahluwalia, will recall that during the previous two-three years, in UPA-I, a Bill was introduced in this House on CAMPA. This Bill was rejected by the Standing Committee, of which Dr. Maitreya was the Chairman. I think, Mr. Ahluwalia was a Member of that Committee.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): I was not a Member.

SHRI JAIRAM RAMESH: But, you must have contributed to the rejection of the Bill.

SHRI S.S. AHLUWALIA: But, you know the reasons.

SHRI JAIRAM RAMESH: This Bill was rejected by this House. It went back. Sir, one of the first things, that I did when I took over, was to revisit this CAMPA funding, and I am pleased to inform the hon. Members and the hon. House that we have now broken the logjam on CAMPA funding. We went to the Supreme Court. We got the permission from the Supreme Court and the first tranche of this Rs.10,000 crores, which is a Rs. 1,000 crores, has been distributed to the State Governments. Not one rupee is being retained by the Centre. दवे साहब , इस कोष का साश का साश पैसा राज्य सरकारों को दिया जा रहा है , क्योंकि यह पैसा राज्य सरकारों को है। So, the Central Government is not taking one rupee of the CAMPA funds, except a small amount for monitoring and evaluation. The bulk of money is being returned to the State Governments - Jharkhand, Andhra Pradesh, Orissa. These are the States that have benefited. पाणि साहब , Orissa got almost Rs.130 crores this year on the CAMPA account.(व्यवधान)... ग्रीन बोमस के अलावा यह एवर ग्रीन बोमस है , क्योंकि आप उड़ीसा के बारे में बोलते हैं कि मैं उड़ीसा के खलिफ हूं , मैं उड़ीसा का ही उदाहरण दे रहा हूं मैं जानता हूं कि(व्यवधान)... वेदांता के बारे में आपकी और मेरी राय एक ही होती है(व्यवधान)... आप उस पर मत जाइए

....(व्यवधान)... आपवेदांता पर मत जाइए(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): वेदांता(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : उड़ीसा के बारे में डस्क्रिस नहीं कर रहे हैं , पर्यावरण पर डस्क्रिस कर रहे हैं(व्यवधान)... आप बैठिए(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश : वेदांता पर अलग से चर्चा होगी। अहलुवालिया जी, आपके यहां भी वेदांता के बारे में दो मत हैं(व्यवधान)... So, the CAMPA is the third financial instrument that we have. As I said, it is a Rs. 10,000 crore corpus. It will grow. As more and more people use forest areas for non-forest purposes, more money comes into the CAMPA account. This money becomes available for regenerating our forests, for sustainable forest management. Why am I saying so much on

forests? I am saying so because from the point of view of global warming and climate change, forests play a very important role in sequestering the carbon.

It has been estimated by us that almost ten per cent of our annual Greenhouse Gas Emission is sequestered by our forest cover. So, if we increase the quantity of our forest, and, improve the quality of our forest, we will contribute to those adaptations as well as mitigations. That is why the CAMPA account is a very important instrument to meet the very objectives that the hon. Member is seeking to meet through his Resolution.

Sir, I want to talk about the fourth instrument that the Government has introduced. In fact, just three, four days ago, this House passed the amendments to the Energy Conservation Act. These are very important amendments. What do these amendments do? These amendments enable the introduction of a new instrument call the Energy Savings Certificate under a new mechanism called 'Perform, Achieve, and, Trade' (PAT). This is for the energy intensive industries, which are using the bulk of our fossil fuels - refineries, fertilizers, steel, aluminium; or, say, the energy intensive sector, which consumes the bulk of our fossil fuels. What does this PAT system do? It is to provide market-based incentives for promoting energy efficiency. I know that the hon. Member likes the words, 'market-based incentives' and, that is why, I have used the words 'market-based incentives'. Energy Savings Certificates will now become tradable instruments. So, India has introduced...*(Interruptions)*... This is not carbon-trading. It is Energy Efficiency Trading. We have introduced a trading system so that people who are above the best practices, in other words, who are energy inefficient, can buy these certificates from those who are below the norms, in other words, energy efficient, because not all can have the financial capacity to invest in energy-saving or climate-friendly technology. So, the PAT mechanism which this House passed three, four days ago is the fourth very major instrument that the Government has to deal with mitigation, particularly, which is one of the objectives of the hon. Member's Resolution.

Sir, the short point, which I want to make in response to Shri N.K. Singh's suggestion to create a fund, is that we already have a financial mechanism. Now, it is perfectly possible that all these financial mechanisms should come into one national financial facility, which can be considered. But, I think, we have met the hon. Member's

requirements to a substantial degree by setting up the National Clean Energy Fund, by having CAMPA, by having the Finance Commission's special grant, by having this 'Perform, Achieve and Trade' mechanism, and, I think, this would go a substantial way in meeting the requirements that the hon. Member has mentioned.

Sir, other Members have raised a large number of issues on climate change. I just want to mention very clearly that two years ago, the Government of India unveiled 'The National Action Plan on Climate Change', which is available on our website, but I will make sure that the Members, who participated in the debate and who raised these issues, receive a copy because it is not always easy to do this on a website.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Why will it be circulated only to the Members who participated?

SHRI JAIRAM RAMESH: Actually, Sir, there is a Parliamentary Forum on Climate Change in which almost 40 to 50 Members of Parliament are there, but I would be glad to circulate this to all the Members of Parliament. I think, that is a better suggestion, one of those rare constructive suggestions that come from Mr. Ahluwalia which I will adhere to immediately. ...*(Interruptions)*... First time in his life, Mr. Narayanasamy informs me. I will make sure that every hon. Member gets this in the next week.

Sir, in addition, Dr. Pilonia, who is not here, raised a number of questions on the emission of green house gases and what impact it is going to have. Just recently, we unveiled the green house gas inventory for the year 2007 which highlights what are the green house gases and which sectors are they coming from. Just to give you the broad highlight, Sir, 38 per cent of our green house gases are coming from the electricity sector; about 7.5 per cent come from the transportation sector; about 7.5 per cent come from the residential sector; about 17 per cent come from the agricultural sector; and about 22 to 23 per cent come from the industrial sector. I will make sure that this document also reaches all Members of Parliament.

Sir, Mr. Mani Shankar Aiyar is not here, but I want to address two points that Mr. Mani Shankar Aiyar raised. He talked about the fact that we don't give adequate attention to local communities in our response to climate change. Sir, a couple of months ago, my Ministry brought out a publication on governance for sustaining the Himalayan eco system which talked about what local communities can do to respond to the adverse effects of climate change, melting of the glaciers, water shortage, deforestation, etc. It has all been talked about by the hon. Members. What we brought out was a manual of best practices. After all, Sir, if you go back in time, India's first modern environmental movement was Chipko Movement which started in Uttarakhand. It was a Movement of local women who wanted to prevent deforestation of the hills. So, local action and local communities play a very important role. We have taken a beginning in this area. This document too, which is, of course, available already on the website, we will make sure that all hon. Members get it very soon.

Mr. Mani Shankar Aiyar also quoted a speech given by the late Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi, at the Non-Align Summit in 1989 where he proposed the establishment of a Planet Protection Fund. I think, the hon. Member, Mr. N.K. Singh, when he brought forward this Resolution, was talking about an Environment Adaptation and Mitigation Fund in the domestic context, in India. Mr. Mani Shankar Aiyar, of course, took the idea of the fund to a global level and talked about a Planet Protection Fund which is based on a contribution from each and every country. In that speech, which Mr. Aiyar quoted, the contribution was 0.8 per cent of GDP coming from all countries and the total fund would have 18 billion dollars when the speech was given in 1989. Sir, much has happened since 1989. Mr. Aiyar is not here, I would like to say, while respecting the speech that was made, respecting the speech writers, much has changed

3.00 P.M.

since 1989. Of course, Mr. Ahluwalia has changed from here to there since 1989 but that is a separate issue. Climate change happened as far as Mr. Ahluwalia is concerned.

Sir, in today's global debate on climate change, financing is the responsibility of the developed countries. हम अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सब की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन इससे निपटने के लिए जो धनराशि की जरूरत होती है या इसके लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, वह ज़िम्मेदारी विकसित देशों की है। यह हम नहीं कहते, यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहता है। 1992 में, जब UN Framework Convention on Climate Change पर Rio De Janeiro में हस्ताक्षर हुआ था, उसका एक मूल आधार ही यह है कि ज़िम्मेदारी सबकी है। यह ज़िम्मेदारी सामूहिक है, पर अलग-अलग है। अमेरिका की ज़िम्मेदारी और हब्सुस्तान की ज़िम्मेदारी एक नहीं हो सकती। उस समझौते में यह लिखा गया है कि हरेक देश को अपनी ज़िम्मेदारी नभितानी है, पर धनराशि उपलब्ध कराने की और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने की ज़िम्मेदारी खास तौर से विकसित देशों की होती है। पछिले 10-12 सालों में हमारा यह स्टैंड रहा है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी फंड की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो उस फंड में हम शामिल होंगे, लेकिन contribution की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। Contribution की ज़िम्मेदारी अमेरिका, यूरोप और जापान की है।

मैं मणि शंकर अय्यर जी को कहना चाहता हूँ कि यह बात सही है कि रा. जीव गांधी ने Planet Protection Fund के बारे में वह भाषण दिया था, लेकिन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ था, उसका मूल आधार कुछ अलग ही है। उसका मूल आधार यह है कि विकसित देश धनराशि उपलब्ध कराएँगे और विकासशील देश अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी नभितारेंगे।

While I appreciate the sentiments of Mr. Mani Shankar Aiyar, I think that the important point to note here is that India today cannot contribute to any global fund. Funding is the responsibility of the developed countries. We require resources of our own to invest in new technology. We will borrow money from abroad, if need be, but we expect to be able to generate most of these resources from domestic sources as well.

Sir, I would also like to inform the hon. Member that the

Government has established an Expert Group on Low Carbon Economy. This is headed by one of his former colleagues Dr. Kirit Parikh. This is a 25-Member Group which has got experts from different fields. This Group has been set up in the context of the Twelfth Five Year Plan which begins on April 1, 2012. The objective of this Group is to lay out an investment strategy for India in the low carbon era.

What does it mean when we say a low carbon economy? What is the investment required? What kind of technology is required? What are the choices that have to be made? These are the questions that are being dealt with by this Expert Group. And many of the issues that the hon. Member has raised in the Resolution and also the points raised by other hon. Members will be addressed by this Expert Group on Low Carbon Economy.

Sir, I think I have taken much longer than I expected to. But I did want to respond to the general points that have come from various hon. Members.

Sir, climate change is a reality. In fact, Sir, what we are seeing outside today is probably a reflection of climate change. To have an extended Monsoon in the last week of August is a bit unusual. So, we cannot deny that climate is changing. Now, how and in what precise manner it is changing, what impact it is having, is a matter for detailed examination.

Sir, I want to inform the hon. House that by November this year, that is, in another two months' time, we will be releasing the first impact assessment of climate change on four sectors of our economy – agriculture, water, health and forests – and the impact of climate change on four regions of our country – the Himalaya eco system, the North-East, the Western Ghat and the coastal areas of our country. This is a 4X4 assessment and this would be available some time in November. This assessment is being done by the new network that we have constituted which is called the Indian Network for Comprehensive Climate Change Assessment. About 250 scientists from about 128 research institutions from all over the country are participating in this exercise. And, most importantly, I want to inform the hon. House that we are not studying the impact in the year 2050 or 2070 जब हममें से कोई भी नहीं रहेगा। We are looking at the impact in the year 2025 or 2030. I think, it's important for us to get not too long a term but a short-term and a medium term analysis of the impacts of climate change.

So, Sir, to summarise, climate change is a serious issue. The Government has recognised the seriousness of the issue. We have a National Action Plan on Climate Change. We are a responsible and serious participant in international negotiations without giving up our basic principles. We have demonstrated flexibility and we should continue to demonstrate flexibility in this area because we are a country that is going to be affected the most by climate change. We have already taken steps to invest in and to create new financial instruments to deal with adaptation and mitigation. And, for these reasons, I would request the hon. Member, with whom I have had a long association of almost 30 years and I can draw upon not only professional relationship but also a personal relationship, to withdraw the Resolution with the commitment that the principles that he has enunciated and the ideas that he has put forward, will be incorporated into our thinking, into our actions and we would certainly move in the direction that he has suggested in order to create a financial system and set up financial instruments that will

induce investments in climate-friendly technologies in various sectors of the economy.

Sir, I think, with this commitment, hon. Member, Mr. N.K. Singh should not find it too difficult to withdraw this Private Member's Resolution. Thank you, Sir.

SHRI N.K. SINGH (Bihar): Sir, let me say that I am grateful to the hon. Minister for what I believe is a fairly comprehensive response to the multiplicity of issues raised by me in my two longish interventions which had highlighted, if you recall, the magnitude of the problem, the magnitude of the problem in short-term and in long term, the need for adaptation in multiple directions and, of course, the need to take actions on mitigation. I would like to bring to the notice of this House that in both those interventions, I had dealt rather extensively with the need

for innovative means of financing. Sir, in fact, I had given concrete suggestions on what those innovative means of financing could be. I had drawn on the best international example on innovative means of financing. I had also dealt with in a fairly detailed kind of a presentation on what could be the priority areas where expenditure from out of that corpus would optimize the benefits and optimize the gains from those financial resources. I recognize the point made by the hon. Minister that the cess on coal, that the recommendations of the 13th Finance Commission, that the CAMPA initiative which has obviously accumulated a large corpus and the likely accumulation from the newly Energy Conservation Act, will all contribute towards the financing of the many things which my Resolution had sought to really highlight. I am, at this stage, therefore, taking note of the fact also of what the 12th Plan intends to do, the impending Kirit Parekh Report on moving towards a green energy and low carbon intensity economy and the studies which are in the offing to be available in November, both on the critical areas affected by global warming and climate change, both in terms of sectoral area as well as the regional impact of this, I see that the Government is making a comprehensive response to some of the issues which I had raised. But I have just two or three small points to bring to the Minister's notice. First, you know, Mr. Minister that Resolution was really designed to help you in your numerous struggles with the Ministry of Finance of which I have had the privilege of working in multiple capacities and multiple roles. I thought that was to generate you and your Ministry's ability to be able to encourage them in the direction in which the Finance Minister had led himself in the Budget in announcing for the first time a cess on coal, by enlarging that corpus, by the number of other ideas which I had mentioned in the first part of my intervention. If you recall that I had mentioned about what the best international practice was on aviation, on high emission from vehicles, on various other ways in which the rest of the world is doing. So, I am sure that you would like to really grab these opportunities as you encouraged the Finance Minister to enlarge the corpus of resources available from merely concentrating on a coal cess. Because, I am sure, and that is my second point, that conscious as you are of the scale of the problem, you want to ask yourself the elementary question whether the

scale of the response is commensurate with the scale of the problem, and that is something on which I would encourage you to undertake some more studies to come to a reasonable conclusion on whether, both on the short-term and the medium-term, looking at the enormity of the challenge on mitigation and adaptation, you believe that the scale of our response is adequate or not, and that you will favour us, perhaps, in the Budget Session, with some kind of a White Paper, dealing with the scale of the problem and the financing modules which you are contemplating. I am grateful to him that he has conceded the need for perhaps looking at amalgamating and aggregating these kinds of financing mechanisms which have been created, and perhaps, such an amalgamated corpus could make our response more coherent and more purposive, and I would hope that he sticks to the kind of

a general assurance which he is giving on amalgamating these kinds of multiple financial initiatives and favour us with some kind of a response.

Before I conclude, Sir, since I am on the limited issue of financing, let me add one more thing. You know Mr. Minister, except for your coal cess, I am not very clear on whether the other sources of financing are a lapsable fund or whether they are subject to annual budgetary appropriation. Perhaps, looking at the dharma of any half-paid decent expenditure department, I would be surprised if they have agreed to create four nonlapsable funds from which the corpus could really be augmented from year to year. This is something which you may wish to also look into. That is why, perhaps, instead of amalgamating these four sources of financing into one large corpus, you could plead with them to make the corpus a nonlapsable one, which will enable you to, perhaps, garner additional sources of innovative financing and also to look at the fact.

My last point, really, Sir, is - and I seek the Minister's intervention - I had done a great deal if you really recall my Resolution on implementation and the priorities on which these resources could be gainfully spent. I have mentioned research and development in terms of low carbon technology; I have mentioned about encouraging the use of low carbon transportation system. I encourage a whole host of initiatives, a challenge fund, an innovation fund, some of which you are doing, and I would really value a comment or two from the Minister on, perhaps, whether he would look at those kinds of implementation suggestions and implementation priorities which I have mentioned. In short, Sir, I sum up by saying that I would greatly value the Minister's one-or-two-line observation on whether he would consider pushing his own suggestions, a step forward on amalgamation of these funds in favouring us, in the medium term, perhaps in the Budget Session, with a White Paper which brings together these multiple initiatives into one corpus and whether he would like to say, a minute or two, on the priorities which he wishes to assign on the possible implementation and the possible projects to serve an objective which seems common to him, to me, to my other colleagues who have participated, and indeed, as a total Governmental objective.

On the limited issue which he raised, about the response he gave to

another hon. Colleague of mine, and also a very old friend of ours, Mr. Mani Shankar Aiyur, who is not here, I would, certainly, not like to reinterpret what Mr. Aiyur has said except to remind the hon. Minister that he did realize that my proposals are, of course, national centric and Mr. Aiyur's proposals were global, but he did say that that could be one way in which we become a part of that global effort. I leave at that, and it is, really, for Mr. Aiyur and Mr. Ramesh to, perhaps, look at further engaging dialogue between those proposals. And now, I do not wish to push on that. I am on the two or three limited points, with your permission, Sir, which I have raised, on which, perhaps, even a very short response from the Minister would enable me to, then, really take the further step with regard to my Resolution.

SHRI JAIRAM RAMESH: I give a very quick response, Sir, to the last point that he has made, and I want to make it absolutely clear that we are not going to be a contributor to any international financing mechanism in the short to medium term. I do not see the prospect of India on the basis of a defined contribution becoming part of any international financing arrangement. I have also said on the floor of this House, much earlier, after the Copenhagen Accord was signed and on which we had a debate on the 22nd of December, but I said so, and I repeat once again: "India is also not in the market for funds in the short-medium term. In the short term, as you know, there is a fast start financing facility of 30 billion dollars and we have voluntarily said that this should go to Africa, small island states in the ADCs. India is not interested in taking money from this facility." So, I think, in the short term, Sir, we are following the advice of Polonius in Hamlet, neither a lender nor a borrower be.

As for the suggestion that Mr. Singh has made, first of all, I did not say that I am in favour of amalgamation. Amalgamation is one option. I am not entirely in favour of amalgamation because in India, there are diseconomies of size. We do not have the capacity to manage large systems, and I think, instead of a large financing mechanism, a large bureaucracy will end up in having large problems. I prefer to have a nimble-footed entrepreneurial financial mechanism. You have yourself talked about it in your intervention. So, amalgamation is one option. But the nature of these funds is different. The CAMPA is not lapsable. The CAMPA is not with the Finance Ministry. The CAMPA is with the Supreme Court. The Finance Commission money is non-lapsable. The Finance Commission money is a matter of right. You can't deny that money. If it is a recommendation of the Government, it is accepted. The point of lapsable and non-lapsable comes when the Central Government is actually setting up a fund, say, the Central Road Fund, by charging a cess on diesel, or Prarambhik Shiksha Kosh by charging two per cent cess on all taxes...(Interruptions)...

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: There is the National Social Security Fund.

SHRI JAIRAM RAMESH: ... or the National Social Security Fund that is being set up. So, I take your points. The fund should be non-lapsable. That is the essential point that you are making and I take that point.

Sir, I would like to say that the hon. Member did not say the all-important sentence, "I withdraw the Resolution". But in anticipation of

his withdrawal, I would like to assure him that...

SHRI S.S. AHLUWALIA: A "White Paper".

SHRI JAIRAM RAMESH: Not a "White Paper", because a "White Paper" has certain connotation in our system. I assure him and the House that we will come out with a "Discussion Paper" on financing of adaptation and mitigation in the domestic context, and I will bring this in the Budget session of Parliament.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. N.K. Singh, are you withdrawing the Resolution or should I put it to vote?

SHRI N.K. SINGH: Sir, in the light of the Minister's comprehensive reply and the explanations which he has given, in the light of the fact that he has accepted to bring a "Discussion Paper" on financing in the domestic context, which was the purpose of my Resolution, during the Budget session of the Parliament and in the light of the fact that the Parliament is not being deprived of an opportunity to have further discussion in the light of the "Discussion Paper", I wish to withdraw the Resolution.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

Special financial and other assistance for developing Sikkim as an international tourist destination

SHRI O.T. LEPCHA (Sikkim): Sir, I beg to move the following Resolution:-

"Having regard to the fact that-

- (i) Sikkim is one of the beautiful State of the country, full of natural beauty; and scenic beauty;
 - (ii) the third highest peak in the world Mt. Kanchenjunga in Sikkim;
 - (iii) Eighty-seven per cent of the State is under forest cover;
 - (iv) the State is full of different variety of flora and fauna;
 - (v) there is vast potential in the State for the development of a world class tourist destination;
 - (vi) it is a beautiful State attractive for tourists; and
 - (vii) for developing Sikkim as hot tourist destination there is a need for further development of the required infrastructure;
- this House, therefore, urges upon the Government that special

financial and other assistance may be given to the State of Sikkim for developing it as an international tourist destination and enhance the road, rail and air connectivity for the purpose.”

Mr. Deputy Chairman, Sir, Sikkim, a small Himalayan State, joined the Indian Union as the 22nd State on 16th May, 1975. Located in the North East of India, Sikkim has international borders with Bhutan, China and Nepal and national border with Darjeeling district of India. It is one of the youngest States within the Indian Union. Sikkim's special constitutional status under article 371F makes it a unique State in terms of various traditional laws and institutional practices.

Located on the lap of Mount Kanchenjunga, the world's third highest mountain, the unparalleled beauty of the State and very friendly and hospitable people are its competitive and comparative advantages. Sikkim is famous for its lush green vegetation, verdant forests, landscape dotted with perennial streams and waterfalls, scenic valleys and majestic mountains, and a range of rich and magnificent cultural heritage, all of which provide a safe haven for tourists for long. It also draws thousands of pilgrims to its holy shrines and monasteries. Indigenous architecture and the crime-free society added to the natural attractions of the State,

making it one of the most sought after tourist destination in the country. Tourism is an important sector for the prosperity of the nation and the State. The attention of planners, social reformers, politicians, cultural and academic scholars has been focused on the multi-dimensional growth of tourism sector and to make it one of the important industries in the world. It is one of the best and convenient platforms for educating people. Tourism provides an opportunity for cross-cultural communication and eliminates social barriers that impede progress towards understanding and harmony between people and the nation. It opens up new areas for promoting national integration and international understanding.

Tourism is one of the priorities and important sectors of the State and it has to become the main economy for the development of the State. It is non-polluting, low cost and high return oriented industry for the State subject to certain precautions. For this, the State has adopted integrated development for making tourism the most viable sector.

The State is nature-gifted and having all sorts of destinations and circuits required for the promotion of tourism sector. Sikkim offers impressive varieties of tourism products. Some of them are: organic green and pollution free State; very rich culture, traditions, heritage and strong commitment; eco-tourism and wildlife; village tourism; adventure tourism; wellness, health, yoga, herbal and medical tourism; religious, culture, heritage and pilgrimage tourism; tea tourism and hydro tourism; conference tourism and many more.

Majestic mountains, green valleys, wilderness and sense of adventure, ethnic cuisines, peaceful and crime free State, hotspot of biodiversity and a mixture of things that would make any place on the earth a delight to visit, has made Sikkim the most sought after destination for tourism that it should be. Virtually unexplored, offers unique opportunities in almost all the major aspects of tourism. We have lots of potential. जैसे आज दूसरे मुल्कों में तथा विश्व में प्रसिद्ध है जैसे स्विटजरलैंड है, विश्व में स्विटजरलैंड को पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा माना जाता है। स्विटजरलैंड से कहीं ज्यादा पोटेंशल सखिकम में है, जैसे सखिकम का सरकार और वहां का प्रशासन और वहां के मुख्य मंत्री पूरे स्टेट को आर्गनिक बनाने के लिए चार साल पहले डक्लियर किया था। 2012 तक यह पूरा आर्गनिक स्टेट बन

जाएगा। इस ओर देश के लिए एक बड़ा योगदान सखिकम ने दिया है। सखिकम 83 परसेंट फोरेस्ट कवर सटेट है, इसको हंड्रेड परसेंट ग्रीन बोल सकते हैं, बाहर से देखने में पूरा ग्रीन दीखता है, केवल 17 परसेंट कल्टीवेटेड लैंड है। वहां पॉन्थूशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम लोग वहां पॉन्थूशन के वसिध में हैं और जो पॉन्थूशन फैलाने वाली, धुंका नक्किलने वाली इंडस्ट्रीज वहां आएंगी तो हम लोग उनको मना करते हैं। हम लोग पॉन्थूशन फैला ने वाली इंडस्ट्रीज को सखिकम में नहीं लगा रहे हैं। सखिकम क्राइम-फ्री सटेट है, पीसफुल सटेट है। उसको देखने के लिए, उसकी सटडी करने के लिए, उसको एकजामिन करने के लिए बहुत सारे वदिवान, वैज्ञानिक वहां जा सकते हैं।

सर, माउंट कंचनजंगा, जो संसार की तीसरी महान चोटी है। सुबिटजरलैंड में सबसे ज्यादा ऊंचा करीब 23 हजार फीट ऊंचा माउंटेन है, लेकिन सखिकम का माउंट कंचनजंगा 28208 फीट ऊंचा है, जो कि सखिकम में चारों तरफ से दखाई देता है। सर, हजारों की संख्या में वदिशी पर्यटक वहां पर आते हैं। मैं हाउस को इस साल के दूरस्टिस की जामकारी देना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक दूरिस्टस केवल 6 लाख आए और वदिशी दूरिस्टस करीब 34 हजार आए। सखिकम को जाने वाला रास्ता डिस्टिर्ब्ड है, अभी वहां पर जाने का

वकिल्प नहीं है, उसकी एक ही लाइफ लाइन है, जो नेशनल हाईवे 31 है और उसमें भी गोरखालैंड वाले हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। फरि भी, हम लोगों ने मेहनत करके ट्रिज्म के क्षेत्र में बहुत काम किया है।

सर, वहां पर टोटल माउटेन्स एंड पीक्स 28 हैं। ये सब बड़ी - बड़ी हैं, जैसे 19300 फीट से लेकर 28208 फीट तक की ऊंचाई के माउटेन्स एंड पीक्स हैं और छोटे - छोटे माउटेन्स बहुत ज्यादा हैं। सर, पर्यटकों के देखने के लिए वहां पर बहुत माउटेन्स हैं। वहां पर Lakes and Wetland की संख्या 227 है और स्विटजरलैंड में केवल 100 हैं। अभी यहां पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही थी। अगर भविष्य में कहीं से अच्छी ऑक् सीजन मल्लिगी, तो वह सभिकम से मल्लिगी, क्योंकि माउंट कंचनजंगा उधर है। वहां का वातावरण स्वच्छ है। सर, वहां पर 21 ग्लेशियर हैं और सभिकम में केवल 9 ग्लेशियर हैं। मैं इसको स्विटजरलैंड से इसलिए कम्पेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लोग सोचते हैं कि स्विटजरलैंड को देखने के लिए चले जायें, घूमने के लिए चले जायें, स्विटजरलैंड अच्छा है। लेकिन अपने हब्दिस्तान में सबसे छोटा प्रदेश सभिकम, स्विटजरलैंड से कई गुणा ज्यादा अच्छा है, सुंदर है। अपने देश को कोई याद नहीं करता है, इसलिए मैं सभिकम को थोड़ा स्विटजरलैंड के साथ कम्पेयर करके बता रहा हूँ। सर, ट्रिज्म में जो spa का प्रचलन है, लेकिन सभिकम में original spa है hot spring, वहां पर टोटल 9 hot springs हैं। अगर इसके लिए गवर्नमेंट से हमें थोड़ी मदद मल्लिगी, तो spa बनाने की जरूरत नहीं है। सर, मैं रकिर्ड के लिए बताना चाहता हूँ कि वहां पर बहुत सी प्रजातियां हैं। वहां पर 150 mammals हैं, Birds की 552 वैराइटीज हैं। सर, वहां पर बटरफलाईज की 690 वैराइटीज हैं। सर, दूसरी जगहों पर इनको चाड़ियाघर में घर बनाकर रखना पड़ता है, लेकिन सभिकम में इसकी जरूरत नहीं है। वे सब जंगल में खाते - पीते हैं और घूमते हैं। सर, वहां पर हलि फशि की 48 वैराइटीज हैं। वहां पर flowering plants की 4500 वैराइटीज हैं, यह फूलने वाला प्लांट है जो Rhododendrons है, इसको grass बोलते हैं, Rhododendrons यह एक plants है, जो फूलता भी है, इसको हम लोगों ने State plants डक्लियर किया है। यह वर्ल्ड में कहीं नहीं है। इसकी 36 वैराइटीज सभिकम में हैं। वहां पर Medicinal plants 426 हैं, वहां पर कैंसर की मेडिसिन भी मल्लिती है। मैं जब यहां हाउस में आया तो इधर से बहुत बड़े - बड़े लोग आए और बोले कि आपकी स्टेट में कैंसर की मेडिसिन मल्लिती है, हमें वहां ले चलो। हमारे यहां यह बैब है, हमें अपनी स्टेट से

बाहर कुछ ले जाते की अनुमति नहीं है। सर, कैंसर की मेडिसिन सैबिकम में मखिती है और ferns टोटल 362 है। साईंस के स्टूडेंट , बोटनी के स्टूडेंट की स्टडी के लिए वहां यह चीज़ है और tree ferns है जो प्रिमुला फ्लावर है , उसके लिए माफ़ी की जरूरत नहीं है , वह अपने आपमाउंटेन में , फारेस्ट में धरती से नक़िलता है। इस प्रकार से ये टोटल 60 वेराइटीज़ है। Then, we are very rich in the varieties of orchids in the whole world, which are 556. There are 104 varieties of 'river and stream'. इस प्रकार से सैबिकम को प्रकृति ने सब कुछ दिया है। सैबिकम सरकार बहुत कोशिश कर रही है और मैं आजकंठ सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं , देश के प्रधान मंत्री को , सोनिया मैडम को और दूरिज्म डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय को इन लोगों ने दूरिज्म क्षेत्र में आगे जाने के लिए हमारी बहुत मदद की है। हम लोग भी यह चाहते हैं कि सैबिकम वर्ल्ड में एक बेहतरिण दूरिज्म डेस्टीनेशन बने। हम सैबिकम को सबिटरलैंड से भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी स्टेट में कोई कमी नहीं है। हमारे यहां पावर surplus है और हम 2012 से दूसरी स्टेटों को पावर देंगे। We have a potential of 8000 mw in hydel power. अभी साढ़े छः हजार पर काम हो रहा है। हमारे यहां पर पावर कम खर्च होती है , इसीलिए हम दूसरी स्टेट्स को पावर दे सकते हैं। इरिगिग वाटर के मामले में 95 परसेंट गांठ कवर है और सेमिटेशन में 100 परसेंट है। हम लोग लास्ट ईयर 'ग्राम नखिल एवार्ड ' महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से ले चुके हैं। हमारी स्टेट plastic-banned स्टेट है। सैबिकम में प्लास्टिक का कोई भी समान यूज़ करने पर पाबंदी है और इसी तरह से grazing banned है और वहां grazing नहीं चलती है। वर्ल्ड लाइफ एक्ट भी बना हुआ है। वहां पर

कस्मिं भी एनिमल को या चडिडिया को मारने पर आदमी मारने से भी ज्यादा कडा कानून है। वहां पर इश्यस , सुषारी और रजनीगंधा सब चीजें बैन्ड हैं। हम सभी चीजें टूरिज्म के माध्यम से देख रहे हैं। जो हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, वह हमें अभी और दो-तीन साल तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि सखिल एविएशन ने कहा है कि वह 2012 में एयरपोर्ट कम्पलीट करेगा। वैसे एयरपोर्ट के निर्माण का काम चल रहा है। ममता मैडम वहां पर लास्ट ईयर गई थीं और रेखवे स्टेशन के फाउंडेशन का स्टोन लगाया है। इस तरह से एक अल्टरनेटिव नेशनल हाईवे भी वाया भूखान होते हुए इन प्रिंसिपल सेंशन हुआ है। इस रजिलूशन को लाने का मेरा यही उद्देश्य है कि सारे भारत के लोग सखिकम को देखें। यह प्रदेश अपने देश में दूसरे मूल्कों से अच्छा, छोटा सा प्रदेश है और अच्छा है। आप इसको प्रोत्साहन दें। भारत सरकार चाहे तो सखिकम को विश्व का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बना सकती है। इसीलिए मैं केन्द्र सरकार से तथा पर्यटन मंत्रालय से रक्विस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश को ज्यादा फाइनेंशियल एसिस्टेंस तथा टूरिज्म के मामले में मदद दें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

The question was proposed.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड): उपसभापति महोदय, हमारे साथ ओटी. लेफ्टा जी ने अपने प्रदेश की मदद के लिए एक संकल्प सदन के सामने रखा है और संकल्प को रखते वक्त उन्होंने जो बातें सखिकम प्रदेश के बारे में बताईं, ये बातें बहुत से लोगों को पता नहीं हैं। यह जानकारी नहीं होना भी एक कारण है कि भारतीय पर्यटक वहां पहुंच नहीं सका। पर, जसि राज्य की उम्र सिर्फ पैंतीस वर्ष है, वह भारतीय गणराज्य में सिर्फ पैंतीस वर्ष का युवक है, यह पैंतीस वर्ष का युवक राज्य अपने राज्य की संसदा को बचाने के लिए जो कदम उठा रहा है, वे कदम सराहनीय हैं। वैसे तो इनको परम्पत्ति परमेश्वर ने ही इतना कुछ दिया है कि लेफ्टा, जो यहां के वासी हैं, वे इसको ले मेयल, अर्थात् स्वर्ग मानते हैं, भूटिया इसको डेबभुल देमाजोंग स अर्थात् the Hidden valley of rice मानते हैं, हद्दि धर्म शास्त्र इसको इन्द्रकिल अर्थात् भगवान इन्द्र का गार्डन, उसके बगीचे के रूप में मानते हैं। कत्तिना सुंदर हो सकता है वह Garden of Indra, कत्तिना सुंदर हो सकता है लेफ्टा की कल्पना में वहां का स्वर्ग और कत्तिना सुंदर हो सकता है भूटिया की कल्पना में वहां की Hidden valley of rice? यह समझने की बात है कि जहां कंचनजंगा की चोटी है, जहां जब पूर्व में सूरज उगता है तो वह प्रथम कश्मि को चूमती है और जहां वे ग्लेशियर चांदी के बहते हुए झरने जैसे लगते हैं, उस

खूबसूरती को कायम रखने के लिए वहां की सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसको plastic-free बनाना, organic farming के लिए जाना, केमिकल का यूज नहीं होना देना, smoke या industry को डेवलप नहीं होना देना आदि, एक तरफ तो अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बचाने की तरफ अच्छे कदम हैं, पर दूसरी तरफ अपनी जनता को उद्योग में नौकरी नहीं मल्लिने के लिए उनको डिप्लाइव करने की तरफ भी कदम उठते हैं। वे डिप्लाइव न हों, उनसे उनको तकलीफ न हो, उनको रोजगार के इंजाम मल्लि सकें, इसलिए वे उसको वशिव का एक उच्च कोटि का पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, इसलिए वह कल्पना लेकर, वह संकल्प लेकर हमारे मल्लि श्री ओटी. लेफचा जी सदन में आए हैं और मैं इसका भरपूर समर्थन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो ग्लेशियर की बात करते हैं, तो मैं बताता हूँ कि मैं सखि संप्रदाय से आता हूँ, हमारे प्रथम गुरु वहां गए थे, इनके यहां पर एक ग्लेशियर है, उसका नाम गुरु डांग मार्ग चौ है। पवन जी, आप समझिए, गुरु डांग मार्ग, अर्थात् जहां गुरु ने डांग मारी हो, चौ, चौ मतलब पानी का खिर्ब वॉयर। जब गुरु वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत दूर-दूर तक लोग पानी के लिए जाते हैं। उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मल्लिता है, बर्फ जमी हुई है, तब उन्होंने बर्फ को अपनी लाठी से, जसि लाठी को लेकर वे चलते थे, उस डांग से बर्फ को तोड़ा। जब तोड़ा, तो ग्लेशियर के ऊपर का हस्सि खुल गया और उसके नीचे पानी था। वहां आज भी पानी है। यह साढ़े सत्रह फीट की ऊंचाई पर है और आज भी गुरु डांग मार्ग चौ में पानी जमता नहीं है। यहां तक की अर्मी की जो गाड़ियां जाती हैं, ट्रक जाते हैं, जीप तथा दूसरे वेहिकल्स जाते हैं, उनको अपने रेडिएटर के लिए ऐसा पानी चाहिए होता है, जो बर्फ में जम न जाए। वे उस पानी का भी प्रयोग करते हैं और वह पीने के काम तो आता ही है। यही कारण है कि जब वहाँ गुरु नामक गए, तो उनको 'नामक लामा' के नाम पर जाना गया और आज भी वहाँ गौतम बुद्ध के incarnation के रूप में ही 'नामक लामा' के नाम पर उनकी बड़ी-बड़ी तस्वीरें लगा कर रखी हुई हैं।

यह एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ राज्य है। उनकी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वे उद्योग नहीं लगा सकते, क्योंकि 87 फीसदी इलाका reserve forest है। उसको भी protect करना है। उसके बाद उनके पास इतने तरह के flowers हैं, मेरे खयाल से सल्लिकम पहला राज्य था, जसिने daffodils export करने शुरू कएि और अच्छे flowers export करने शुरू कएि। सर, वहाँ पर अद्भुत medicinal plants हैं, जो और दूसरी जगह कहीं नहीं मल्लिते। उन्होंने सर्फि उन्हें बचा कर ही नहीं रखा है, बल्कि उन पर अनुसंधान करके उनकी पहचान बना कर रखी है। उनका दुरुपयोग न हो, उनकी smuggling न हो, इसके लिए कानून भी बनाया है और इस पर भी रोक लगा रखी है कि अगर उस medicinal plant के बारे में ज्वान अर्जन

करना है, तो सशक्तिकम जाना पड़ेगा। करीब 5.5-6 लाख आबादी है। कम आबादी में रह कर इतने बड़े इलाके को उन्होंने बचा कर रखा हुआ है। तत्कालीन राजा ने इसको संजो कर रखा, बचा कर रखा। नेपाल से बचाया, चीन से बचाया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से बचाया। हर तरह से बचा कर बहुत दमिों तक रखा और अंततः यह 16 मुई, 1975 को भारत को 22वां राज्य बना।

महोदय, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है - infrastructure. ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने दार्जिलिंग को hill queen बनाने के लिये रेल दया, sanitorium बना ने के लिये वहाँ पर infrastructure develop किया। जैसे उसने दार्जिलिंग को develop किया, वैसे ही उसने साइथ में ऊटी को develop किया, इधर नैनीताल को develop किया, मसूरी को develop किया, देहरादून को develop किया, शम्बिला को develop किया, डलहौजी को develop किया, कबि तुं गंगटोक को develop नहीं किया। उन्होंने गंगटोक को develop इसलिए नहीं किया, क्योंकि इसके राजा अपने मन के मौजी थे। उनका अपनी धरोहर कसिी को समर्पण करने का इरादा नहीं था। वे अपने गौरव के साथ सम्मानित रूप से जब्दि रहना चाहते थे और अपनी प्रजा को सुखी रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कसिी के पास जल्दी surrender नहीं किया। यही कारण है कि वहाँ सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रोड है, जसिका उल्लेख उन्होंने किया। National Highway No. 31 is the only road connecting Gangtok. गोरखालैंड के आन्दोलन के कारण, कभी-कभी सल्लिगुडी में आंदोलन के कारण, कभी-कभी बंद के कारण वह रास्ता बंद हो जाता है। वह रास्ता बंद हो जाने के कारण उनके यहाँ नमक से लेकर, तेल से लेकर, गैस से लेकर सब कुछ जाना बंद हो जाता है। तकलीफ होने के बावजूद भी वे अच्छी तरह रह रहे हैं। उन्होंने अच्छा परिवेश रखा हुआ है। क्यों कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, उनकी अपनी सोच अच्छी है और उन्होंने उसी तरह से अपने आपको तैयार किया हुआ है। भोले लोग हैं।

महोदय, यह Organic State है। आज सारी दुनिया में industrial revolution के साथ-साथ population बढ़ी। Population बढ़ी, तो रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, तो industrial revolution आया। industrial revolution आया, तो खेतों में उपज भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि खाने वालों के मुँह ज्यादा हो गए। अगर अनाज भी ज्यादा पैदा करना है, तो inorganic खाद डाल कर, फर्टिलाइजर डाल कर हमने पैदावार बढ़ाई। कबितु उन्होंने अभी तक organic पैदावार ही रखी और अब 100 परसेंट organic कर दिया है। आज भी आप विश्व के कसिी बाजार में चले जाइए, तो आपको फल की दुकान पर, चाय की दुकान पर, herbals की दुकान पर या सब्जी की दुकान पर दो तरह के stall लगे हुए मल्लिगे। एक मल्लिगा inorganic खाद का और दूसरा मल्लिगा organic खाद का। ऑर्गेनिक खाद की उपज की कीमत

ज्यादा हैं और इनऑर्गेनिक की कम हैं। ऑर्गेनिक खाद से ही ये सब कुछ कर रहे हैं और यही परम्परा हमें दूसरे राज्यों में भी अपनानी चाहिए, क्विंतु हमारे यहां जैवेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ रहे हैं। हमारी जो धरोहर हैं, हमारी जो पहचान हैं, वह हमारे चावल हैं, गेहूं हैं, सरसों के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं अथवा दूसरे बीज हैं, जो पता नहीं सैकड़ों वर्षों से हमारे साथ चले आ रहे थे और परिवार की धरोहर बने हुए थे, आजवे सारे खत्म हो रहे हैं। भूटिया लोग कहते थे कि यह वैली

ऑफ राइस हैं, उस वैली ऑफ राइस को बचाने का एक ही रास्ता है। कस्बान जब खेती करता है तो उसका एक हस्सा अगले साल बीज में लगाने के लिए रख देता है और बाकी हस्से को कंज्यूम कर लेता है, पर वह परम्पराएं आज भारत के बाकी हस्सों में खत्म होती जा रही हैं। सारी मुसीबतों को झेलने के बावजूद भी आप स्वयं यह कठोर कदम उठा रहे हैं, यह सराहनीय है।

मेश मानना है कि इन्होंने जो मांग की है, इनकी मांग सरकार द्वारा जरूर पूरी की जानी चाहिए। वहां ट्रिज्म डेवलपमेंट के लिए आप जो भी इकोनॉमिक पैकेज दे सकें, देना चाहिए। ऐसा सिर्फ सॉलिकम के साथ ही नहीं, जतिने भी पहाड़ी राज्य हैं, चाहे नागालैंड हो, मजोरम हो, मेघालय हो, हसिचल प्रदेश हो या कोई और इलाका हो, उन सभी स्थानों को देना चाहिए। हसिचल में कई जगह ऐसी हैं कि वाकई उनकी तुलना स्विटजरलैंड से की जा सकती है। ऐसे ही इलाके उत्तराखंड और कश्मीर में भी हैं, हमारे भारत में हर जगह फैले हुए हैं, जैसे ऊटी है। ऐसे इलाकों के डेवलपमेंट के लिए सरकार की एक योजना बननी चाहिए, ताकि इन इलाकों में प्रकृति को धुएं और कार्बन से बचाया जा सके। प्रकृति को बचा कर हम प्राकृतिक सम्पदा को बढ़ा सकें और उससे कुछ कमा सकें।

आपने अभी तिलियों की बात की, तिलियां हैं, कबितु उनको बचाने के लिए आप मोबाइल टाबर मत लगाने दीजिएगा। अगर आपके सॉलिकम में मोबाइल टाबर लग जाएंगे, तो तिलियां रास्ता भूल जाएंगी, वे घर नहीं पहुंच सकेंगी और आहिस्ता-आहिस्ता मर जाएंगी, जैसे यहां पर हुआ है। मोबाइल टाबर्स के कारण तिलियां खत्म हो गईं, भंवर खत्म हो गए, मधुमक्खियां खत्म हो गईं। वकिस की गति कसिी के लिए मौत का अंजाम बन जाती है। हमें ऐसा सोच कर ही कोई कदम उठाना चाहिए कि अगर वकिस कसिी भी जीव अथवा प्रकृति की मौत का अंजाम बने, ऐसा वकिस राष्ट्र को नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल पेट भरने के लिए ही हम इसको आगे बढ़ाएं। यह सही है कि पर्यटन से रोजगार पैदा होता है। अगर एक पर्यटक कसिी राज्य में जाता है, तो उसके साथ-साथ बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार मलित है।

अंत में एक बात सॉलिकम के बारे में जरूर रखना चाहूंगा, जसिे पहले भी मैं इस सदन में रख चुका हूँ। सॉलिकम में करीब 400 ऐसे परिवार हैं, जो राजा के वक्त के हैं, वे व्यापारी लोग हैं। उनमें राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, बहिर के रहने वाले लोग हैं और बंगाल के रहने वाले हैं। वहां पर वे व्यापार करने के लिए

गए थे, कब्तु जसि वक्त राजा की ओर से सब्जेक्ट मैटर का रजिस्टर बनाया गया, उस वक्त उनका नाम नहीं लिखा गया या हो सकता है कि उन्होंने लिखवाने से इंकार कर दिया। कुछ भी हुआ हो, लेकिन उनका नाम उस रजिस्टर में नहीं लिखा गया, इसलिए आज वे सब्जेक्ट मैटर नहीं कहलाते हैं। हमारा फाइनांस डिपार्टमेंट एक टैक्स एग्जम्पशन का प्रोवीज़न देता है और कहता है कि जो सॉटिज़न है, जबकि नाम सब्जेक्ट मैटर के रजिस्टर में लिखा हुआ है, उनको ही इन्कम टैक्स का एग्जम्पशन मल्लिगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। ये लोग, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बहिर और बंगाल से हैं, सभी व्यापार करते हैं। इनमें से कोई वहां नौकरियों में हस्सि नहीं मांघता अथवा खेत्त-खलिहान में हस्सि नहीं मांघता, वे सभी व्यापारी हैं, लेकिन वे वहां के लोकलाइट्स के साथ कंफ़ीट नहीं कर सकते, क्यों कि एक तो टैक्स पे करता है और दूसरा टैक्स पे नहीं करता है। जब पी. चट्टिम्बरम साहब वस्ति मंत्री थे, उस समय भी मैंने भारत सरकार से मांघ की थी वह इसमें संशोधन लाए, लेकिन उस वक्त उन्होंने यह लागू कर दिया था। कई बार मैंने उनसे कहा कि वह उसको वस्ति कर लें, केवल 400 परिवारों की ही बात है। इसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए क्योंकि वे भी भारतवासी हैं और ये भी भारतवासी हैं, सभ्बिकम भारत का ही अंग है। सबको समान अधिकार मल्लिगा, तभी हम सब मल्लि-जुल कर पनप सकते हैं और सभ्बिकम को वाकई सुबिटज़रलैंड के बराबर का पर्यटन स्थल बना सकते हैं। इतना कहते हुए मैं इस बल्लि का समर्थन करता हूँ धन्यवाद।

4.00 P.M.

श्री मुकुट मथी (अरुणाचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, हमारे देश में हिमालय की गोद में बसे हुए पाँच प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सikkim और अरुणाचल प्रदेश। इनमें से सikkim और अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न हिमालय में बसे हुए हैं। इसके साथ-साथ, हमारा जो नॉर्थ-ईस्ट है, उसमें आठबहनें हैं। पहले इन्हें seven sisters कहते थे, लेकिन 1975 में सikkim का induction होने के बाद और फिर उसके नॉर्थ-ईस्ट काउंसिल में दाखिल होने के बाद ये सात से आठ हो गये।

हमारे लक्ष्य जो ने जो रजिोलुशन इस सदन में पेश किया है, में उसका पूरा-पूरा समर्थन करता हूँ। यह बहुत जरूरी है कि देश में टूरिज्म के विकास के लिए और सikkim को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए देश और नॉर्थ-ईस्ट के साथ-साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सikkim को पूरा समर्थन देना चाहिए, तभी वहाँ पर्यटक आएँगे। पर्यटक, विशेषकर फॉरेन टूरिस्ट्स वहीं जाएँगे, जहाँ accessibility और physical infrastructure हो। उसके लिए कॉमर्शियल एयरपोर्ट्स होने चाहिए, रेलवे स्टेशंस होने चाहिए, रेल की लाइनें होनी चाहिए और सड़कें अच्छी होनी चाहिए। अभी अहलुवालिया साहब ने कहा कि सikkim या गंगटोक पहुँचने के लिए सर्कि एक ही रास्ता है। हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार ने विशेषकर सikkim के लोगों के लिए रेलवे स्टेशन बनाने का काम शुरू किया है और वहाँ के लिए एक एयनपोर्ट भी सैक्शन किया है, लेकिन उसके काम की जो रफ्तार है, वह बहुत धीमी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्लानिंग मन्निस्टर से यह रक्विस्ट करना चाहूँगा कि वहाँ जो एजेंसीज काम कर रही हैं, उनको पर्याप्त धनराशि मिले, ताकि वहाँ जो एयरपोर्ट्स और रोड्स बनने चाहिए, उनका काम जल्दी से जल्दी पूरा हो।

जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा देश उसमें unfortunately बहुत पीछे है। जब हम यूरोपियन देशों, जैसे स्विट्जरलैंड, आस्ट्रिया या अन्य देशों से अपने आपको compare करते हैं, यूरोप और अमेरिका की बात तो बहुत दूर है, हमारे आसपास साउथ एशिया के जो देश, थाइलैंड और मलेशिया हैं, वहाँ फॉरेन टूरिस्ट्स का जो inflow है, वह भारत में फॉरेन टूरिस्ट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अभी मलेशिया में 2 करोड़ से ऊपर foreign tourists जाते हैं, जब कि भारत में 50 लाख से ऊपर वदेशी सौलानी आते हैं। इससे हम जान सकते हैं कि हम टूरिज्म के मामले में बहुत पीछे हैं। इसलिए भारत के टूरिज्म को आगे ले जाना बहुत जरूरी है। जब हम economic

advancement की बाह्य करते हैं , जब हम अपने आपको चीन के साथ या US economy के साथ compare करने लगते हैं , तो उसके साथ-साथ जो हमारी industrial growth है या physical growth है ... (व्यवधान)...

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. SAIF-UD-DIN-SOZ) IN THE CHAIR]

उपसभाध्यक्ष महोदय , जैसा मैंने बताया है कि बाहर के देशों के मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। जब हम present growth की बाह्य करते हैं या आने वाली growth की बाह्य करते हैं , तो उसमें tourism को शामिल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए development of tourism infrastructure बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि भारत सरकार के अंतर्गत एक Multi Ministerial Integrated Committee बने जिसमें टूरिज्म मंत्रिस्ट्री , प्लानिंग डिपार्टमेंट , Ministry of Civil Aviation, National Highway Authority आदि शामिल हों और भारत की टूरिज्म पॉलिसी और टूरिस्ट सर्किट बनाने के साथ-साथ हमारे नॉर्थ-ईस्ट - विशेषकर सर्बिकम तथा नॉर्थ-ईस्ट की जो 7 स्टेट्स हैं , उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी बने और इसको implement करने के लिए जितनी धनराशि की दरकार हो , वह उनको प्रदान की जाए।

उपसभाध्यक्ष जी , हम टूरिज्म को बहुत दक्षिणों में बढ़ा सकते हैं और बहुत से टूरिस्ट्स attract कर सकते हैं। हमारे इतिहास को लेकर हम टूरिस्ट्स को attract कर सकते हैं। जैसा अभी अहलुवालिया जी ने और लेफ्टा जी ने कहा कि हमारे हम्मिलय की जो सुंदरता है , कश्मीर की जो सुंदरता है , ऊंचे पहाड़ हैं , नदियां

हैं , White River Rafting है , इसके कारण हमारे यहां adventurous tourism हो सकता है। नॉर्थ -ईस्ट का जो unique culture है , उसके कारण भी हम बहुत से tourists को attract कर सकते हैं। मैं भारत सरकार को और विशेषकर टूरिज्म मन्त्रिस्ट्री को यह चेतावनी देना चाहूंगा कि जो टूरिज्म डेवलपमेंट हमारे नॉर्थ -ईस्ट में हो रहा है या भारत के अन्य भागों में हो रहा है , वह काफी नहीं है। जो स्कीम्स development of tourism infrastructure के लिए यानी होटल , रेस्टोरेंट , accommodation के लिए मन्त्रिस्ट्री में भेजी जाती हैं , हमने देखा है कि वे middlemen के माध्यम से implement की जाती हैं। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। यह जो haphazard way में स्कीम्स बन रही हैं , जसि तरह से टूरिज्म मन्त्रिस्ट्री इन चीजों को बन्ना देखे और बन्ना समझे पास कर देती है , यह ठीक नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट किसी pressure की वजह से development of tourism infrastructure के लिए यहां कोई स्कीम भेज सकती है। लेकिन , ऐसी स्कीम्स भेजने से कोई फायदा नहीं होगा , जबकि tourism के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी स्कीम्स को जो लोग recommend करा कर लाते हैं या जो middle man हैं या जो contractors हैं , वे इससे फायदा उठाने के लिए , अपनी जेब भरने के लिए ऐसा करते हैं। हमें ऐसी स्कीमें avoid करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि टूरिस्ट सर्किट बने , स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट एक साथ बैठ कर यह तय करें कि सब्सिडिज में क्या -क्या infrastructures लाने चाहिए और अरुणाचल प्रदेश , असम और नागालैंड में कहां -कहां खर्च होना चाहिए , तभी जाकर हमारा tourism successful होगा।

हमने देखा है कि थाईलैंड में एक छोटी सी नदी है , जिसका नाम river Kwai है। सेकण्ड वर्ल्ड वार में जापान ने river Kwai पर एक छोटा सा ब्रिज बनाया। उसने वह ब्रिज इसलिए बनाया था , क्योंकि वह उस पर ट्रेन चला कर अपनी आर्मी को बर्मा ले जाना चाहता था। उस ब्रिज के construction के लिए जो British Prisoners of War थे , उनको लगाया गया था। उनमें चीनी और ब्रिटिश थे। आज भी वहां river Kwai और उस पर बने ब्रिज को देखने के लिए लाखों लोग जाते हैं। सेकण्ड वर्ल्ड वार में नागालैंड में , जहां पर जापान और हमारे बीच वार हुआ था , वहां पर एक Kohima Epitaph है। यह Epitaph वर्ल्ड का बहुत सुंदर और popular epitaph है , जसि पर लिखा हुआ है , "When you go home, tell them that for their tomorrow, we gave our today". मैंने इसको कोहिमा में नहीं देखा , बल्कि मैंने इसको लंदन में देखा , जब लंदन में वेस्टमिन्स्टर के सामने , जो वार में शहीद हुए , उनके साथी या उनके relatives मोमबत्ती जला कर श्रद्धांजलि देते आते थे , वहां पर कोरियन वार के epitaph, सेकण्ड वर्ल्ड वार के epitaph और भी बहुत सारे

epitaph लगे हुए थे, उनमें कोहिमा का भी एक epitaph था। नागालैंड की capital कोहिमा बहुत सुंदर जगह है, वहां थोड़ी बहुत security problem हो सकती है।

1962 में अरुणाचल प्रदेश के दो जगह से चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। उनमें से एक का नाम वालोंग है, जिसको वालोंग बैटल कहा जाता है और दूसरी जगह का नाम तवांग है, जिसको तवांग बैटल कहा जाता है। इन दोनों जगहों का इतिहास से संबंध है। इतिहास के साथ-साथ वहां प्राकृतिक सौन्दर्य भी है, जो देखने लायक है। मैं सिर्फ सभिकम, असम और अरुणाचल के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, बल्कि ऐसी जगहों में, जहां tourist attraction है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक पैकेज बनाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे शहरों को tourist destination बना दीजिए या सारे गांवों को tourist destination बना दीजिए।

जहां नक्सलाइट की problem है या नॉर्थ ईस्ट में, जहां security problem हो रही है, यह problem basically unemployed youth के कारण है। चूंकि उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए उनको attract करके उन्हें इस काम में शामिल किया जाता है, जो देश के वरिद्ध है। वहां इंडस्ट्री immediately नहीं आसकती है, क्योंकि industrial product की मार्केटिंग के लिए जो consumer मार्केट है, वह इतनी दूर है कि इंडस्ट्री लगाने से उतना फायदा नहीं होगा। सिर्फ यहीं फायदा हो सकता है, जो service sector है, जो

tourism industry है। इस tourism industry को अगर हम importance दें , तभी जाकर हमारे नॉर्थ -ईस्ट में जो पर्यटन चल रही है , उनसे नफ़िटने में हम कामयाब हो सकते हैं।

सर, दूसरी बात यह है कि कश्मीर में इतनी सुंदरता के बावजूद वहां क्या पर्यटन है? वहां की पर्यटन आप अच्छी तरह से जानते हैं , मैं आपको उसका विकिरण नहीं देना चाहूंगा , वह पर्यटन तो बाहर से आती है जो भी हो , हमारी हिमालयन स्टेट्स , हमारे नॉर्थ -ईस्ट की ओर विशेष ध्यान दिया जाए , इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी , जो सदन में दूरिज्म को भी represent कर रहे हैं और खुद प्लानिंग मन्निस्टर भी हैं , तो मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि यह जो resolution लाया गया है , इसके साथ-साथ सारे हिमालय और नॉर्थ -ईस्ट के लिए एक सुंदर सा पैकेज बनाएं , वहां के लिए ऐसा mechanism हो जिससे tourism development को बल मिले , धन्यवाद।

डा॰ अखिलेश दास गुप्ता (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर , आजसे 35 वर्ष पूर्व जब मई, 1975 में हम लोग स्कूल में थे , मुझे याद है , जब यह खबर आई कि सच्चिकम भारत का एक हिस्सा बन गया है तो पूरे स्कूल में एक खुशी की लहर छा गई थी , स्कूल के सारे बच्चे झूम उठे थे और पूरे देश में एक खुशहाली का वातावरण बन गया था कि सच्चिकम जैसा महत्वपूर्ण प्रदेश हमारे भारत का अंग बना है। सच्चिकम का हमेशा से ही एक विशेष महत्व रहा है। जब वह भारत के गणराज्य में शामिल नहीं था , तब भी हम लोग सच्चिकम के बारे में , वहां की खूबसूरती के बारे में कल्पना किया करते थे और जब वह भारत का पार्ट बना तो हम लोग सोचा करते थे कि हम जब बड़े होंगे तो बार-बार सच्चिकम जाएंगे। आज खुशी की बात है कि सच्चिकम दबिों -दबिों बहुत तरक्की कर रहा है। सच्चिकम में बहुत जागरूक लोग हैं , वहां चार-पांच लाख लोगों की जनसंख्या है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि श्री ओटी . लेफ़चा जी ने यह resolution रखा है। मैं समझता हूं कि सच्चिकम 35 वर्ष पुराना राज्य है , जो कि सबसे युवा प्रदेश है , जैसा कि अहलुवालिया जी कह रहे थे और हमारे लेफ़चा जी भी इस राज्य सभा के सबसे युवा सांसद हैं जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है , इसकी प्रशंसा करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि इस सदन के अंदर कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है , जो यह नहीं चाहता हो कि सच्चिकम इस देश का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश बने। सच्चिकम में वे सारी संभावनाएं हैं जो उसे विश्व के किसी भी tourist centre से बेहतर बनाने में हो सकती हैं। आज मैं इस बात की भी तारीफ करूंगा कि सच्चिकम के लोगों ने , वहां की सरकार ने इस बात का प्रयास

कथिा कऱि पहले दक्षि सेऒ उनकी नऒर इस बाहऒ पर रही कऱि हम सभिकम को वश्वि केऒ मानचित्र पर एक tourist development centre केऒ रूप में develop करें। इसके लऱि उन्होंने वहां कोई ऐसी -वैसी इंडस्ट्री नहीं लाने दीऒ जसिसे कऱि वहां का वातावरण खराब हो सके , यद्यपि वहां की संभावना है और वहां कुछ hydro projects की संभावना है और वहां कुछ Hydro Power Projects है भी।

मान्यवर , कई बार बहुत सारे प्रदेशों में डमिंड उठी कऱि जोे tourists आते है , उनके entertainment के लऱि वहां कुछ होना चाहिए और सभिकम हब्दिस्तान का ऐसा प्रदेश है जसिने वहां casino खुले -आम open कर रखा है और वहां पर कई casinos है बड़ी संख्या में tourists वहां जा रहे है , लेकिन जो बेसिक समस्या है , जब अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट्स की बाहऒ हम करते है तो infrastructure के बिना यह आसान नहीं है कऱि कोई यूरिस्ट हमारे यहां आए और अब तो अंतर्राष्ट्रीय सत्तर पर हब्दिस्तान का जोे टूरिस्ट है , उसकी भी इतनी बड़ी संख्या हो गई है मुझे याद है , 1999 में मैंने Barcelona सेऒ Royal Caribbean Cruise लऱि था और उस tour में हम सिर्फ 4 Indian families थीं करीब ढाई -तीन हजार travellers थे और इनमें से कुल 4 Indian families थीं , हम 12 लोग थे बाद में शषि के कैप्टन ने जब डब्लि होस्ट कथिा तो एक-एक कंट्री के बारे में बताया , जसिमें उसने बताया कऱि इस कंट्री के इतने लोग आए है , इस कंट्री के इतने आए है और जब इंडिया का नाम आया कऱि 12 लोग आए है , तो सारे टूरिस्ट्स ने तालि यां बजाई कऱि अब हब्दिस्तानी भी आने लगे है 1999 से आज मुश्किल से 11 साल ही हुए है , लेकिन अब कोई यूरोप में कहीं भी जाए या वश्वि की कसिी भी जगह पर जाए , आज

वहां सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट्स नज़र आते हैं। पहले एक समय में Japanese बहुत अधिक जाते थे, अब हिन्दुस्तान के टूरिस्ट्स Japanese से कम नहीं हैं - Americans बहुत जाते हैं, लेकिन हिन्दुस्तानी टूरिस्ट्स बहुत अधिक हैं। आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, वहां पर हर दूसरी बस आपको हिन्दुस्तानी टूरिस्ट्स की मन्निगी। केवल यूरोप में ही ऐसा नहीं है, आजलोग घर से निकलने लगे हैं, हिन्दुस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट्स बढ़े हैं। सन्निकम एक ऐसा प्रदेश है, जो वास्तव में स्विट्ज़रलैंड से भी बेहतर बनाया जा सकता है। यहां पर वर्ल्ड की highest mountain peak कंचनजंगा है। वे स्विट्ज़रलैंड में अपने यहां का महत्व बताते हैं कि जंगफू, जो की यूरोप की सबसे बड़ी चोटी है, वहां तक ट्रेन ले जाते हैं, माउंट टटिलिस तक ट्रेन लेकर जाते हैं। वहां पूरा infrastructure developed है, हर जगह रोड्स बनी हुई हैं। यह सब कुछ सन्निकम के मामले में भी संभव है। सन्निकम के संबंध में मुझे खुशी है, अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि वहां पर रेल्वे स्टेशंस का, रेल् लाइनें बछाने का काम शुरू किया गया है, लेकिन यह गंगटोक तक तो होना ही चाहिए। इसी तरीके से एयरपोर्ट का काम 2012 में पूर्ण होना संभावित है, जिसके संबंध में अभी हमारी साथी श्री ओटी. लेफ़्चा जी बता रहे थे, उसके संबंध में मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस एयरपोर्ट को international standard का बनाया जाए जिससे उसका रनवे इतना बड़ा हो कि वहां पर इस प्रकार की कोई समस्या न आए जसि तरह की समस्या मंगलौर में लैंडिंग को लेकर आती है। वहां पर international standard का एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए। सन्निकम ने केवल वहां के लोगों के लिए, बल्कि देश भर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा revenue earner हो सकता है। हम लोग गर्व से कह सकेंगे कि अगर यूरोप का स्विट्ज़रलैंड बहुत महत्वपूर्ण है तो हमारे देश के अंदर सन्निकम बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, टूरिस्ट्स के लिए ऐसी जगह भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जहां शांति वातावरण हो। मुझे खुशी है कि सन्निकम के लोग बहुत शांतिप्रिय हैं। मान्यवर, मुझे खुशी है कि आप चेयर पर बैठे हैं। एक ज़माने में पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर बहुत हर्ष रहता था, खास तौर से युवाओं में, कि हम इस बात की गार्मियों की छुट्टियों में शरीरनगर जाएंगे, पहलगवांव जाएंगे, गुलमर्ग जाएंगे। अफसोस की बात है कि अभी वहां पर हास्रत ऐसे नहीं हैं, आज बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट्स दूसरी जगहों पर जाने लगे हैं। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं पहाड़ का महत्व जानता हूं, हमारा मर्म भी है। अभी हमारे माननीय साथी श्री एस.एस. अहलुवालिया जी नाम ले रहे थे, उत्तराखंड में बहुत बड़े-बड़े

दर्शनीय स्थल हैं। जसि समय उत्तराखंड बन रहा था, उत्तराखंड का सृजन माननीय अहलुवालिया जी और उनके साथियों के द्वारा हुआ, उस समय मान नीय आडवाणी जी गृह मंत्री थे। मैं यहां इस तरफ बैठा था तो मैंने इस बात का वरिध कथि था कि आज उत्तर प्रदेश के लोगों के लखि हमारा एक भाई हमसे अलग हो रहा है, हम मना तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हमको दर्द बहुत ज्यादा है। वे पहाड़, वे दर्शनीय स्थल, जहां दूरिस्ट्स का attraction था, आज हमारे उत्तर प्रदेश से वह सब नकिल गया। आज हम लोगों को लगता है, हम लोगों को महसूस होता है कि वास्तव में पहाड़ का कतिना महत्व है, जहां हरियाली है, पहाड़ हैं, forests हैं, पानी है और खूबसूरत पर्यावरण है। वह सब कुछ सन्निकम में है। मैं समझता हूं कि हम्मिचल प्रदेश बहुत सुंदर है, उत्तरांचल भी बहुत सुंदर है, लेकिन सन्निकम एक ऐसा प्रदेश है जो पूरी तरह से इन सबसे भरा हुआ है। अभी लोगों का आकर्षण तो उस तरफ है लेकिन उस आकर्षण को पूरी तरह से व्यावहारिकता में नहीं बदला गया है। वहां जाकर लोगों ने देखा नहीं है, दूरिस्ट्स उसके बारे में सुनते हैं, वे वहां जाना चाहते हैं लेकिन जाने की संभावनाएं नहीं हैं, कम संभावनाएं हैं जैसे वहां एयरपोर्ट बहुत दूर है। मैं समझता हूं कि अगर वहां से गंगटोक जाना है तो कम से कम दो-तीन घंटे का पहाड़ी रास्ता है, अच्छी रोड्स नहीं हैं, कहीं रेलवे स्टेशंस नहीं बने हैं। मुझे खुशी है, उस जमाने में चंडीगढ़ से शमिला तक की एक छोटी ट्रेन बनी थी। आज भी वह चर्चा का वषिय है, उसमें जाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। शमिला में तो एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है, लेकिन हम लोगों को भी अपनी फॅमिलीज के साथ उन छोटी-छोटी ट्रेन्स में जाना अच्छा लगता है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : दार्जलिंग के लिये भी है।

डा. अखिलेश दास गुप्ता : जी, दार्जलिंग के लिये है। इस प्रकार ये सब चीजें जो हैं, ये सस्किम में होनी चाहिए। इस समय हमारे माननीय खेल मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। वे बहुत जागरूक खेल मंत्री हैं, खेल मंत्री के रूप में इनका देश को बहुत बड़ा contribution है। महोदय, सस्किम infrastructure में स्पोर्ट्स की बहुत संभावनाएं हैं। आज राष्ट्रीय खेलों के लिये आपने National Sports Authority की तरफ से national level पर कई व्यवस्थाएं की हुई हैं, वैसे ही सस्किम में भी अगर आप इस संबंध में सोचें तो अच्छा होगा। यहां पर कई सारी indoor games हैं, कई outdoor games भी हैं, फुटबॉल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां की एक रेस है। यह एक ऐसी रेस है, जसिसे खलिाड़ियों का खेलकूद में, ट्रेनिंग सटेमिना बनता है। कभी में भी राष्ट्रीय स्तर का खलिाड़ी रहा हूं, मुझे मालूम है कि कसि तरह से टीम-टीम, चार-चार घंटे ट्रेनिंग करनी पडती थी। हमारे साथ बहुत सारे साथी खेलते थे जो मणिपुर, सस्किम और नॉर्थ ईस्ट से आते थे। हम लोग ट्रेनिंग करके भाग-दौड़, चार-चार, पांच-पांच घंटे मेहनत करके सटेमिना बनाते थे, उनमें इन-बॉम सटेमिना होता है। यह इनके अंदर अपने आप खूबी है। इनको जसिनास्टिम में ट्रेड कसि जा सकता है, फुटबाल में ट्रेड कसि जा सकता है। यह पर्टिकुलर एरिया में बहुत बडी संभावना है। Sikkim is the best area for that.

युवा कार्यक् रम और खेल मंत्री (डा. एम.एस. गलि) : उपसभाध्यक्ष जी, आदरणीय मेंबर जो सस्किम की बाह कर रहे हैं और खेल के बारे में यहां पर जो कुछ हो सकता है, फुटबाल का हो सकता है, माउंटैनियरिंग तो है ही, जसिनास्टिक का हो सकता है, हर चीज का हो सकता है, वह में बल्लिकुल जाती तौर पर जानता हूं। मैं तो 1960 में दार्जलिंग में तेजजिंग के साथ में ट्रेड हुआ था, सस्किम में भी रहा, जहां से रश्ति आज तक है। जो कुछ भी सस्किम के लिये कर सकते हैं, खेल में कर सकते हैं, वहां बल्लिकुल करने के लिये मेरा ग्रेट इरादा है।

डा. अखिलेश दास गुप्ता : मैं बहुत आभारी हूं माननीय खेल मंत्री जी का और एक नया रूप मंत्री जी का पता लगा कि सन् 1960 में ये वहां वर्ल्ड क्लास माउंटैनियर के साथ वहां गए, मैं लेफ्टा जी आपसे अनुरोध करुंगा कि यह पार्लियामेंट में तो आपने उठाया है, अब गलि साहब को कॉफी पर, चाय पर अपने घर बुलाइए और इनके यहां भी बार-बार चाय पीने जाइए।

लेफ्टा जी, आपको मेरा भी धन्यवाद देना चाहिए, आप खुद भूल

गए थे , मैंने मामनीय खेख मंत्री जी से अनुरोध किया और देखिए ,
 उन्होंने खड़े होकर कह दिया। लेषचा जी , हम आपके आभारी भी हैं
 कि आपने ऐसा रेजोल्यूशन रखा , जसि पर हम लोगों को अपने विचार
 रखने का मौका मिला। यह खूबसूरत प्रदेश और खूबसूरत बने , यह हम
 सब की मंशा है और इच्छा भी है। आपने अपने यहां बहुत
 संभावनाएं अपने स्तर पर देखी हैं , आपकी सोसाइटी बहुत
 प्रोग्रेसिव है। दूरिस्ट वहीं आता है जहां सब तरह की
 फेसिलिटी हों , एंटरटेनमेंट फेसिलिटी हों , स्टेडिंग फेसिलिटी
 हों। आपने भारत का पहला केसिनो भी वहीं बनाया है। यह भी
 आपकी एक बहुत प्रोग्रेसिवनेस है और सखिकम के लोग नशिचत
 रूप से बधाई के पात्र हैं और मुझे उम्मीद है कि सारा हाउस इस
 पर यूनाइटेड है और केन्द्र सरकार भी वहां नशिचत रूप से
 प्रयास कर रही है। मामनीय खेख मंत्री , जो सरकार के वरिष्ठ
 मंत्री हैं और हमारे नारायणसामी जी यहां बैठे हुए हैं , शायद
 वे दूरिज्म मनिस्टर को यहां रजिजेंट कर रहे हैं। मुझे
 खुशी है कि सरकार के द्वारा बहुत शीघ्र वहां इन सारे
 कार्यों की ओर ध्यान दिया जाएगा और सखिकम को एक विशिष्ट
 राज्य मानते हुए कार्य किया जाएगा। हब्दिस्तान के कुछ
 सफॉट ऐसे हैं जन्किो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से दूरिस्ट सेंटर
 बनाया जा सकता है , जहां पर आसानी से आप अपनी फेमिली के साथ
 जा सकते हैं। आजभी वहां पर शांति है , खुशहाली है और वहां लोग
 खुशी -खुशी जाना चाहेंगे। हम लोग वदिश क्यों जाएं , क्यों
 यूरोप जाएं , हम क्यों भागते हैं अमेरिका की तरफ? मैं देखता
 हूं हर गर्मियों की छुट्टी में हमारे बहुत सारे साथी यूरोप
 जाते हैं। आज वहां मेरा बेटा पढ़ता है , संस्कृत में मेरी
 बेटी पढ़ती है। हर बार

आकर कहते हैं कि पाप्रा , मेरा फलां दोस्त आस्ट्रेलिया जा रहा है , कोई फलां कंठी जा रहा है , आप हमें कहां ले जाएंगे ? तो एक मन में रहता है। हम क्यों नहीं अपने देश के अंदर ऐसी जगह जाना चाहते हैं , हम चाहते हैं उस जगह जाएं जहां बच्चे भी एन्जॉय करें , हम भी एन्जॉय करें , जहां लगे कि इस जगह पर जाकर सेफ्टी भी है , सुरक्षा भी है और साथ-साथ बच्चों को कुछ सीखने का भी मौका मल्लिगा , देखने का भी मौका मल्लिगा , ऐसा सभिकम बनाने की इच्छा हर भारतीय की है और उसमें हम सब लोग सभिकम के साथ हैं , मामनीय लेफचा जी के साथ हैं। लेफचा जी , आपको बहुत-बहुत बधाई , पूरे दल्लि से हम आपके इस प्रस्ताव पर स्वागत करते हैं और सपोर्ट करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, the natural beauty of the North-Eastern Region is God-gifted. Only those people who have visited the North-Eastern Region can recognize its beauty. It is covered with beautiful mountains, mighty rivers, animal sanctuaries and lush-green forest areas. The North-Eastern Region contributes a lot to the economy of our country because it has natural resources. We have fresh water resources; we produce crude oil and it is one of the parts of our country which can attract foreign tourists from any part of the world due to its natural beauty. Being a representative of the North-Eastern Region, I am very proud to say that I am an Indian and belong to the North-Eastern Region of this country. I am very grateful to Mr. Lepcha for moving such a good Resolution today in this House. I must congratulate you. I am standing here to speak in favour of this Resolution. Beauty of Sikkim is God-gifted. Only those people who have visited Sikkim can recognise its beauty. To attract foreign tourists, we need good hospitality, we need peaceful atmosphere, we need progressive people and we need eco-friendly people. Each of this thing is possible in Sikkim. Sikkim is very peaceful and progressive State of our country and everyone should recognize this. The State Government is doing a very good job in Sikkim. It is a very very peaceful State. Another beauty of Sikkim is its people. They are very innocent; they are very hospitable; they behave properly and they like their State. I have visited many parts of India and I have seen that people don't bother about environment. But the people of Sikkim like their State very much and they like to protect their environment. Sikkim is an environment-friendly State. Sikkim is one of the States

of our country which believes in organic cultivation. I am very happy that the hon. Sports Minister, the dynamic Sports Ministers of the country, has given an assurance to the House. I would like to draw the attention of the hon. Sports Minister to the fact that Baichung Bhutia, who is the pride of our country, belongs to Sikkim. He is a great footballer. We should salute Baichung Bhutia and we should salute Sikkim for producing such a great footballer. Hon. Sports Minister, you are not only a dynamic Minister but you have first-hand experience of the North-Eastern Region. Since you are friendly towards the North-Eastern Region, you have extensively visited it. So, I request you to do something to set up a football academy and such things in Sikkim. It has a peaceful area and its atmosphere is very good. If it is done, it will give a very good signal to the people of North-Eastern Region that the Government of India is also taking interest for the development of North-Eastern Region. Sir, many people spoke about the problems faced by

Sikkim. But I would like to say that it is a new-born baby of our country. For any new-born baby, parents must take some special care of it. They need good vitamin; they need good food; they need good behaviour to grow up in a healthy way. So, parents have to look after newly-born baby. So, Sikkim is a newly-born baby of our country. The Government of India should give some special attention to the State of Sikkim in the same way as parents give special attention to their newly-born baby. My colleague, Dr. Akhilesh Dasji, very rightly said that there is no airport in the Sikkim. People have to go from Bagdogra to Gangtok. The road communication, particularly below the hill side, is very bad. There is only a small road that is there. Two cars cannot cross each other on this road. If one car is coming from the east side and the other car is coming from the west side, then the road is very narrow. So, some special attention is required for the improvement of the roads. Regarding the railway, I don't know whether the people of Sikkim are interested for this or not because they are very environment-friendly people. They want to protect their environment. This is a very good message. Sir, it is very interesting to note that Sikkim is the only State of our country where people believe in organic cultivation. They don't believe in fertilizers. Not only Sikkim, if anybody visits Tawang of Arunachal Pradesh, from a tourism point of view, in future, he would not like to visit Switzerland. The beauty of Tawang is better than that of Switzerland. But, we have failed to give proper publicity globally. At global level, our advertisements are not good.

For Assam, everybody knows the hills, everybody knows the beauty of tea gardens, and everybody knows the beauty of mighty Brahmaputra. People should know why Kaziranga is famous. It is famous for one-horned rhinoceros. There is a place in Assam, a small town just 35 kilometres from Guwahati which is known as Haju. Sir, why is Haju famous? It is famous because it is the only place in our country where *Mandir* and *Masjid* stand in the compass. We are fighting over Ayodhya. Visit Haju, visit Assam and you will see the integrity of our society. Hindus and Muslims observe the festivals of Hindus as well as those of Muslims together. They observe Eid festival together. Not only that, Sir, there is a place in Haju which is known as Pua-Mecca. Pua-Mecca means one-fourth of Mecca. The Muslim people believe that if one person visits Pua-Mecca four times, it is equal to the visit of Mecca-

Medina. This is the place. But, people should know about it. People do not know much about our region. So, I would like to request Tourism Ministry that in the interest of our nation, in the interest of national integrity, they should give publicity to these places because this message should reach the entire world that India believes in secularism, and this secularism is very well protected in our country, in our North-Eastern States.

Sir, the insurgency problem of North-Eastern Region is known to everybody. All the time, the Government says that we have to solve this problem. But, the people should know that the Government of India is serious about their problems and the Government of India respects them and want to help them. If this sentiment reaches the people of North-Eastern Region seriously,

this will solve all the problems. No military is required; no Army is required. Your confidence is required. Your protection is required. With these words, I totally support the Resolution moved by Shri O.T. Lepcha, and, I hope the entire House would support him. In the end, I will again make a request to the hon. Sports Minister. He served as Secretary, Ministry of Agriculture, and, also as the Chief Election Commissioner. All the time, he looks after the interests of the people of backward regions. Sir, you are here today. You are a lover of the North Eastern Region. Please do something for development of sports in the North Eastern Region. Thank you.

श्रीमती बमिला कश्यप सूद (हमिचल प्रदेश): महोदय, मैं ओटी. लेप्चा जी के संकल्प पर बोलने के लिये खड़ी हुई हूँ। यह सच है कि सन्निकम देश के सुन्दर राज्यों में से एक है। मैं भी पहाड़ी क्षेत्र हमिचल से आती हूँ, विशेषकर जसि पहाड़ों की रानी कहा जाता है, शमिला से आती हूँ। मैं पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं और खूबसूरती से भली भाँति परिचित हूँ। बड़े शहरों में पॉल्यूशन के कारण आसमान का रंग कभी नीला दिखाई नहीं देता, पहाड़ों में घने पेड़ों से छनकर जब सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ती है, तो रात की चाँदनी से अलग ही नजारा होता है। जब ऊँची-ऊँची बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर सूर्य चमकता है, तो देखते ही बनता है। सन्निकम के 87 प्रतिशत हिस्से में वन है। यानी forest land है, वहाँ पर कोई कारखाने नहीं लग सकते हैं। वहाँ के लोगों की जीविका का साधन पर्यटक ही हो सकता है। जब एक पर्यटक आता है, तो उसे गाड़ी चाहिए, चाय चाहिए, खाना चाहिए, रहने को जगह चाहिए और गाइड चाहिए। इतने लोगों को रोजगार मिलाता है। सन्निकम की तरह से ही हमिचल प्रदेश है, वहाँ भी पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। हमिचल को तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हमिचल में भी बड़े सुन्दर-सुन्दर पर्यटक स्थल हैं, धर्मशाला हैं, चम्बा है और चम्बा में खजियार बहुत खूबसूरत जगह है, कुल्लू-मनाली है, कब्बिनौर और लाहौल स्फीति में भी कई ऐसे स्था न हैं, जबिकी सुन्दता का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि इनको विकसित किया जाए, तो देश और वदेश से पर्यटक खिचि चले आएंगे। हमिचल में हरबल प्लांटेशन का हब बनाया जा रहा है, परन्तु वहाँ आज तक रेल मंत्री जी का ध्यान कभी नहीं गया और जो रेल लाइन अंग्रेजों के समय की थी, उससे आगे एक इंच भी नहीं बढ़ी। यहाँ पर बड़े Airport बनने चाहिए जसिसे by Air आना जाना सुविधापूर्वक हो तथा समय की बचत भी हो। मेरा मामना है कि सन्निकम को सुविधाएं

दी जाएँ साथ ही हम्मिचल को भी ऐसी सुविधाएँ दी जाएँ। सन्धिकम , अरुणाचल , हम्मिचल और उत्तराखंड का सीमावर्ती राज्य है। यहां पर चीन की घुसपैठ की आशंका है। देश के दूसरे हिस्सों से लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएँ तथा बार - बार आएँ , इसके लिये वहां पर्यटन का बढ़ावा मल्लि। इससे राष्ट्रियता को भी बढ़ावा मल्लिगा। सन्धिकम के राजा ने सन्धिकम को बाहरी आक्रमणों से बहुत बचाकर रखा और वहां की संस्कृति व सभ्यता को भी संजोकर रखा तथा भारत का एक प्रदेश बना दिया। भारत को इस पर गर्व होना चाहिए। ऐसे ही कश्मीर के राजा ने भी कश्मीर का भारत में वल्लिय कयिा था , परन्तु आज जैसी समस्या कश्मीर के साथ है , वैसी कभी सन्धिकम के साथ न हो। अगर हम सन्धिकम की तरफ ध्यान न दे पाएँ और सन्धिकम को पूरी तरह develop न कर पाएँ , तो इसके लिये सड़क मार्ग बहुत अच्छे होने चाहिए। सभी क्षेत्रों को रेल मार्गों से जोड़ा जाए और वायु सम्पर्क में भी वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिये वल्लिष वल्लितीय सहायता प्रदान की जाए। कहीं कल को यह दूसरा कश्मीर न बन जाए , इसका ध्यान भारत सरकार को रखना चाहिए। हम्मिचल , सन्धिकम आदि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं , पूरे देश के लिये ऑक्सीजन के सिलिंडर का काम करते हैं। यहां पर जड़ी बूटियाँ भी होती हैं , जो भारत के नागरिकों को दवाइयों के रूप में जीवन देती हैं। भारत सरकार का ध्यान इन क्षेत्रों की ओर अधिक होना चाहिए और इन राज्यों को वल्लिष सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि सन्धिकम को और उसके साथ जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं , उनकी तरफ ध्यान दे और ज्यादा से ज्यादा वल्लितीय सहायता प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

SHRI SILVIUS CONDPAN (Assam): Thank you, Sir. I rise to support the Resolution moved by the hon. Member, Shri O.T. Lepcha, to develop tourism in the State of Sikkim. He has already mentioned in his speech while moving the Resolution that Sikkim is fully gifted with nature and the people of Sikkim and the Government of Sikkim, in particular, are very careful from destroying the gift of nature that is given to them. Very many States in our country have ruined the gift of nature by damaging forests. Now, they are suffering because of the change of nature and change of climatic conditions. As my friend, Mr. Baishya, I also come from the North East. There was a time during the British regime when the undivided Assam was known as Scotland of East. Today, industries have not come in the North East as they should have, for various reasons. I don't want to dwell on those points. But as far as this Resolution is concerned, for development of tourism industry, there is ample scope to be taken up by the Government of India which would have been a very important source of revenue for the Central exchequer. At the same time, youths who are today termed as extremists could have been brought to a normal situation by giving them employment opportunities, by developing the tourism industry in all the eight States, including Sikkim regarding which there is the Resolution today for discussion. Our hon. Member Ahluwaliaji dealt with many important points concerning tourism development in Sikkim. Similarly, Sir, same attractions are available in Arunachal Pradesh, in Nagaland, in Mizoram, in Manipur and in Assam. But the tourism department ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. SAIF-UD-DIN SOZ): Excuse me, the time for the Private Members' business is over.

SHRI SILVIUS CONDPAN: Sir, shall I continue?

श्री ओ.टी. लेफ्चा : सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बोलने वाले बहुत थे, लेकिन शान्तिवार होने के कारण चले गए हैं, इसलिए आपइसको अगले सेशन में कंटीन्यू रखें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): It will be continued in the next session. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. SAIF-UD-DIN SOZ): The sense of the House is that we shall take up this Resolution in the next session. Further

discussion on this Resolution will take place in the next session. The House stands adjourned till 11.00 a.m. on Wednesday, the 25th August, 2010.

The House then adjourned at forty-five minutes past four of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 25th August, 2010.